



महाराणा प्रतापसिंह

ओंकार आदर्श चरितं माला का ६ वा पुष्प

## प्रताप चरितामृतः

चंद्रिष्ठ चरित और विचारों का निर्दर्शन )

वतन पर हम किदा होंगे,

वतन प्यारा हमारा है ।

यही भद्रबूब है अपना

हम इसके यह हमारा है ।

लेखक

### पं० नन्दकुमार देव शर्मा

[ भूतपूर्व प्रधान सम्पादक “विहार बन्धु” भार्य मित्र संयुक्त सम्पादक सदर्म प्रचारक, सहायक मन्त्री हिन्दी-साहित्य-म्मेलन आदि ]

सम्पादक

खर्गीय पण्डित ओंकारनाथ घाजपेयी

प्रकाशक

काल्पनीधि पं० विश्वभराय घाजपेयी एस० आर० य०

वाच्यक्ष

ओंकार मेस एवं ओंकार गुकटिपो प्रयाग ।

—०—

पण्डित विश्वभराय घाजपेयी के प्रबन्ध से ओंकार मेस प्रयाग मे छपा  
हुतीयघार २००० ] मन् १६२३ [ मूल्य १८ ]



## प्रकाशक की भूमिका ।

आज हम अपने प्रिय पाठकों के समक्ष महाराणा प्रताप सिंह की जीवनी तृतीयवार प्रकाशित करते हैं इसमें सन्देह नहीं, कि जनता ने हमें पूर्ण रूप से उत्साहित किया है क्यों कि इस आदर्श चरित माला में कई पुस्तकों तो आठ बार तक प्रकाशित हुईं और वह हाथों हाथ विक गईं वास्तव में जनता के अन्दर आदर्श एवं महा पुरुषों की जीवनी पढ़ने का जितना प्रचार थीं और उत्साह होगा देश में तथा जाति में उतनी ही जागृति होगी । यों तो आगाल वृद्ध वनिता को आदर्श जीवनियों का स्वाध्याय करना चाहिये परन्तु उन नर युवकों के लिये कि जो अभी नवीन कोमल पीड़ीं की तरह है, कि उन्हें जिधर वाहो मोड़ सके हो, ये आदर्श जीवनियां प्रकाश-स्तम्भ का काम देती हैं जिनके सहारे ये संसार-सागर की उत्ताल तरणों के बीच में भी अपनी जीवन नौका सरलता एवं शान्ति पूर्वक खे सके हैं ।

यस प्रकाशक तथा लेखक के उद्देश्य और उद्दीग उसी दिन सफल होंगे जब कि जाति और देश इन नर रत्नों के मूल्य को समझे गा और नव युवक-दल इन के जीवन को अपना लक्ष्य मान कर जीवनोद्यान में प्रवेश करेगा ।

लेखक की लेखनी के विषय में कुछ भी लियना ऐसा ही च्यर्थ है जैसे गुलाब पर गुलाबी रंग चढ़ाना वर्योंकि लेखनी स्वयं ही अपने चमत्कारिक अन्तर्भावों को एक बार पढ़ने से जागृत कर देती है—रहा प्रजनीय पं० नन्द कुमार देवं शर्मा जी के विषय में, ये तो साहित्य-सरोबर के पुराने विहार करने वाले में हैं और वृद्ध साहित्य सेवी हैं इन्होंने ही अपनी लेखनी से सर्वोच्च पूज्य पिता पं० ओड्डारनाथ वाजपेयी जी के समय में इस आदर्श जीवन चरित माला को गूढ़ना आरम्भ किया था । पूज्य पिता देव के दिवं गत होते ही यह माला काटों में उलझ गई थी पर उस ईश्वर की दया से कि जिस के छुटकी

बजाते ही राई का पर्वत खड़ा हो जाता है जिसकी लीला के  
निहार कर जवान में लगाम लगानी पड़ती है, उसो को असीम  
अनुग्रह से आदर्श जीवन चरितं माला का हार फिर तरयार  
होने लगा है

बंस यहं चारित माला के हार का उपर्योग उन्हीं सज्जनों  
के भेट है कि जिनकी कृपा के हम अचं तक ब्रह्मणी हैं —

## निवेदन

लो ! व्यारे पाठको ! आज आप की सेवा में महाराणा प्रताप सिंह का जीवन चरित समर्पित है। यह ओंकर आदर्श-चरित माला की छट्टवीं संल्या, और उस माला में मेरी यह पाचवीं भेट है। जिस तरह से आप लोगों ने “आदर्श-चरितमाला” में मेरी पूर्ण पुस्तक—स्वामी विजेकानन्द, स्वामी दयानन्द, महात्मा गोरखले और स्वामी रामतीर्थ को अपनाया है, वैसे ही मुझे आशा है कि यह मेरी लघु पुस्तक भी आपके पसन्द आवेगी।

सन् १९६३ में, जय में दिल्ली से “सद्दर्मप्रचारक” की सेवा परित्याग करके, अपनी जन्मभूमि मधुरा में आया था तब मेरे अनुरोध से, मधुरा की आर्यमित्र समा ने अपने यहाँ संसार के कतिपय महापुरुषों के जीवन पर कुछ व्याख्यान रचये थे उनमें से महाराणा प्रतापसिंह और छत्रपति शिवाजी के जीवन चरित पर मेरे व्याख्यान हुये थे, तब से कई मित्रों का उक्त दोनों व्याख्यानों को छपा देने का अनुरोध हो रहा था इधर ओंकार प्रेस के स्वामी और मेरे श्रिय मित्र पण्डित ओंकार नाथ घाजपेयी का आग्रह—महाराणा प्रताप का जीवन-चरित लिपाने का होरहा था, अतएव मैंने यह छोटा सा जीवन चरित लिय दिया है, हिन्दी में कई जीवन चरित महाराणा प्रताप के नाटक उपन्यासों के रूप में हैं, दो एक ऐतिहासिक रीति पर भी लिखे गये हैं। इस जीवन चरित तथा अन्य जीवन चरितों में क्या अन्तर हैं, इसकी छान बीन करनेवाले पाठकों को दूसरे चरितों से इस चरित को मिला कर पढ़ना चाहिये तब उन्हें इस जीवन चरित तथा अन्य जीवन चरित का कुछ भेद भालूम होगा।

यह जीवन चरित टाड साहब कृत राजस्थान के इतिहास के आधार पर लिखा गया है पर जिन ऐतिहासिक पण्डितों का टाड साहब से मतभेद है, उनकी सम्मति भी मैंने कुटनोट ( पाठ टिप्पणियों ) में दे दी है। यदि कुछ भूल चूक हुई हो, अथवा कोई नयी वात सूझे तो पाठक सूचित करने की कृपा करें। यथा सम्भव, उस पर ध्यान दिया जायगा।

## प्रस्तावना

६पुराणमितिहासाश्च तथाख्यानानि यानि च  
महात्मानां च चरित श्रोतव्यं नित्यमेव च,  
( महाभारत )

† " There is not petty state in Rajasathan that has not had it's Thermopyloe and scarcely a city that no produced its Leonidas — " Tod's Rajasahitan

एक सहदय बड़ाली लेखक ने क्या ही अच्छा कहा है कि राजपूताना भारतवर्ष का हृदय है। जैसे मनुष्य का प्रधान घल हृदय में रहता है और हृदय के घल से जैसे प्राकृत महत्व सूचित होता है वैसे ही भारतवर्ष की प्रधान शक्ति राजपूताने में है। एक समय राजपूताने की महाशक्ति से ही भारतवर्ष का गौरव सुप्रतिष्ठित हुआ था। इस समय भारतवर्ष की महाशक्ति राजपूताने में हो या न हो, परन्तु आज भी इस गई बीती दशा में इस वध पतन के समय में मेवाड़ समस्त राजपूताने का, नहीं नहीं समस्त भारतवर्ष का शिरोमणि है। आज भी चित्तौड़ का किला राजपूताने की तथा भारतवर्ष के हिन्दुओं की वर्तमान दशा पर धाड़ भार कर रो रहा है कौन ऐसा हिन्दू सन्तान और सहदय व्यक्ति है जिसका फलेजा

६पुराण, इतिहास, आख्यायिकायें तथा महात्माओं के चरित्रों को नित्य सुनना चाहिये।

† राजस्थान में ऐसी कोई धोटी सी भी रियासत नहीं है, जिसमें कभी यमा पुली की भाति युद्ध न हुआ हो और कोई ऐसी धोटी भगरी नहीं है, जिस में खियोनिहाज की भाति बीर पुरुष ने जन्म म लिया हो। लेखक

चित्तोड़ का दुर्ग देख कर न फटता हो। चाहे जैसे पत्थर क हृदय का मनुष्य फ्यों न हो पर, चित्तोड़ के किले को देखकर उसकी रुलाई आये विना नहीं रहती है। यदि कोई मुझसे पूछे कि हिन्दुओंका सच्चा तीर्थ कौन सा है तो मैं विना किसी संकोच और विना प्रतिवाद के भय के, यहो उत्तर दूँगा कि हिन्दुओं का सच्चा तीर्थ चित्तोड़गढ़ और पञ्चाब की पंजिक्र भूमि चिलियानवाला है। इन दोनों स्थानों से बढ़कर भारत धर्म में तो क्या ससार में भी और कोई स्थान है या, नहीं इस में संदेह है। इतिहास लेखकोंने, श्रीस के लियोनिडाज और मिलताइडिस की प्रशसा, के घडे २ पुल बाधे हैं पर सच पूछिये तो इस भारतमाता की गोद में, अनेक लियोनिडाज और मिलताइडिस खेले हैं।—

अरे-प्राचीन सभ्यताभिमानी और तीर्थयात्रा के अनुरागी हिन्दुओ ! एकबार आखे खोलकर देखो तो सही कि तुम्हारी प्राचीन सभ्यता की गदाही चित्तोड़गढ़ दे रहा है। उसकी एक २ दीवाल पर तुम्हारी प्राचीन सभ्यता के निशान बने हुए हैं। चित्तोड़गढ़ का एक २ कोना एक एक ईट तुम्हारी प्राचीन सभ्यता का पता दे रही है। तीर्थयात्रा के श्रेमियो ! एक बार चित्तोड़गढ़ की यात्रा करो तो सही उसकी दीवालों पर तुम्हें साक्षात् धर्म के दर्शन होंगे, जिस शान्ति की खोज करते २ तुम बाबले हो रहे हो वह सच्ची शान्ति चित्तोड़गढ़ के भीतर पैर रखते ही प्राप्त होती है। क्या देखते नहीं हो कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ की अबलाओं ने भी प्रबल अनुओं के इत खट्टे किये हैं जहाँ की खियों ने अग्नि में कूदकर अपने अपने धर्म की रक्षा करके आन्मिक बल का परिचय दिया है, जहार के सुकुमार कोमल बालकों ने भी अपने देश की रक्षा के निमित्त अपने प्राणों की आहुति दे दी है। यदि इस ससार में

ऐसा कोई पवित्र स्थान समझा जा सकता है तो वह पवित्र स्थान भारतपर्व का मुकुटमणि मेवाड़ है जहा के निवासियों ने स्वतन्त्रता देवी की प्रसन्नता के लिये अपने रून की नदी बहाई थी। जहा की राजपूत सन्तान के जीवन का मूलमन्त्र भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र का यह वाक्य “हतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्” रहा था। क्या उसी पवित्र भूमि मेवाड़ और उसके नायक महाराणा प्रतापसिंह की कथा सुनना हिन्दू माध्यम पवित्र कर्त्तव्य नहीं है? आओ पाठक! आओ! आज उसी पवित्र भूमि और उसके नायक प्रात-स्मरणीय महाराणा प्रतापसिंह की आलोचना करके अपने दृद्य को पवित्र करें।

मेवाड़ का इतिहास आदि से लेकर अन्त तक आत्मोत्सर्ग का इतिहास है। मेवाड़ के इतिहास में आत्मोत्सर्ग के जैसे ज्वलन्त और आदर्श हृष्टान्त मिलते हैं वैसे दुनिया के दूसरे देशों के इतिहास में मिलने असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य हैं। मेवाड़ के आत्मोत्सर्ग का इतिहास ऐसा वैसा नहीं है वह मुर्दांदिलों को जिन्दा करनेवाला इतिहास है। सूखी हड्डियों में गून उचालने वाला है निराशा रूपी सागर में गोते याने-वालों को चित्तोड़ का इतिहास वाशा रूपी बल्ली है। इबती हुई जातियों को चित्तोड़ का इतिहास तीनके का सहारा है। अधिक क्या कहें मत्यु रूपी शव्या पर पड़े हुये राष्ट्रों को सखीवनी बूटी है पर दुय है कि हमारी हिन्दी भाषा में मेवाड़ के कितने ही इतिहास बन जाने पर भी राष्ट्रीय दृष्टि से मेवाड़ के इतिहास की किसी ने आलोचना नहीं की है। जिस देश के निवासियों का यह कथन था कि महात्माओं के चरित तथा इतिहासों का नित्य पाठ होना चाहिये उस देश में वर्तमान समय में इतिहास की आलोचना न होना अत्यत उ

है। भारतामाता के प्रत्येक आत्मगौरव प्रिय स्वाभिमानी पुत्र को विशेषत हिन्दुओं को मेवाड़ का इतिहास और उस के ध्रुव तारा महाराणा प्रतापसिंह का चरित नित्य-प्रति पढ़ना और सुनना चाहिये।

# मेवाड़ (मेवाड़ी भाषा)

मेवाड़ का संक्षिप्त परिचय और पूर्व वृत्तान्त

जय जय जय चित्तीर दुर्ग,  
 जय गढ़ सिर रत्न जगत विख्यात ।  
 जिसने धर्म प्रेम के कारण,  
 सहे शत्रुओं के आघात ।  
 जिसके पत्थर कड़ह तक पर,  
 लिया हिन्दुओं का इतिहास ।  
 जिसको देख हमें हो सकता,  
 अपनी दृढ़ता का आभास ॥

श्रीचर

---

पाठक महाशय ! हम बडे असमझस में पडे हुये हैं कि आप को मेवाड़ और उसकी राजधानी चित्तीर का फ्या परिचय दें भला कभी कोई उड़ली के इशारे से भुवनभास्कर का परिचय दे सकता है ? हमारी भी इस समय ऐसी ही दशा हो रही है कवि लोग अपनी घटपना शक्ति के सहारे छोटी २ घटनाओं की बड़ी २ महिमा घर्णन करते हैं । छोटी घटनाओं को घढा घढा कर घर्णन करने में पाठकों को आश्चर्य में टाल देते हैं पर हम न तो कवि हैं न हम में कल्पना शक्ति है न हमारे मेवाड़ की ऐतिहासिक घटनाएं ऐसी छोटी हैं जिनका घढा घढा कर घर्णन किया जाय । न मेवाड़ की घटनायें किसी

पुत्र हुब्बा उसका नाम वाप्पारावल पड़ो। वाप्पा बडे प्रतापी थे उन्होंने केवल अपना सोयाहुआ राज्य ही प्राप्त नहीं किया चलिक अतुलनीय पराक्रम से बड़े बड़े घोरों के दांत 'खट्टे' कर दिये थे। विजय में ही लोकप्रियता निवास करती है जो लोग अपने चाहुबल से यश सौरभ के शिखर पर चढ़ना चाहते हैं विजया देवी उनको जयमाल पहनाये विना नहीं रहती है। अतएव शानै विजयादेवी बीर वर वाप्पा से भी प्रसन्न हुई अपने अनन्त पराक्रम के बल से वाप्पा ने चित्तौड़ पर अधिकार प्राप्त कर लिया। वाप्पा केवल चित्तौड़ पर ही अपनी ध्वजा पताका फहरा कर शान्त नहीं हुए थे किन्तु उन्होंने इस्पहान कन्दहार काश्मीर ईरान ईरान तृरान आदि पश्चिम देशों के बादशाहों को भी परास्त किया था।

वाप्पा का अवस्था चित्तौड़ के राजसिहासन पर विराजते समय केवल १४ या १५ वर्ष की थी। सन् ७२८ ई० में उन्होंने चित्तौड़ का राजकाय ग्रहण किया था और ईरान तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। उन्हीं वाप्पा-रावल के बंशधरों के हाथ में आज तक मेघाड़ चला आता है।

केशवादित्य बडे प्रतापी थे, हृष्ठर के भील राजा ने उनको अपना उत्तराधिकारी बनाया, हृष्ठर तथा उसके आस पास के स्थानों में केशवादित्य के बंशधर नागादित्य तक राज करते रहे। नागादित्य की मृत्यु के समय वाप्पा की अवस्था केवल 'तीन वर्ष' की थी, जिस लक्ष्मणावती ने केशवादित्य की रक्षा की थी, उसके बंशधरों ने वाप्पाकी रक्षा की थी। वाप्पा परम प्रतापी था, उसका नाम कालभोज था, परन्तु प्रजा-प्रियताके कारण उसका नाम वाप्पा पड़ा। यदि हमारे पाठकों की इच्छा हुई तो इस जीवनी का नेत्रक यहुत शीघ्र वाप्पारावल की 'जीवनी' पाठकों की सेवा में उपस्थित करेंगा। लेखक

चितौड़ के राजपूतगण आज भी वाप्पारावल की अपना आड़ि पुरुष कहकर देवतुल्य पूजा करते हैं।

वाप्पारावल के बहुत से पुत्रहुये थे जिन्होंने अपने भुजा वल से दूर दूर तक अपना अनन्त वैभव बढ़ाया था। इस समय उनके वंशधर्णों के अधिकार में उदयपुर झज्जरपुर प्रताप गढ़ और और वासवाड़ ये चार रियासतें हैं। नैपाल का स्वतंत्रराज भी सीसोदिया घश के राजपूतों का बतलाया जाता है और झज्जरजे व के दात सट्टे करनेवाले प्रात स्मरणीय शिवाजी महाराज भी सीसोदिया घश के ही कहे जाते हैं। अस्तु हम मेवाड़ को इस समय स्वतंत्र इतिहास लिखने नहीं बैठे हैं इस लिये कालक्रम की घटनाओं को छोड़कर केवल यही कहना है कि वाप्पारावल की नवीं पीढ़ी में रावल खुमान बहुत प्रसिद्ध हुये थे उन्होंने एक भोपण युद्ध में \* खुरासान के एक आकमणकारी के दात सट्टे किये थे उस समय भारतवर्ष का विशेष अध पतन नहीं हुआ था आज कल की भाँति उस समय भारतवर्ष के हिन्दू अपने आत्मनमान को तिलाङ्गलि नहीं बे चुके थे, उस समय तक हिन्दू नरेश स्वाधीनता और एकता-देवी को उपासना से भुह नहीं मोड़ चुके थे। एक हिन्दू नरेश की विपत्ति में सब हिन्दू नरेश सम्मिलित होते थे अतएव रावल खुमासिंह की सहायता के लिये बड़ी बड़ी दूर से हिन्दू खुराशान के आकमणकारी से लड़ने के लिये इकट्ठे हुये अपने सहायक हिन्दू नरेशों की सम्मिलित चेष्टा से खुमानसिंह जो ने विजय लाभ की थी। खुमानसिंह जो बड़े प्रतापी थे रावल

छकई प्राचीन पुस्तकों में महसूद खुरासानी लिखा है, परतु कर्नल दाढ़ का अनुमान है कि यह खलीफा मासू था। जिसको अपने बाप प्रलीफा हारू से खुरासान, जरलिसान, कामुल सिनध और हिन्दुस्तान वे दूलाके जो उसके भागीन थे, मिले थे। (लेखक)

बुमानसिंह जी से रावल समरसिंह जी तक कितने ही राजा गढ़ी पर बैठे परन्तु समरसिंह जी बड़े शूरवीर हुए थे जिस समय पारस्परिक फूट से क्षत्रियकुलकलंक भारतमाता को पराधीनता की बैड़ी में जकड़ने वाले कञ्जीज के जयचन्द्र से इशारा पाकर शहाबुद्दीन गोरी ने अन्तिम हिन्दू नरेश पृथ्वीराज की राजधानी दिल्लीपर आक्रमण किया था उस समय \* समरसिंह जी अनुपम वीरता का परिचय देकर समर में वीर गति को प्राप्त हुये थे ।

समरसिंह जी के † समान ही मेवाड़ के अनेक अगणितवीरों ने समय समय पर अद्भुत परिचय देकर ससार को चक्रित और स्तभित कर दिया था । समरसिंह जी के पश्चात् कितने ही राणा गढ़ी पर बैठे थे परन्तु स वर्त १३३१ (सन् १२७५ ई०) में राणा लखमसी या लक्ष्मणसिंह जी गढ़ी पर बैठे थे । राण जी के समर्थ न होने तक उनके काका भीमसिंह राजकार्य करते रहे । भीमसिंह की महारानी पद्मावती, को दूरण करने के लिये दिल्लीश्वर अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर चढ़ाई की थी । राजपूत वीरों ने उस समय अलाउद्दीन खिलजी के खूब दात खट्टे किये थे, परन्तु अगणित मुसलमान

\* समरसिंह जी ने युद्ध में बड़ी वीरता प्रकट की थी । उनके पुत्र कल्याण मुसलमानों से युद्ध करते हुए भारे गये तब भी उनको कुछ शोक न हुआ ।

† जिस समय युद्ध कर रहे थे उस समय उन्हें पृथ्वीराज के मरनेका समाचार मिला । पर समाचार सुनकर भी अपने कर्तव्य से विचलित नहीं हुए । कोई कोई इतिहास लेपक कहते हैं कि पृथ्वीराज भारे नहीं गये थे । उनको शहाबुद्दीन गोरी ने जीता हुआ पकड़ा था । स्वर्गीय कविराज श्यामलदास जी का मत है कि समरसिंह जी पृथ्वीराजके समकालीन नहीं थे परन्तु मथुरा के स्वर्गीय पं० मोहनबाबा विष्णुलाल पंड्या ने इसका खंडन एक शिखा लेख

सेनिकों के सामने राजपूत थीर कथ तक ठहर सकते थे, अत पर चित्तोड़ का भाग्य फूट गया, महाराणी पद्ममात्रती तथा अन्य राजपूत महिलाओं ने अग्नि में फूदकर अपने को मल प्राणों को अग्निदेव की आहुति में देकर धर्म की रक्षा की थी। राजपूत थीरगण छे मास तक लगातार लड़ते रहे थे।

मेवाड़ की स्वाधीनता नष्ट हो जाने पर भी, मेवाड़ मुसल मानों के द्वार्यों में बहुत दिन नहीं रहा। अपनी मातृभूमि की दुर्दशा देखकर मेवाड़ के क्षत्रियवीरों की हृद्दियों में साधी नता के लिये धून उथल उठा। उन्होंने थोड़े दिन पीछे ही अपनी मातृभूमि मेवाड़ में स्वाधीनता को धजा पताका फहरा दी। महाराणा हम्मीरसिंह जी के समय में जो लक्ष्मण सह जी से पीछे कई पीढ़ियों में हुए हैं, मेवाड़ पूरी ओज पर था। उसके पीछे कितने ही, महाराणा चित्तोड़ की गढ़ी पर बैठे उन्होंने अनेक सद्गुटों का सामना करते हुए, मेवाड़ की स्वाधीनता की तथा चित्तोड़गढ़ के गौरव की पूर्ण रक्षा

के आधार पर किया है। कविराज श्यामलदास जी का यह भी मत है कि घन्दकविहृत जो “पृथ्वीराज—रासी” विद्यात है, यह अमली रासी नहीं है। स्वर्गीय पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंचाय स्वर्गीय कविराज श्यामल दास जी के इस मत के प्रतिकूल भैं।—मेवाड़ के स्वर्गीय महाराणा सर फतेहसिंह जी के समय कविराज श्यामलदास जी ने मेवाड़ को बृहत् इतिहास “बीर विनोद” लिखा था, जिसमा कुछ ऐसा यहा के सज्जन कीर्ति सुनारक घन्नालय में छाया भी था, परंतु न मालूम इस इतिहास द्वा ढापना बचों बन्द कर दिया गया, छाया दृश्या भी प्रकाशित नहीं होने पाया हमारे मेवाड़ के बतमान अधीक्षर महाराणा साहेब से प्राप्तना, है कि वे इस इतिहास को प्रकाशित करके इतिहास मेसियों के कौतूहल को निवारण करने की कृपा करें। लेपक

की थी। अनेक विषदों से घिरने पर भी वे अपने कर्तव्य से व्युत नहीं हुए थे। महाबीर हम्मीर के सौ वर्ष पीछे राणा कुम्भाजी ने मेवाड़ की विशेष उन्नति की। पराजित शत्रु के पदलित करना ही वीरों को शोभा नहीं देता है, मरे को मारने से कमा यहांदुरी है। हारे हुए शत्रु के साथ दयापूर्ण व्यवहार करना भी सच्चे वीर का कलब्य है। राणा कुम्भाजी का चरित्र भी ऐसे देव भाव से भरा हुआ है। उन्होंने कितनी ही चार अपने वैरियों के छक्के हुड़ादिये थे, गुजरात और मालवा देश के मुसलमानों को रणक्षेत्र में से भगा दिया था। परन्तु फिर भी उन्होंने अपनी शरण में आये हुये वैरियों के साथ अच्छा व्यवहार किया। राणा कुम्भाजी के सामान देवभाव से भरा हुआ चरित्र बहुत ही कम मिलता है।

यह थात नहीं है कि चित्तौड़ में अन्यान्य देशों और भारतवर्ष के अन्य प्रान्तों के समान कुल कलङ्क और कुलाङ्गार उत्पन्न न हुए हो। चित्तौड़ में भी समय समय पर कुलाङ्गार और कपूत सन्ताने हुई हैं, उनके खोड़े काल्यों को देखकर कहना पड़ता है कि परत्मात्मा की भी ऐसी इच्छा थी कि चित्तौड़ के गौरव की रक्षा हो। क्योंकि मेवाड़ के इतिहास के मनन करने से पता लगता है कि जब कभी चित्तौड़ में एकाध कुल कलङ्क और देशद्वारा ही उत्पन्न हो भी गया है तब चित्तौड़ में अधिकांश राजपूत वीरों के हृदय में अपने के गौरव को रक्षा का ही भाव रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक दो कुल कलङ्क के पीछे, चित्तौड़ के सबके ही सब लोग अपने देश से शत्रुता कर बैठे हों अथवा सोने के लालच में अपनी मातृभूमि को परधीनता की बेड़ी में जकड़वा दिया हो। महाराणा कुम्भा जो के ही कुलाङ्गार, कुल कलङ्क पुनर उदयसिंह जी हुये थे। कुलकलंक उदयसिंह जी ने अपने पिता,

महाराणा कुम्भा जी को विष दे दिया था। जिससे कुम्भा जी का देहान्त हुआ।

पितृधातक उदयसिंह ने कुछ काल तक मेवाड़ की राजगद्दी की तथा वाप्पारावल के पवित्र सिंहासन की कुछ दिन तक कलंकित अवश्य किया था, उदयसिंह के समय में मेवाड़ का राणा कुम्भा जी के परिश्रम, घोरता और शुद्धिगत से जो गौरव आप्त हुआ था, उसका बहुत ही हास हुआ। पर चित्तोड़ के राजपूत मुसलमानों के समान न थे, जिन्होंने अपने पिता को कुंद करनेवाले और भाइयों की हत्या करनेवाले और द्वन्द्वज्ञेव का साथ दिया था। राजपूतगण अपनी मातृभूमि की दशा देखकर चिह्न देखकर चिह्न है गये, महाराणा कुम्भा जी के जेडे कुमार रायमल जी ने उदयसिंह से चित्तोड़ को अपने हस्तगत कर लिया। उदयसिंह मुसलमान बादशाह से सहायता के लिये प्रार्थना करने को दिल्ली गये और बादशाह को सहायता के उपलक्ष्य में अपनी बेटी व्याहने का प्रण भी किया। परन्तु राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराज, सब्राटों के सब्राट जगदीश्वर को मंजूर न था कि सिसोदिया बश को कलंक लगे। वाप्पारावल का पवित्र बश अपवित्र हो, चित्तोड़ को मान मर्यादा नष्ट हो जाने। बस उदयसिंह ज्योही बादशाह से अपनी बेटी देने की प्रतिश्वाकर के बला, ज्योही उस पर विजली गिरी। मानुं परमात्मा ने मेवाड़ के राणाओं को इस प्रतिश्वाकी रक्षा का कि “हम कर्मा अपनी बेटी मुसलमान बादशाहों को नहीं देंगे” मेवाड़ के इतिहास में ऐसी ऐसी घटनाओं को देख कर ही रुहना पड़ता है कि यह कहावत ठीक ही है कि जो धर्म की रक्षा करता है कि वह कहावत ठीक ही है।

राणा रायमल एवं उनके में भी पगड़ अपनी

पर थी। पर भारतवर्ष के आदर्श, उच्च आदर्श वहुत कुछ बदल चुके थे। महाभारत के महासंग्राम के पीछे, भाई भाई में जो चारडालिनी फूट प्रचलित होगई थी। उस चारडालिनी फूट ने \*राणा रायमल के तीन पुत्रों के हृदय में भी सान प्राप्त कर लिया था। जिसके कारण उस समय मेवाड़ की विशेष उन्नति नहीं हो सकी।

\*राणा रायमल जी के तीन पुत्र थे ज्येष्ठ पुत्र बाद्र के साथ लड़नेवाले सागा या सग्रामसिंह थे दूसरे पृथ्वीराज तीसरे जयमल। सग्रामसिंह बीर नान्त, और गम्भीर स्वभाव के थे। पृथ्वीराज घडे पराक्रमी, साथ ही उत्पाती थे। ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण सग्रामसिंह राजसिंहासन के उत्तराधिकारी थे। पृथ्वीराज और सग्रामसिंह में पारस्परिक झांडा राज्य के लिये हुआ था, जिससे संग्रामसिंह मारा गये थे। इसपर कुद्द होकर रायमल ने पृथ्वीराज को अपने राज्य में निकाल दिया था। पृथ्वीराज की बीरता के सम्बन्ध में इतिहास में वहुत सी आश्चर्यजनक घटनाएँ मिलती हैं। कहते हैं, एक बार चिंचौढ़ के दरबार में मालवा देश के बादशाह का एक सेवक आया था राणा रायमल उससे बड़ी सादगी से बातचीत कर रहे थे। पृथ्वीराज को सेवक के प्रति अपने पिता रायमल का यह वर्ताव उठालगा। वे सोचने लगे कि जिन रायमल जी के पिता राणा कुम्भा ने मालवा के बादशाह को छ महीने तक कैद में रखकर छोड़ दिया था, उन्होंके पुत्र रायमल बादशाह के सेवक से हूस तरह नर्सता से बातें कर रहे हैं। यह विचार कर अपने पिता से बादशाह के सेवक से बातचीत करने की मनाई की, जिसपर रायमल जी ने कहा—

पृथ्वीराज! भाई तू घडे बादशाहों को कैद करनेवाला होगा पैर मुझे से अपना राज्य चढ़ाना है। यस हसी पर पृथ्वीराज दरबार से उठे दिये। अपनी सेना इकट्ठी करके मालवा पर चढ़ाई करदी और बादशाह को कैद कर के अपने पिता के चरणों में रख दिया और कहा “पिता जी! इस मालवीदाम से पूछो कि यह कौन है। इस भाति अपने पिता की

जिनने दी इतिहास लेखकों ने ग्रीस देश की कतिपय महत्वपूर्ण घटनाओं को लेफर आकाश पाताल एक कर दिया है। परन्तु रोज और तलाश की जाय तो भारतवर्ष के इतिहास में एक से एक यद्यकर महत्वपूर्ण घटनाएँ हुईं हैं। यदि रोम को प्रूतस के कारण अभिमान है तो इस गवे थोते समय में आज भी भारतमाता का राणा रायमल के कारण मस्तक ऊचा है। यदि प्रूतस ने अपने पुत्र की न्याय की रक्षा के लिये

फर फिर उसे आदर पूर्वक छोड़ दिया, जिस समय का इस यह वृत्तान्त हित रहे हैं उस समय भारतवर्ष अपने प्राचीन आदर्शों से बहुत कुछ गिर चुका था। परन्तु वर्म विगदी दरा मधी राजगृहों में आपस में जो बड़ाई आगे होती थी। वाके वृत्तान्त सुनने से ज्ञात होता था। कि यह भारतवर्ष के लिये भुवण युग था। पृथ्वीराज और वाके चाचा सूरजमलजी के पारन्तरिक युद्ध का हाल एकत्र चकित और स्तम्भित होना पड़ता है। सूरजमन और पृथ्वीराज में चितौट की गही के लिये झाजा होआया था। दिन मर पृथ्वीराज और सूरजमल दोनों में युद्ध युद्ध हुआ, एक दूसरे की सेना की मुठभेड़ हुई। अन में दोनों की सेनाओं ने राणि होजाने के कारण युद्ध बन्द किया और यित्राम करने लगे। उस समय पृथ्वीराज और सूरजमल मध्य में जो यातांलाप और मिलन हुआ था वैसा शायद अन्य किसी देशमें इतिहास में देखते में नहीं आता है। लडाई हो चुकने के पीछे पृथ्वीराज अपने काका सूरजमल, जो के पास गये। और पूछा — काकाजी अब आपके धार केरे हैं? सूरजमल, उम समय धार सिलवा रहे थे। सूरजमल — “वैद्य! तुमको देखकर मुझे यही चुनी हुई इप-लिये धार सूरज गये हैं। इसक पीछे पृथ्वीराज ने भोजन मांगा। काका भतीजे दोनों ने साथ भोजन किया। चलते समय पृथ्वीराज ने अपने काका का दिया हुआ पान मी खा लिया और कुछ श का भी नहीं की। इसरे रोम सुगद अपने काका से युद्ध करने और उसी दिन युद्ध समाप्त करने की प्रतिज्ञा करके चले गये। इसपर दिन फिर युद्ध हुआ और युद्ध हो चुकने के पीछे चाचा भतीजे

प्राणों का \* दण्ड दिया तो राणा रायमल ने, 'न्याय और धर्म की रक्षा के लिये अपने पुत्र के प्राणघातक को सोने के कड़े और बरनीर का राज्य पारितोषिक स्वरूप दिया। इन्हें एड के एक राजेकुमार को एक जज के जेल दण्ड देने पर अङ्गरेजी इतिहास लेखकों ने इन्हें एड के उस समय के अधीक्षित वैसे ही मिले कि मानो युद्ध हुआ ही नहीं था। अहा! घर भारत चर्चा का वैसा सुन्दर सुहावना समय था। बर्नेल टोड ने इस घटना को अपने इतिहास में वर्णित करके निम्न टिप्पणी लिखी हैं—

"It will show the manners and customs so peculiar to the Rajputs, to describe the meeting between the rival uncle and nephew—unique in the details of strife, perhaps, since the origin of man—Col. Todd —  
वैक्षक

“जब रोम में प्रजातन्त्र राज्य की स्थापना हुई थी तब कलेतिनियस का भतीजा और धूम का पुत्र प्रजातन्त्र राज्य के नए करने में अभियुक्त हुये थे। कलेतिनियस ने अपने भतीजे को उचित दंड से कुछ कम दंड देना चाहा पर धूम ने अपने पुत्र को ग्राणदंड की आँखें दी। लेखक

‘एलीला नामक एक पठान ने राव सुरतान का राज्य टाकाटोड छीन लिया था। सुरतान की पुत्रों तारावती बड़ी रूपवती और धीरागना थी। उसने अपने पिता का राज्य छुड़ाने की कठोर प्रतिज्ञा की। राणा रायमल का पुत्र जयमल तारावती के गुणों और रूप की प्रशंसा सुनकर उससे विवाह करने को तयार हुआ। राव सुरतान ने जयमल का यह प्रस्ताव स्वीकार किया पर कहा कि पहले हमारो राज्य मुसलमानों के हाथ से छुड़ा दो तब हम तारा तुमकी देंगे। जयमल ने भी पठानों के हाथ से राव सुरतान के राज्य छुड़ाने की प्रतिज्ञा की। परन्तु अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के पहले ही तारा को लेना चाहा था, वहसीं इसी पर कुद्र होकर सुरतान ने जयमल को मार डाला था। उस समय राणा रायमल के जेडे थेटे संग्रामसिंह का कहीं पता न था—दूसरे बेटे श्रीवीराज को राज से निकाल दिया था।

श्वर का मुक्ककठ से प्रशसा की है। परन्तु हाय ! अपने प्यारे पुत्र के धध पर राणा रायमल ने अपना कहेजा पत्थर से भी मारी और कड़ा करके, पुत्र के धातर के प्रति जो असीम उदारता प्रकट की थी, उसकी बहुत से इतिहासों में नाममान को भी चर्चा नहीं है।

राणा रायमल के पीछे संग्रामसिंह जी ने चित्तोड़ से राज सिहासन को सुशोभित किया था। “यथा नामस्तथा गुण”—जिसे संग्रामसिंह जी का नाम था, वैसे ही वे गुणों में अलौकिक थे। वास्तव में संग्रामसिंह संग्रामसिंह ही थे। उन्होंने समरक्षेत्र में समय समय पर अपनी अलौकिक ओरता का परिचय देकर राजस्थान भर को सुन्ध कर लिया

केवल एक जयमल ही उन का पुत्र मांजूद था। परन्तु अपने पुत्र के धातक से यड़ता नहीं लिया। जयमल के मरने पर उन्होंने धैर्य धरकर गम्भीर भाव से यही कहा,- ‘जिसने लड़की के बाप को इजत लेनी चाही, सो भी उम्ही आपसि द गमे, उसे जो ग्राण्डण्ड दिया यथा है वह उचित ही है’।—ऐस्क

\* हङ्गरेंड वे इतिहास की घटना यह है—“हङ्गरेंड का एक बादशाह स्थान जिसका नाम (Henry V) पाचवा है नरी था, ठीक २ इस समय याड नहीं आता, युवराज रहते समय बड़ा उत्पाती था। एक बार युवराज रहते समय, जज गोसाहन ने उसके एक साथी को जिसी अपराध में जेल का दृढ़ दिया। इस पर गुस्से में आकर युवराज ने जज के मुद पर एक शप्पट मारा। जज ने इसका विवार न करके कि वह युवराज है उसको भी जेल की सजा दी। जब बादशाह ने इस घटना को सुना तो जज और युवराज दोनों की प्रत सा की। कहते हैं जब युवराज पाचवे हैनरी के नाम से बादशाह हुआ तब वह बेस जज से जिसने उसका युवराज रहते समय सजा दी थी उछ भी नाराज नहीं हुआ, किन्तु इसके साथ न्यायशील होने के कारण किया।

था। उनके समय में समस्त राजपूत सामन्तगण एक ही विजय-वैजयन्ती के तले इकट्ठे हुये थे। भारतपर्य के लिये वह विलक्षण समय था। 'हथिनी सो लक्ष्मी विचल इत उत झोंका खाय'—कवि के उपर्युक्त शब्दों के अनुसार—दिल्ली के राजसिंहासन के लिये मुसलमानों के कितने ही घशों में पारस्परिक झगड़े होचुके थे और हो रहे थे तुग़लक, सब्बद तिलजी, लोदी और अनेक मुसलमानी घश, महाराज युधिष्ठिर तथा महाराज पृथ्वीराज, राजधानी इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली) में अपनी लीला दिखा चुके थे। उस समय तक राजपूतों ने राष्ट्रविप्लव का साथ नहीं दिया था, उन्होंने दिल्ली के बाद-शाह की आधीनता स्वीकार नहीं की थी। उस समय तक राजपूतगण सोने चांदी के लोभ में अपनी प्राण प्यारी जन्म भूमि की स्वतन्त्रता बेचने के लिये तैयार नहीं हुये थे। उस समय तक राजपूतों के क्षत्रिय वीरों ने देश द्वोहिता का टीका अपने माथे पर नहीं लगाया था। सोलहवीं शताब्दी के आरम्भ में जिस समय स ग्रामसिंह मेवाड़ के राजसिंहासन पर विराजे थे, उस समय इवाहीम लोदी, दिल्ली का बादशाह था। उसी समय मुगलराज्य की जड़ जमाने वाले बावर ने भारत पर आक्रमण किया था।

बावर अन्यान्य आक्रमणकारियों के समान केवल धन दौलत के लूटने की ही इच्छा नहीं रखता था। किन्तु उसकी महत्वाकांक्षा अपने राज्य को जड़ जमाने और उसके विस्तार करने की थी। लोदीवंश का सौभाग्य सितारा उस समय झब चुका था। पानीपत के मैदान में इवाहीम लोदी और बावर में युद्ध ठन गया। विजय लक्ष्मी इवाहीम लोदी से रुठ गई और बावर पर प्रसन्न होकर उसको जयमाला पहिनाई। बावर ने लोदी वंश पर विजय प्राप्त करते ही अपने राज

के विस्तार करने को चेष्टा थारभ की इधर राणा संग्रामसिंह जी भी बावर की करदूतों से गफिल न थे। उन्होंने देखा कि इस समय तनिक भी निश्चिन्त रहने से समस्त हिन्दू राज्य यवनों के पदाकान्त होगा, बावर से लड़ने के लिये तैयारियाँ करने लगे। प्रथम युद्ध में बावर \* राणा सांगा जी से पराजित हुआ पहले युद्ध में मुगल सेना के धुरें उड़ गये थे। राजपूत सेना की बीरता देखकर मुगल सेना बड़ी हताश हुई। पर बावर उन माई के लालों में से न, था जो असफलता प्राप्त होने पर निराशा के सागर में गोते खाने लगते हैं। अथवा हतुद्धि होकर अपने उद्देश्य से मुह फेर लेते हैं। पहिली बारे युद्ध में सफलता प्राप्त न होने पर उसने फिर युद्ध का ढानी † राणा सांगाजी भी सच्चे क्षत्रिय द्वारा की भाति बावर से भुकावले' को आगे बढ़े।

प्यारे पाठको ! जानते हो कि इस देश का भाग्य क्यों फूटा है ? अनेक दीर लालों के होते हुये भी हमारी भारत माता

६ राणा संग्रामसिंह जी का दूसरा नाम राणा सांगा था—लेखक

+ "सांतु सराहे साधुता, जती जोखिता जान, रहिमन साचे सूर की दौरी करे बतान,,—ठीक ही है बावर ने अपने जीवन चरित में राणा सांगा को बड़ी सारीक बिली है। राणा सांगा ने मात्रा गुजरात तथा अय स्पनों के मुसलमानों से अठारह बार युद्ध किया था। सभा युद्धों में राणा सांगा को जय प्राप्त हुई थी। उनका समस्त जीवन दीर पर्म पालन करने ही में बीता था। वीरब्रत पालन करने ही में उनकी एक शाप्र, एक हाथ और एक पैर नष्ट होगे थे, परन्तु तब भी वे अपने ब्रत से टले नहीं। उन्होंने पतिज्ञा की थी कि जादशाही सेना पर विजय प्राप्त किये विना कभी अपनी राजधानी चित्तोड़ में मर्ही आउंगा। यह प्रतिज्ञा करके वे पहाड़ों में घुसे गये थे। परन्तु इस पतिज्ञा के थोड़े दिन पीछे ही उनका देहान्त हो गया, जिससे उनकी यह मनोशापना पूर्ण नहीं हो सकी—लेखक।

के पैरों में पराधीनता की वेडा कैसे जकड़ दी गई थी ? इस देश के अनेक कल्कलंक और भारत माता के अपने कपूरों के कारण ही न ? जिस समय राणा सांगा बावर के मुकाबले के लिये आगे बढ़े उस समय बावर ने सन्धि का प्रस्ताव उपस्थित किया । राणा सांगा जी की ओर से रायसेन का राजा सलहदी तोंवर सन्धि की बात चीत करने लगा और बह विश्वासघाती देशद्रोही सलहदी तोंवर बावर से मिल गया जिससे दूसरे युद्ध में राणा जी हार गये । अरे कुलकुलकी ! नराधम !! सलहदी तोंवर !! तुझ जैसा कपूत भारत माता की खोख में उत्पन्न न हुआ होता । तो इस देशका इतिहास ही पलटा द्वा जाता । परन्तु विधि के विधान को कौन रोक सकता है । इस युद्ध के थोड़े दिन पीछे ही महाराणा सग्रामसिंह उपनाम सांगा जी परलोक के सिधार गये जिससे हिन्दू जाति की विशेषत राजपूतों की, मेवाड़ के क्षत्रिय वीरों की सब आशाए मिट्टों में मिल गई । राजपूत जाति और मेवाड़ भूमि अनाथ हो गई ।

सग्रामसिंह की मृत्यु के पीछे मेवाड़ राज्य में बहुत कुछ उल्ट फेर हुए । जिनको यहा लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना ही कहना पर्याप्त है कि सांगा जी के पीछे उनके दो घेटे रत्नसिंह और विक्रमादित्य ने वारी वारी से कुछ वर्ष तक राज्य किया था । रत्नसिंह वीर थे अपने पिता के राज्य में से एक अंगुल जमीन भी बावर अधिका मालवा के बाद शाह के हाथ में नहीं जाने दी किन्तु घीर होने के साथ ही साथ रत्नसिंह कुछ उजइ और कोधी भी थे । इसी से दूदी के

३४ दो के राव सूरजमल जी से रत्नसिंह जी के भगवेका कारण यह था- श्रीगंग के प्रधान राजा सारंगदेव के दो पुत्रिया, यी, एक रद्वनि ही दो व्याहो थी । दूसरी दूदी के राव सूरजमल को । इस लिये दोनों में

- १० राव सूरजमल को एक घरू झगड़े के कारण मारकर आप भी उन्हीं के हाथ से मारे गये ।
- ११ चिकिमादित्य में धीरों के योग्य कोई गुण न थे । गुजरात के बादशाह ने दूसरी बार चित्तौड़ को विघ्वस किया था ।

पारस्परिक अत्यन्त प्रीति थी । परन्तु वही प्रीति दोनों के लिये विषमय फल उत्पन्न करनेवाली हुई । कहते हैं एक समय बूदी के राव सूरजमल जी चित्तौड़ में सो रहे थे, वहा पुरविया सरदार ने हसी में एक तिनका से राव का कान गुदगुदा दिया । राव जी अचेत सो रहे थे, चौंककर उठ खैड़े और अपने राडे से पुरविया को बहाँ मार डाला । पुरविया का लड़का पूरणमल अपने पिता का घदला लेने का अवसर हृदने लगा और राणाजी के कान राव जी के विरुद्ध भरने लगा । एक समय सूरजमल जी अपनी समुराल गये थे, वहा बड़ी साली-राणा जी की रानी भी मौजूद थी राणा जी की रानी के अनुरोध से तीर से एक पालतू सिंह को मार गिराया । इस पर रावजी की साली को बड़ा अचैभा हुआ । चित्तौड़ पहुंच वर रावजी की साली ने अपने पति राणा जी से कहा । राणा जी ने समस्त वृच्छान्त अपने पुरविया सरदार पूरनमल से कहा । अवसर पाकर पूरणमल ने यह पही पढ़ा दी कि रावजी ने आपकी रानी जी से मित्रता गाठ ली है । इस बहम में आकर राणा जी रावजी के प्राण लेने का उतार हीगये । वे सूरजमल जी के मारन के विचार में बूदी आये और उनसे शिकार होलने के लिये कहा । दूसरे दिन राणा और राव दोनों शिकार होलने गए वहाँ राणा और उनके साथियों ने राव पर धावा किया जिसमें राव मारे गये पर राव ने मरते मरते राणा और उनके पाच साथियों की जान ले ली । कहते हैं जब एक नौकर ने राव सूरजमल की माता से उनकी मृत्यु समाचार कहा तब राव की माता ने बड़े जोश से कहा कि मेरा बेटा अकला ही मारा गया है । कोई पुत्र जिसने मेरा दृथ विया है अकेला नहीं मारा जा सकता है । ऐसे ही राव माता ने रुदा वेसे ही मृत्यु में से एसे जोर से दृथ की धार निकली कि जिस पथर पर दृथ की धार टपकी वह पथर ही टूट गया । इसने में ही राय की माता को समाचार मिला कि राव में मरते मरते राना सहित पान आदमियों को मार दिया है ॥ लेखक ॥

उस समय राजपूतगण भोग विलासी और डरपोक राजा की आधीनता के अभ्यासों न थे। विक्रमादित्य अपने क्षत्रिय बीरों को किसी तरह से प्रसन्न नहों कर सके। प्रसन्न करना तो दूर रहा उलटा अपने कर्मों से अपने राजपूत सरदारों को नाराज़ कर दिया। जिससे मेवाड़ के सरदारों में अनवन हो गयी थी। इसमें सन्देह नहीं कि घर की फूट जंगत में बहुत बुरी होती है वैसियों को धुर की फूट से लाभ उठाने का अवसर मिल जाता है वहस इस फूट से चित्तोड़ को सदैव के लिये, अपने आधीन करने से मालवा और गुजरात के मुसलमान बादशाह कर्मों चूकने लगे दोनों ने मिलकर मेवाड़ को बाट लेना चाहा था। परन्तु विक्रमादित्य से लाय अप्रसन्न रहने पर भी राजपूत बीरों ने चित्तोड़गढ़ की रक्षा के लिये अपने प्राणों की आहुति दी और चित्तोड़ में दूसरा शाका \* हुआ।

\* शाका उसे कहते हैं कि जब राजपूत लोग निराश होकर केसरिया बाना पहन कर शान्त्र से लाइने जाते हैं। उस दशा में राजपूत लक्खनाएँ अग्नि में कूद कर प्राणों की आहुति दे देती है। इस भाँति पहला शाका, श्वालाहीन विलक्ष्णी के समय में हुआ था। दूसरा शाका यह हुआ, इस शाके में घारह हजार लक्खनाओं ने अग्नि में कूद कर अपने धर्म की रक्षा की थी। राजमाता जवाहरबाई ने इस युद्ध में बड़ी बीरता दिखाई थी, यह कवच पहन कर युद्ध स्थल में पहुंच गई में तलबार लेकर मुसलमानों से स्वयं युद्ध करने लगी और राजपूत बीरों की दृत करने लगी। मुसलमानों की तोप का गोला राजमाता जवाहिर बाई के में लगा जिससे युद्ध में उसका देहान्त हो गया। इस युद्ध में ३२ हजार मरे गये। यह शाका सन् १५३० ही में हुआ था। जब सदयसिंह की माता कर्णेवती ने देखा कि युद्ध में जवाहिर बाई मारी गई तब यह विचार कर कि कहीं यहन लोग राजपूत लक्खनाओं को स्पर्श न करे अग्नि में कूद कर धर्म की रक्षा करने के लिये राजपूत विर्यों को सत्साहित किया था। वूदी के राजाओं ने इस युद्ध में अच्छी बीरता दिखाई थी। लेपक ।

कुछ दिनों के लिये चित्तौडगढ़ उस समय मुसलमानों के हाथ में चला गया था। परन्तु राजपुत वीरों ने किसी न किसी तरह से उसका फिर उद्धार किया। राणा विक्रमादित्य को राजगढ़ी से हटाकर घनबीर को गढ़ी पर विठ्ठलाया और यह सलाह ठहरी कि जब तक उद्यसिंह घडे न हों तब तक घनबीर राज्य करें। घनबीर पृथ्वीराज का दासी पुत्र था। उसकी इच्छा हुई कि उसके रहते हुए चित्तौड़ की राजगढ़ी पर कोई न चैठे। अतएव पहले उसने विक्रमादित्य की हत्या की पीछे उसने यालक उद्यसिंह को भी मार डालना चाहा। घनबीर के पेसे खोटे विचार को देख कर उद्यसिंह की धाय ने, जिसका नाम पन्नादासी था, अपने स्वामी पुत्र, राज पुत्र, चित्तौड़ के उत्तराधिकारी, भावी राजा की रक्षा करने की ढानी। पन्ना ने उद्यसिंह जी की रक्षा के लिये जो कुछ किया था, उसने उसका नाम चित्तौड़ के इतिहास में भारत-वर्ष के इतिहास में, नहीं नहीं ससार के इतिहास में सदैर के लिये सुनहले अक्षरों में अद्वित कर दिया। कहो! जानते हो! अपने स्वामी और राजपुत्र की रक्षा के लिये, उस अबला ने अपने किस आत्मिक बल का परिचय दिया था? उस अबला ने जिस भाति सबल हृदय होकर आत्मोत्सर्ग का उपलन्त उदाहरण उपस्थित किया था, वैसा उदाहरण ससार की उन्नतिशील जाति के इतिहास में बहुत कम देखने में आवेगा। पन्ना ने राजपुत्र उद्यसिंह को एक टोकरी में सुलाकर फूल पत्तों से ढककर एक नाई से कहा कि इसे अमुक स्थान में ले जाओ और उद्यसिंह के स्थान में प्राणों से प्यारे अपने पुत्र को सुला दिया। जब घनबीर आया तब अगुली का इशारा अपने घेटे की ओर कर दिया। घनबीर ने पन्ना दासी के पुत्र को, उद्यसिंह समझकर बध कर डाला। पन्ना की अँगों

पन में भी दूर नहीं होते हैं। कौन नहीं जानता कि कौरव पाण्डवों की वाल्यावस्था की विद्वेषाग्नि ने ही महाभारत का महासंग्राम मचवाया था। कौन नहीं जानता कि भीम और दुर्योधन की बचपन की लागडांट ने कुरक्षेत्र में कुहराम भवा दिया था। कौन नहीं जानता कि कर्ण और अर्जुन के लड़कपन के द्वेष भाव ने महाभारत की महासमग्रग्नि में धी की आहुती छोड़ने का काम किया था। उसी विद्वेषाग्नि से प्रताप और शक्त का हृदय एक दूसरे के प्रति जल रहा था जिसके विषय में हम आगे लियेंगे। परन्तु उस समय का भारतवर्ष आज कल का सा भारतवर्ष न था उस समय भारत वर्ष से क्षत्रियत्व मिट नहीं गया था। आजकल की भाँति मेज पर रखे हुये चाकू से क्षत्रिय डरते नहीं थे आज कल की भाँति उस समय कर्मयोगियों का कर्मयोग पुष्टेकार्म पर वक्तुता झाड़ने अथवा अखबारों में लेख लिखने में ही समाप्त नहीं होता था और वहुत हुआ तो किसी सभा सोसाइटी का सगठन कर लेना ही किया शीलता की सीमा नहीं थी। उस समय की शूर वीरता केवल गले के फाड़ने अथवा लेखनी के घिसने में ही समाप्त नहीं होती थी। उस समय सच्चे धीरों का खेल तलवार था। बालक प्रताप और शक्त भी तलवार से ही नेलते थे। उस समय के इतिहास की यहाँ पर एक साधारण सी घटना उद्भृत करनी है जो असाधारण प्रतीत होगी। जिसको सुनते ही इस समय भी प्राण थर्रा उठते हैं। घटना यह है कि एक दिन एक तलवार नयी बनकर आई थी प्रताप और शक्त के पिता एक मोटी रस्सी मगाकर उसकी धार की परीक्षा करने के लिये कह रहे थे। पर पांच वर्ष के बालक शक्तसिंह से न देखा गया कि मोटी रस्सी पर तलवार की शीर्ष की जांच की जाय। बालक शक्त सोचने लगा कि जो तलवार

चुद्र क्षेत्र में अगणित नरमुण्डों के तन से जुदा करने के लिये भैंगायी गई है पका उसकी जाव फच्चे सूत के धागे पर की जायगी ? यस उदय में यह विचार उठते ही बालक शक्सिंह ने उस तलवार का अपनी उड़ली पर आधात किया । तलवार के आधात से बालक शक की उड़ली में से रक्त का फुवारा छूटने लगा । पर बालक के मुख पर नाममात्र को भी शोक का लक्षण प्रतीत नहीं हुआ यह प्रसन्न मुख एर्पेत्कुह नेत्रों से रक्त की धार देखने लगा । भारी चोट के लगने पर भी उसकी आँखों में से आसू की एक धूंद भी नहीं टपकी । पास में खड़े हुये भभी लाग चकित और स्तम्भित होकर बालक के मुख भी और देखने लगे । अरे ! यह क्या पाच वय का बालक और यह दारण साहस ॥॥ परन्तु महाराणा उदयसिंह को चालक शक्सिंह के इस साहस पर अत्यन्त काघ हुआ । उन्होंने कोधित हार आशा दा कि इस कुलकलड़ू बालक का सिर बम्बा न तन से जुदा कर दिया जाय परन्तु पास में खड़े हुये सरदारों ने जैसे तैसे समझा बुझाकर महाराणा उदयसिंह जो का क्रोध शान्त किया । परन्तु उदयसिंह जो की भविष्य चाणी सत्य हुई, प्रतापसिंह जैसे मेवाड़ के नहीं नहीं भारत के मुमोज्वलकारी हुए, वैसे ही शक्सिंह मेवाड़ के कुल-कलड़ू देशद्रोही और जातिद्रोही हुए । कोई फोई इतिहास लेखक यह भी कहते हैं कि शक्सिंह की जन्म पत्रों से यह निर्मारित हुआ था कि वह मेवाड़ के लिये कलड़ू स्वरूप होंगे, इसी के उदयसिंह उन से विरक्त रहते थे । इस कारण ही उन्होंने शक्सिंह के सिर उतारने की उस समय आशा दी थी । जो कुछ हो उस समय शक्सिंह के जीवन की रक्ता हुई ।

जिस समय प्रताप और शक दोनों राजकुमार इस तरह आमोद' प्रमोद में जीवन व्यनीत कर रहे थे, उस समय

देखना चाहिये कि मेवाड़ की क्या दशा थी ? आये पाठक ! आइये ॥। उस समय वाप्पारावल की गढ़ी पर राणा उदयसिंह जी चिराजमान थे, पर उदयसिंह जी मेवाड़ के राणा होने योग्य कोई गुण न थे । वे बीर धर्म के भूलकर विलासिता में फसे हुए थे वे एक वैश्या के प्रेम में फसकर अपनी वंश परम्परागत मर्यादा को लात मार दुके थे । उनको अपने राज्य की सुध बुध कुछ भी नहीं रही थी ।

इतिहास के पाठकों से यह अविदित नहीं है, कि राणा सांगा की मृत्यु के थोड़े दिन पीछे ही उनका प्रतिद्वन्दी बाबर भी इस लोक से चल वसा था । बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूँ की शेरशाह के कारण अपनी सततनत तक से हाथ घोना पड़ा था । बड़े बड़े सङ्कटों का सामना करके हुमायूँ ने अपना खोया हुआ राज्य पाया था । उस समय राणा सांगा के समान कोई चतुर बीर मेवाड़ की गढ़ी पर होता तो समस्त भारतवर्ष में अपना अरण्ड राज्य खापित कर लेता परन्तु मेवाड़ क्या समस्त राजपूताना नहीं नहीं समस्त, भारतवर्ष में उस समय ऐसा कोई दूरदर्शी मनुष्य नहीं रहा था । इसी से मुगलों की उत्तराति का मार्ग परिष्कृत होगया था । हुमायूँ के पीछे अकबर भी १२ वर्ष में ही अपने बाप के राजसिंहासन पर बैठा यदि अकबर और उदयसिंह की पारस्परिक तुलन की जाय तो बहुत सी बातों में समता मिलेगी । अकबर ने भी शालपन में उदयसिंह जी के समान अनेक सङ्कटों का सामना किया था । अनेक चिपदों में फसा था, परन्तु सङ्कट और यन्त्रणाओं से उसका हृदय मङ्गवृत होगया । उसने अनेक आपत्तियों और फलेशों में पड़कर धीरता और सहिष्णुता का पाठ पढ़ा था । इधर उदयसिंह जी विलासिता प्रिय हो गये थे,

इसलिये अकबर गपने वाप के राज्य को बढ़ानेवाला हुआ और उद्यसिंह मेवाड़ को डुवोने वाले हुए।

जिस समय हुमायूँ विपत्ति का मारा मेवाड़ में पहुंचा वहा आश्रय चाहा तो मेवाड़ के राजा मल्लदेव ने उसको आश्रय देना तो दूर रहा उसको उलटा गिरफ्तार करना चाहा था। इसका कारण यह कहा जाता है कि मुगलों के एक युद्धमें मल्लदेव का ज्येष्ठ पुत्र राममल मारा गया था। मल्लदेव ने इस अवसर पर हुमायू़ से वह बदला चुकाना चाहा था। हुमायू़ उस समय मल्लदेव के हाथ न आया, परन्तु साथ ही वह उस समय की अपने अपमान की बात भूला नहीं। दूसरी बार राज्य प्राप्त करने पर हुमायू़ थोड़े दिन के पीछे ही इस संसार से चल बसा था सो वह स्य तो मल्लदेव से बदला ले नहीं सका पर उसके बेटे अकबर ने बदला लेने की ठानी। अकबर की माने उसको और भी मल्लदेव से बदला लेने के लिये उत्साहित किया। अकबर अपने वाप का अपमान भूलने चाला न था वन अपनी सेना लेकर मेवाड़ पर चढ़ दौड़ा। अजमेर में उसने अपनी सेना का पडाव डाला। उसने सन् १५६७ में मोरता किले पर अधिकार कर लिया। सबसे पहले जयपुर के महाराज विहारीमल और उनके पुत्र भगतानदास ने अकबर की दासता स्वीकार करके पवित्र राजपूत कुल में कलदू लगाया था। केवल अकबर की अधीनता स्वीकार कर के जयपुर नरेश विहारीलाल जुप नहीं हुये थे किन्तु #उन्होंने

#दिन्दू नरेशों ने अपने यहाँ की लड़कियाँ मुसलमान बादशाह को पहों दे दी और उनकी लड़कियों को अपने यहा क्यों नहीं लिया इस विपश्र को लेकर बहुत से हिन्दुओं के पश्चाती और विपक्षी लेखकों ने खिलियां बढ़ाई हैं। किमी विज बुद्धिमान ने यह भी अटकत लगाया है कि मुसलमान चादशाहों के बरके कारण दिन्दू राजाओं ने सुभी से अपनी ख कियां दे दी।

अपनी एक कन्या का विवाह भी अकवर से कर दिया था इस माति विहारीलाल ने राजपूताने का गौरव धूल मट्टी में मिला दिया । वश्यता स्वीकार करने और लड़की देने के कारण विहारीलाल के पुत्र † भगवानदास और भगवानदास के उच्चक पुत्र मानसि ह ने अकबर के राज्य में उच्चपद प्राप्त किये । अस्तु पहली बार राजधानी में विषुव मचने से अकवर मेवाड़ के दिना हस्तगत किये ही लौट आया । परन्तु वह चुप होने चाला नहीं था, धीरे धीरे अपनी शक्ति पुष्ट करके पांच वर्ष पीछे उसने मेवाड़ पर फिर चढाई की, इस बार उसको सफलता भी प्राप्त हुई । जोधपुर, बीकानेर आदि राज्यों ने

थीं । परन्तु मेरी समझ में इसका कारण यह प्रतीत होती है कि हिन्दूओं ने समझा कि मुसलमानों की लड़की अपने यहा आने से धर्म भ्रष्ट होगा । छूतदात का उस समय भारतवर्ष में यहुत प्रचार हो चला था । हिन्दू राजाओं ने समझा कि मुसलमानों की लड़किया अपने यहा आने से सब पुकारयी हो जायगी, इसलिये अपनी लड़किया देकर बला टाली । इसके अतिरिक्त पुक प्रत्यन यह भी है कि क्या मालूम राज महिपिया ही वादशाही घराने में गई थी । किसी रनवासिनी दासी की पुत्रिया राजमहिपी की पुत्री वह कर व्याह दी हों । अस्तु जो कुछ हो जयपुर, जोधपुरादि हिन्दू नरशों का यह काम जिन्दनीय हुआ इसमें सन्देह नहीं जब तक इतिहास है यह कलङ्क दूर नहीं हो सकता । यूदी के हादाओं ने भी मेवाड़ के राणों के समान अपनी लड़की कभी वादशाहों को नहीं द्याही । उन्होंने अकवर से यह सम्झ कर ली थी कि हम वादशाह को कभी ढोका नहीं देंगे । —ऐसक

† भगवानदास वी देवी उच्चवर के बेटे, मलीम को जो पीछे जहांगीर दे नाम से दादशाह हुआ, व्याही थी । कहते हैं, अकवर सुद धरात लेकर भगवानदास के मकान पर गया था और वहाँ हिन्दूओं की रीति के अनुसार चारों ओर अग्नि के फेरे पढ़े तब विवाह किया । सलाम की बहु अर्धांव

अकबर की अधीनता खोफार की, इतना ही नहीं जोधपुर के मन्त्रार्थी के लड़के उदयसिंह ने अपनी <sup>५</sup> जोधराई का अकबर से विचाह कर दिया। मालवा के राजा ने मेघाड के महाराणा उदयसिंह के यहा वाथ्य लिया इसलिये अकबर को टृष्णि चित्तीड़ पर पड़ी।

चित्तीड़ भूमि जैसी धोरों की खान है, यहसे ही प्रणति यों हीला निर्कंतन है। चित्तीड़ एक प्राचीन नगर है छोटी सी बहाम नदी के पिछारे पहाड़ पर बसा हुआ है। चीन की दीवाल से पढ़कर इमके चारों ओर दुर्भेद्य प्राचीर है। आजकल भी चित्तीड़ की शोभा देखने योग्य होती है। शहर-पनाह की दीवाल भी चारों ओर पर्यंत के समान दिखायी पड़ती है। प्रधान छार “सुरमपोल” या सूयतोरण है। इस तोरण की रक्षा का भार सालुम्ब दुर्गेश्वर चन्द्रावत सरठार पर था। अकबर ने चित्तीड़ पर प्रथमबार आक्रमण किया तो यह सफल मरोरथ न हो सका। फ्योर्कि वादशाह अकबर की, उदयसिंह जां की प्रियपात्रिणी खी के सामने दाल नहीं गल सकी। यह खी क्षमियवीरों को साथ लेकर वादशाह की

भगवानदास की येटी के ढोले पर भशरफिया लुटाता आया। भगवानदास ने सौ हाथी, कई तथ्ये धोड़े, यहुतेरी लौटी गुलाम सोने चादी के जबाहिर वे अमयाद, हथियार पर्तन दहेज में दिये अमीरों को जो बराती थे, हराकी, मुर्कों ताजी सोने रूपे के साज समेत धोड़े दिये। पाठकों ने इस विचाह के हाथ को पढ़कर समझ लिया होगा कि अकबर कितना चालाक और कुटिल नीतिज्ञ था वह समझ गया था कि जब तक हिन्दू राजाओं से मेल नहीं किया जायगा, तब तक मारतयर्प में मुगलों का राज्य नहीं जमेगा इसलिये वह यह सब चलाकी चलता था। लेखक

<sup>५</sup> जोधराई के गर्भ से ही अकबर के ज्येष्ठ पुत्र सलीम का जन्म हआ

छावनी तक ही नहीं किन्तु चावशाह के तम्बू तर्क धाकमण करती हुई चली गई। राजपूतों की मार के सामने मुसलमान ठहर न सके। राणा उदयसिंह ने इस विजय का यश स्त्री को ही देना चाहा। इस पर राजपूत सरदारों ने क्रोधित हो कर उस स्त्री को ही मार डाला। हमारे देश में घर की फूट से बाहर के शत्रुओं ने बड़ा लाभ उठाया है। अकबर ने भी घर की अनवन से लाभ उठाने का सहज उपाय सोचा। उसने राजपूतों के घर की अनवन सुनते ही चित्तौड़ पर सम्बद्ध १६२० (सन् १५६८) में किरणधारा किया। इस बार अकबर अपने साथ बहुत सो फौज लेकर आया। और चित्तौड़ को घेर लिया। किसी किसी इतिहास लेखक का कथन है कि अकबर की सेना इतनी थी कि दस दस मील तक लम्बी उसकी छावनी पड़ी हुई थी। राणा उदयसिंह ने इस समय बड़ी फायरता दिखलायी, वह चित्तौडगढ़ छोड़ कर भागा पर राजपूत ओर कायर नहीं थे। उनकी विलास प्रिय महाराणा की ओर लाख अभक्षि हो, परन्तु चित्तौड़ की ओर उनकी हूँढ भक्षि थी। चित्तौड़ उनको अपने प्राणों से भी प्यारा था। चित्तौड़ के गौरव में प्रत्येक राजपूत अपना गौरव समझता था। चित्तौड़ की अप्रतिष्ठा होना प्रत्येक राजपूत अपनी अप्रतिष्ठा समझता था अतएव महाराणा के भाग जाने पर अनेक राजपूत—“एक लिंगेश्वर की जय” “चाप्पा-रावल की जय” आदि आकाश गुंजाने वाली ध्वनि करते हुये चित्तौडगढ़ की रक्षा के लिये एकत्रित हुये। अगणित राजपूत ओर सूर्यतोरण की रक्षा के लिये आये। बदनोर के जयमल राठौर और केलना के पत्ता जा, (पूत या पत्तू भी कहते हैं) आये। जयमल राठौर मेडता के राव थे। परन्तु घरेलू भगडे के कारण उदयसिंह उनको उदयपुर ले आये थे। जयमल

और पत्ता का नाम आज भी इतनी शताब्दियों के बीत जाने पर राजन्यान के बालग, घूटे भी घड़े आदर के साथ लेते हैं।

धास्तव में इस युद्ध में मेयाड के वीरों ने अपनी स्वाधीनता और चित्तीड़ के किले के गीरप की रक्षा के लिये अपने प्राणों की याजी लगाई थी। इस युद्ध में घटा की सुकोमल अबलाओं ने भी अपने अपूर्व साहस से बादशाह अकबर तक के दात घटे कर दिये थे। जिस समय सूयतोरण के पास सलूचर के राय मारे गये तब राजपूत सेना की सरदारी केलगा के पत्ता जी को सौंपी गयी। पत्ता जी की अपन्ना केलग सोलह वर्ष की थी। उनके पिता इससे पहले एक युद्ध में मारे गये थे। अपने माना पिता के इफलौते पुत्र थे। परन्तु जिस समय उनको सेना का भार सौंपा गया "था तब उनकी माता तनिक भी विचलित नहीं हुई। पहले समय में राजपूत मातायें देश और धर्म के लिये मरना अपना सौभाग्य समझती थीं। भारतवर्ष का उह समय ऐसा ही था कि जब राजपूत माता अपने पुत्र को युद्धस्थल में विदा करते समय यह उत्साह पूर्ण चर्चन कहती थीं कि जाओ। बेटा। जाओ। जीते रहोगे तो स्वाधीनता भोगोगे और मर गये तो सीधे स्वर्ग को जाओगे" राजपूत माताओं के अपनी सन्तानों के प्रति देश और धर्म की रक्षा के लिये ऐसे उत्तेजता पूर्ण शब्द होते थे। पत्ता जी की माता भी उन राजपूत रमणियों में से थीं अपने देश और धर्म की रक्षा के लिये सर्वस्य न्यौछावर करने को तय्यार रहती थीं। उन्होंने अपने प्यारे पुत्र के बीरधर्म पालन करने के लिये सहर्ष आशा दी थी। केवल इतना ही नहीं वह बीरयाला अपनी पुत्रा और पुत्रधू पत्ता जी की खीं को साथ लेकर स्वयं बादशाह अकबर के मुकाबिले के लिये युद्धस्थल में आई। सुनते हैं जिस समय

सेना चित्तौड़ के निरुट पहुंचने लगी, उस समय इन तीनों अबलाओं ने अपने अचूक निशानों से मुगल सेना के धुरें उड़ा दिये थे। बादशाह अकबर उक्त तीनों वीराङ्गनाओं की बहादुरी पर इतने प्रसन्न हुये ये कि उन्होंने आशा दी थी कि जो कोई इन तीनों वीराङ्गनाओं को पकड़कर लावेगा वह मुह मागा ईनाम पावेगा परन्तु उस हुल्लड में कौन सुनता था एक एक करके तीनों धीर रमणियां भूतल शायी हुई और इस लोक में अपनी अनन्त और अक्षय कीर्ति छोड़ गई। तीनों वीराङ्गनाओं की वीरता देखकर चित्तौड़ के बारे और भी दूने उत्साह से शत्रुओं का मुकाबला करने लगे।

अगणित शत्रुओं के सामने मुहुरी भर राजपूत कब तक लड़ सकते थे, आखिर प्रचण्ड अग्नि के समान अपनी तेज-स्त्रिया दिखलाकर धीरे धीरे भूतलशायी होने लगे। सोलह वर्ष के बालक अभिमन्यु ने महाभारत के महा संग्राम में कौरवों के चक्रव्यूह में अनुपम वीरता का परिचय दे अपने दैरियों के कलेजे दहला दिये थे। वीर वर अभिमन्यु के समान ही पत्ता जी ने अपने साहस और पराक्रम से मुसल-मानी सेना के बड़े बड़े धीरों के हृदय कंपा दिये थे। जिस तरह से प्रचण्ड आधी बड़े पेड़ों को उखाड़ कर थम जाती है। उसी तरह से महावीर पत्ता जी अपनी तृलघार से मुगुल सेना के अनेक बहादुरों के सिर गाजल मूली की भाति काट कर अन्त में मारे गये। पर राजपूत धीरों ने अपना साहस नहीं छोड़ा “कार्य वा साधेयम् शरीर वा पातेयम्” मृत्यु का देखना अव्यवा कार्य का साधन इस सिद्धान्त को प्रहृण कर के लड़ने लगे। जयमल राठोर ने दुर्ग की रक्षा का भार अपने ऊपर लिया। इस भीषण संग्राम में हमारे चरितनायक भारत के पुण्यश्लोक महाराणा प्रताप-

मिंह ने जयमल राठोर की अधीनता में अपूर्व साहस और धीरगता से युद्ध किया था जिससे राजपूतगण उनके पिता-फा कुत्सित व्यवहार भूल गये ।

इस युद्ध की आदि से अन्त तक आलोचना करते हुये फहना पड़ेगा कि चित्तीड़ से भाग्य विघाता रुठा था यदि ऐसा न होता तो क्या मेवाड़ का पतन होता । नीर जयमल ने भी अपनी धीरता में फसर नहीं की अपने जीते जी चित्तीड़ का किला दुर्मन के हाथ में नहीं लगाने दिया । पर होर्टा को कौन टाल सकता था ? एक दिन रात को जयमल मशाल के उजाले से दुर्ग की 'बुजों' को मरम्मत करा रहे थे कि अकबर ने जो किला घेरे पड़ा था, उन्हें पहचान लिया, ताक कर ऐसा निशाना मारा कि जयमल उसी जगह लोट गये । दूरदर्शी जयमल ने देखा कि अब मेरा अन्तिम समय है, बच नहीं सकता हूँ, काल के गाल में जा रहा हूँ और अब चित्तीड़ भी-धीरी के हाथ से बच नहीं सकता है । तब उन्होंने बचे हुए, अपने आठ सहस्र योद्धाओं को केसरिया बाना पहिनने और छार खोलने की आज्ञा दी । आज्ञा देते ही किले का दरवाजा खुल गया और राजपूतगण बादशाही सेना पर टूट पड़े और सेना लड़ कर घोरगति को प्राप्त हुई ।\* नीर रानिया, पाच राज कुमारिया, दो छोटे राजकुमार और बहुत से सरदारों की सब खिया उस समय जब राजपूत लोग केसरिया बाना पहन, किले का फाटक खोलकर बाहर निकले थे, अग्नि में जलकर भस्म होगईं । चित्तीड़गढ़ में यह तीसरा शाका हुआ ।

\* सरदारों के अनुरोध से चित्तीड़ के पतन के पूर्व ही प्रतापसिंह तथा कुछ आदमी युद्धक्षेत्र से बद्यपुर चले गये थे यदि प्रतापसिंह उस समय बद्यपुर में जाते तो राजस्थान का कमल खिलने से पहिले ही सुरक्षा जाता । — ऐराक

यह युद्ध कैसा भयानक हुआ होगा, उसका केवल टाड़ साहब के कथन से ही पता लग सकता है कि जब मरे हुए चोरों के यज्ञोपवीत तोले गये, तब तौल में उधा। ( साड़े चौहत्तर ) मन हुए। किसी किसी का अनुभान है कि उस समय मन चार सेर का होता था। खीर चार सेर का ही सही। पर एक जनेऊ एक तोले का भी रखा जावे तो लगभग पच्चीस हज़ार से अधिक आदमी इस युद्ध में काल के गाल में गये। इस घटना को सदैव श्मरण रखने के लिये अकबर की आझा से उधा। चिट्ठियों के लिफाके पर लिया जाने लगा। इसका तापर्य यही है कि जो कोई किसी दूसरे की चिट्ठी पढ़ेगा उसको चित्तोड़ध्वंस का पाप लगेगा। भारत के आन्तों में थोड़ी चहुत अभी तक यह प्रथा जारी।

अकबर को चित्तोड़गढ़ उसके हस्तगत हुआ। पर उस समय चित्तोड़ में रखा ही क्या था? चित्तोड़ नगरी श्मशान पुरी बनी हुई थी, जनशून्य थी। चादशाह अकबर ने ऐसे जनशून्य श्मशान चित्तोड़ नगरी पर अधिकार प्राप्त किया। चाहे चित्तोड़ श्मशान पुरी हो चाहे जनशून्य नगरी हो पर चादशाह की बहुत दिनों की लालसा चित्तोड़ गढ़ को हस्तगत करने की पूर्ण हुई।

---

५८३ अब के प्रसिद्ध विद्वान्, डाक्टर गोकुचचन्द्र एम० ए० पी०, एच० डी० के "The Transformation of Sikhism" नामक पुस्तक से ज्ञात होता है कि अकबर—चित्तोड़ दुर्ग को जीतने के लिये हतना उत्सुक था, कि उसने सरहिन्द के भगवानदास गवी नामक अपने एक विश्वासीयाँ कर्मचारी को सिक्खों के गुरु अङ्गद के पास यह प्रार्थना करना के लिये भेजा कि चित्तोड़गढ़ अकबर के हस्तगत हो। गुरु उस समय बाबली अनवाने में लगे हुये थे, उन्होंने कहा — यर्हो ह। कुएँ का चक्र अपने स्थान पर छैड़ जायगा स्योहो चित्तोड़गढ़ विजय हो जावेता।" शायद गुरु चित्तोड़ के

जिस अकबर की ग्रशसा में इतिहासकारों ने आकाश या पाताल के पुल बाध दिये हैं। उस अकबर ने चित्तोड़ पर विजय प्राप्त करके अपने पापाण दृद्य और नृशस सभाव का परिचय दिया। उसने चित्तोड़ नगरी पर बड़े बड़े अत्याचार किये। नराधम, पापी अलाउद्दीन खिलजी और मालवा के बादशाह घहादुर के हाथ से जो राजकीय चिन्ह बच गये उन सबका मटियामेट अकबर ने किया। देवालय और मन्दिरों के कलश और शिखर यवनों के पैर तले रोंदे गये। चित्तोड़ की सुन्दर अद्वालिकाएँ और पवित्र मन्दिर गिराकर जमीन के बराबर किये गये। जिन नगाड़ों की ध्वनि कोसों तक पहुंचकर गिहलोर नरेशो की महिमा-प्रगट करती थी जिनकी ध्वनि से मेवाड़ के वैरियों का कलेजा धड़कता था। जो बहुमूल्य दीपबृक्ष अपने विमल प्रकाश से भगवती चतुर्भुजा के मन्दिर की शोभा बढ़ाते थे और जिन सुन्दर किवाड़ों

इतिहास को नहीं जानते थे, तब ही उन्होंने ऐसी बात कही थी। इसमें सन्देह नहीं कि अकबर एक द्वारदर्शी और बुद्धिमान बादशाह था तथापि यह कतिपय सूबे विश्वासों से नहीं बचा हुआ था। यद्यपि वह अपने मिर लुई ११ वें के समान अपनी टोपी में समस्त ईसाई सेण्टों की तमधीरें लेकर न चक्रता था, परन्तु इसमें किसी ग्रकार का सदेह नहीं कि वह आपनि के समय में सहायता की याचना के हिये साथुओं तथा पवित्र मन्दिरों तक पहुंचा बरता था। यह हो सकता है कि उसने ज्वालामुखी के मन्दिर को हिन्दुओं को प्रसन्न करने तथा अपनी ओर मिलाने के लिये मरम्मत की हो परन्तु यह बात असन्दिग्ध है कि दरवेशों तथा दरगाहों में यह समयोपयोगी राजनीति के कारण ही बद्दा नहा दिखाया करता था। दूसों तथारील फरिशता का ४९० पेज जिसमें ज्ञात होता है कि यह अनेकप्रार मिजाजुद्दीन औरिया तथा मुर्दुद्दीन चिश्ती की दरगाहों तक पैदा यथा बरके गया था।

से चित्तौड़ के घडे घडे द्वार चमक दमक रहे थे। उन सेवकों  
अकबर अपने नवीन नगर अकबराबाद को सजाने के लिये  
ले गया था परन्तु इस तरह से राजकीय चिन्हों का मटिया-  
मेट करने पर भी अकबर जयमल और पत्ता की वीरता को  
नहीं भूला। उसने दिल्ली में अपने राजमहल के सामने जयमल  
और पत्ता की हाथी पर चढ़ी हुई पत्थर की दो मूर्तियां बना  
एठी थीं। ठीक ही हैं सब्जे शूरमा की कौन प्रशंसा नहीं करता  
है। सब्जे शूरवीर के सामने उनके शत्रुओं को भी अपना  
मस्तक झुकाना पड़ता है।

आइये। पाठक !! आइये !!! अकबर की करतूत तो देख  
चुके, अब उद्यसिंह जी की भी सुध लेनी चाहिये। जब  
अकबर चित्तौड़ गढ़ घेरे पड़े हुये थे, दोनों ओर से रणचरणी  
का लास्य नृत्य हो रहा था। तब उद्यसिंह ने देखा कि अभी  
युद्ध की समाप्ति नहीं है न मालूम अभी कितने दिन और युद्ध  
हो। यह विचार कर उन्होंने चित्तौड़ छोड़ दिया, पहले उन्होंने  
राजाधिपाल नामक स्थान में गोहलों के यहा आश्रय लिया।  
फिर और भी दक्षिण अरावली पर्वत श्रेणी के मध्य में बढ़े।  
वहा उन्होंने ऊई वर्ष पहले एक सरोवर और सुन्दर भवन  
बनवाया था उस सरोवर का नाम पड़ा था—उद्यसागर  
और उस महल का नाम नचौकी। उस जगह जाकर उद्य-  
सिंह ने आश्रय लिया था—इसी लिये वह आन समस्त  
जगद की राजधानी हुई, पीछे उसका नाम उद्यपुर पड़ा।

उपर्युक्त घटना अर्थात् चित्तौड़ पत्तन के पीछे उद्यसिंह  
जो चार वर्ष और जिये चित्तौड़ में उनका राजव्य, राज-  
सम्मान और राजवैभव था पर यह सब कुछ होने पर भी  
राजगीर्व न था। वीर केसरी प्रतापसिंह उद्यपुर में न रह  
कर कमलमीर में रहना पसन्द करते थे। उद्यसिंह जो का

प्रतापसिंह की ओर स्नेह भी न था । स सार भी कैसी अद्भुत घटनाओं में भरा गुआ है, प्राय इतिहास में देखने में आया है कि जिन राजकुमारों को उनके पिता राजाओं ने स्नेह की दृष्टि से नहीं देखा है, उन्हें समस्त स सार ने आदर और स्नेह की दृष्टि से अपनाया है । कौन नहीं जानता कि प्रह्लाद को उसके बाप राजा, हिरण्यकश्यप ने क्या क्या यन्त्रणायें पहुंचाने की चेष्टायें नहीं की थीं । पर आज प्रह्लाद के नाम पर स सार मोहित है । ध्रुवजी के पिता ने उनको क्या आदर की दृष्टि से देखा था, पर आज स सार के बहुत से मनुष्य उनके नाम की माला जपते हैं । शिवाजी महाराज अपने पिता के कव लाडले, दुलारे थे ? पर अपने पिता के ललकारे दुतकारे शिवाजी महाराष्ट्र देश में से यवनों के राज्य को उमाड पछाड के हिन्दुओं की ध्वजा पताका फहरा कर संसार में अपना नाम अमर कर गये । । यही दशा महाराणा प्रतापसिंह की हुई, जो अपने पिता के स्नेह भाजन न थे, वे ही अपनी अलौकिक वीरता से आज भी समस्त मेवाड़ के नहीं नहीं समस्त भारतगर्थ के पूजनीय देव होगये हैं । कहिये पाठक ! प्रताप अपने किन गुणों से इतना उच्च स्थान प्राप्त कर गये हैं ? यदि उन कारणों के ढूँढ़ने की इच्छाहो तो आइये अगले परिच्छेदों में देखें । जिससे पता लगे कि आज भी, इतनी शताव्दिया वीत जाने पर भी प्रतापसिंह क्यों पूजनीय है ? मारतमाता के एक से एक योग्य पुत्र होने पर भी प्रताप सिंह और गुरु गोविन्दसिंह आदि महापुरुषों के नाम पर आनन्द से हृदय नृत्य क्यों करने लगता है ? इस बात को जानते हो न ? नहीं जानते हो तो एकबार सोचो । अपने हृदय से इस प्रण का उत्तर पूछो ? कि प्रतापसिंह का नाम मोहित करने घाला क्यों है ।

# तीसूरा पारच्छद्वा

रात्र्य ग्राप्ति

“हे कुवर तुम को राज दे,  
सिर अचल छप्र फिराई है।

(हरिश्चन्द्र)

सन् १५७२ में गोलकुण्डा नामक स्थान में ४२ वर्ष की अवस्था में मेवाड़ के अधीश्वर महाराणा उदयसिंह का देहान्त हुआ। उस समय मेवाड़ की कैसी दशा थी, सो ऊपर लिया जा चुका है। वास्तव में उदयसिंह नाम में ही कुछ देख मालूम होता है। वादशाह अकबर के समय में राजस्थान में दो उदयसिंह हुये, परं दोनों ही कुल कलङ्क हुये। महाराणा उदयसिंह के समय में मेवाड़ का पतन हुआ और मारवाड़ के “मोटे राजा” उदयसिंह ने अकबर की टासना स्वीकार करके और उसको अपनी बहिन जोधप्राई को व्याह करके वाद-ह के साले वनने के कलङ्क का टीका अपने मत्थे लगवाया।

उदयसिंह मरते समय एक और भी राजपूत वश लोकाचार और शास्त्र विरुद्ध कार्य करा गये। सदा उत्तराधिकारी विधि को टालकर, पुरानी शुद्ध सनातन को मेट कर अपनी छोटी प्यारी रानी के कुमार जगमल उत्तराधिकारी बना गये, उदयसिंहजी के चौबीस लड़के थे। चौबीसों लड़कों में से जगमल सब में छोटे थे और महाराणा प्रतापसिंह सब से बड़े थे। इस विचार से चित्तौड़ का

राजसिंहासन और राजमुकुट प्रतापसिंह का था । परन्तु नहीं, उदयसिंह ने इसका कुछ चिचार नहीं किया । वे अपनी प्यारी छोटी रानी के प्रेमपाश में घंथे रहने के कारण कुल मर्यादा, विवेक, दुष्टि, लोकाचार और शास्त्रों के धिग्नान आदि सभी को विसर्जन कर चुके थे । उन्होंने जगमल को उत्तरा-विकारी बनाकर अपने पुत्रों में नया भगडा खड़ा कर दिया । मेवाड़ में भी यह रीत है कि एक राजा के मरने पर दूसरे को गढ़ी हो जाती है । एक और तो राज परिवार के लोग कुल पुरोहितों के साथ शोक मनाते हैं । दूसरी और प्रजावर्ग अपने मकानों की सफाई करती है, अपने घरों को सजाती है और दूसरी और नये राजा का अभिषेक होता है । "King is dead, Long live the King"— अर्थात् "राजा मर गया पर राजा युग युग जिओ" इस कहानत के अनुसार मेवाड़ का राजसिंहासन भी राजा बिना खाली नहीं रहता है । बस इस नियम के अनुसार ही जब उदयसिंह जी का अन्त्येष्टि संस्कार हो रहा था । तब कुमार जगमल गढ़ी पर बैठे । जगमल को क्या मालूम था—"Man proposes but God disposes" अपने विचारों के पुल बाँधता है पर परमेश्वर ढाह देता है । "मेरे मन में और कर्ता के मन और" बैचारे जगमल को क्या खबर थी कि इन उपर्युक्त कहानत के अनुसार उसके माय में राजसिंहासन का सुख यदा ही नहीं है । जिस समय जगमल राजगढ़ी पर बैठकर अपनी चपलता की सीमा प्रकट कर रहे थे उस समय स्मशान भूमि में कुछ और ही प्रस्ताव हो रहा था ।

उदयसिंह चाहे अपनी बदा परम्परा को भूल गये, चाहे लोकाचार और शास्त्र विरुद्ध काय कर गये हैं पर राजप्रत सरदार धंश परम्परा की रीत को लोकाचार और धर्म को

भूले नहीं थे। राजपूतगण 'मुसल्लानों' के समान नहीं थे कि शाहजहां के सच्चे उत्तराधिकारी दारा और शिकोह की मारकर उसका छोटा भाई और झंज़ेव दिल्ली के ताल्लू पर बैठ गया और किसी ने चू तक नहीं की। राजपूत सरदारों को उदयसिंह जी का यह काय पसन्द नहीं आया। भालाराधिपति शोणिगुरु सरदार<sup>1</sup> को उदयसिंह जी, का 'यह अनुचित कार्य बहुत ही खटका वह अपने भाज्जे प्रताप को ही गढ़ी पर बिठाने के लिये घग्गर थे और मेवाड़ के प्रधानमन्त्री चूडावत कृष्णसिंह से पूछने लगे कहिये आप बड़े पुत्र प्रताप के होते हुये छोटे पुत्र जगमल को गढ़ी दिलाने के लिये कैसे सहमत होगये आपके रहते हुये यह कुमन्त्रणा कैसे हुई? आपके रहते हुये यह कुविचार कैसे हुआ? आपने इस न्याय बिरुद्ध कार्य का क्यों अनुमोदन कर लिया। राव ने भालाराधिपति शोणिगुरु के प्रश्न का हँसकर उत्तर दिया। यदि अन्तिम समय में 'रोगी' को कुपथ सेधन की इच्छा हो तो उसे कौन रोक सकता है। यदि अन्तकाल में रोगी दूध मारे तो उसे देने में हानि ही क्या है? इतना कहकर राव थोड़ी देर के लिये चुप ही गये पीछे कहने लगे कि 'चित्तोड़' के राजसिंहासन के लिये मैंने आपके भाज्जे प्रताप को ही छुना है निश्चय मानिये गा कि प्रताप के रहते हुये मैं मेवाड़ का राजमुकुट किसी दूसरे के सिर पर नहीं देख सकूँगा मैं प्रताप के पास ही खड़ा होऊँगा।

इधर यह बात चीत ही ही रही थी, उधर जगमल राजा जी को गढ़ी पर बैठा हुआ था। प्रतापसिंह अपने पिता के अवहार से दुखित होकर धोड़ा कस कर मेवाड़ छोड़ने की तथ्यांकी फर रहे थे। इस बीच में सरदारों ने, प्रतापसिंह को जाने से रोका और ग्वालियर के राजघ्युत राजा के साथ रावल कृष्णसिंह जगमल के पास पहुँचे। जगमल ने उनके पद के

अनुसार , उन दो अध्यक्षों को सदी पर उन दोनों ने घहा पहुँच फर जगमल की एक एक धार्द पकड फर नीचे एक आसन पर बिठला दिया और उससे फदा.—फमार ! आपने घोक्का याया है इस गद्दो पर केवल पतापसिंह के अतिरिक्त और किसी को बैठने का अधिकार नहीं है । पेसा कह फर उन्होंने पूतापसिंह के नलवार थाध दी, मालाम्भा अधिकारी ने पतापसिंह को राजसीघन्न पहिनाये और फिर राजसिंहासन पर बिठला दिया । यह सब हो चुकने के याद मेवाड की पृथा के अनुसार प्रताप ने जमीन तक झुक फर तीन थार पुणाम किया । चारों ओर से आकाश को गुजानेवाली ध्यनि महाराणा पूतापसिंह की जय होने लगी । यह सब छत्य होते देख कर जगमल चुप हो गया, उसने चूं तक नहीं की । परमेश्वर की भी फसा माया है थोडा देर पहले जो मेवाड के राज सेहासन की आशा लगाये हुए था घह जमीन पर धेठाया गया, जो निराश होकर अपनी जन्मभूमि को को अन्तिम प्रणाम कर रहा था । वह मेवाड का अधीश्वर हुआ । जमी तो कविकहता है कि “रीते भरे ढरकाने महर करें तो फेर मरें” ।

# चौथी पारिल्लेख।

अहेरिया का उत्सव

बन्धु यह मलिन वेप तजि डारो ।

आळस बन्द तोड अवया छन याको वेग उतारो ॥  
 तम फारन न लखत अबहिं लौं अब हँगयो उजारो ॥ बन्धु  
 को कट फटो घल्क केवल पै हृदय न मलिन तुम्हारो ॥  
 तासे तजि ऊपरो मलिनता यह कलंक को द्युरो ॥  
 बन्धु अब चूकन को समय रह्यो नहिं वैठे काह विचारो ॥  
 “भाघव,, अवसर गये न मिलि हैं लाप जतन कर हारो ।  
 बन्धु अब मलिन वेप तजि डारो ॥

—५० माघव शुक्र  
 बसन्त श्रृंतु के समय में महाराणा प्रतापसिंह ने मेवाड़ का राज सुकुट अपने मस्तक पूर रखा था। उन दिनों अहेरिया का उत्सव निकट था। महाराणा प्रतापसिंह ने आहा भी किसव लोग शिकार खेलने के लिये जङ्गल में चले। और भगवती गौरी के सामने बाराह-धलि देकर आगामी वर्ष का फल देखे। और आने वाले वर्ष का फलाफल आज के दिन निश्चय करें।

सरदार महाराणा की इस आळा को शिरोधार्य करके धोडे, हथियारों को सुसज्जित करके जङ्गल में शिकार खेलने के लिये चले। महाराणा भी अपने सामन्त सरदारों के साथ चले। आनन्द में भरे सब शिकार खेलने लगे। सभी उपर्युक्त जन आखेट के फल पर मेवाड़ के भविष्य एमारुम का विचार करने लगे। महाराणा भी अपने सरदारों को इस अवसर पर उत्साहित और उत्तेजित करने चाहे। अपने सरदारों को एडे गम्भीर और और उत्साह

पूर्ण शब्दों में कहने लगे -सरदारगण ! मेवाड़ के थीरो ॥ समरण रख्तो कि आज बाराह के शिकार पर ही मेवाड़ भाग्य की परीक्षा निर्भर है । मत समझो कि केवल शान्ति समय में पोडशोपचार सहित घन घोर धंटा ध्वनि करके ही भगवती के सामने बाराह की बलि देने से ही कार्य की सिद्धि हो जायगी । माता के सामने घन सूअरों को बँलि देते हो तो भले ही दो, लेकिन अच्छी तरह से याद रख्तो कि हमारा महावत जो चित्तीड़ को स्वाधीन करने का है वह केवल घन-बारहों के खलिदान करने से नहीं हो सकता है । देखें ते नहीं हो कि समस्त राजपूताना पापी नराधम मुगलों से ग्रस्त हो रहा है । मेवाड़ को, राजपूताने की राजपृत जाति की स्वाधीनता हरण हो गई है । माता भगवती की परम पवित्र मूर्ति यवनों द्वारा पदाकान्त हुई है । भगवतों चेतुमुर्जा की मूर्ति यवनों को ठोकरों से टक्कराई गई है । इस महोत्सव करने का प्रयोजन यही है कि हम सर्व राजपूताने से मुगलों को खंडेड़ने की, अपनी प्यारी जन्मभूमि चित्तीड़ को मुगलों के हाथ से उद्धार करने की अटल प्रतिश्वाकरण । जिस तरह से आंज हमें बने-बारहों का शिकार करते हैं, वैसे ही राजपृत जाति के शत्रुओं का शिकार करे । महाराणा के मुख्यारविन्द से ऐसे उत्साह पूर्ण शब्द सुने केर उपस्थित समस्त सरदार मण्डली ने आकोश गूजने वाली यह ध्वनि को कि “महाराणा प्रतोपसिंह की जय” “मेवाड़ाधिपति की जय” “भगवान् एक लिङ्ग की जय” । तेंदनन्तर सभी लोग आखेट में प्रवृत्त हुये असंतर्य बाराहों का शिकार हुआ उस दिन के आखेट में संफलता प्राप्त करके समस्त राजपूतों ने लिया कि भर्यि में कुछ अच्छी ही बात होने वाली प्रसन्नता पूर्वक आखेट से लौट आये ।

# चौथी पार्श्वलू

अहेरिया का उत्सव

बन्धु यह मलिन वेष तजि ढारो ।

आलस बन्द तोड अथ थर छन याको वेग उतारो ॥  
तम फारन न लखत अवहिँ लौं अब हैगयो उजारो ॥  
को कट फटो, बख केवल पै हृदय न मलिन तुम्हारो ॥  
तासे तजि ऊपरो मलिनता यह कलक को द्यारो ॥  
बन्धु अब चूफन को समय रह्यो नहिँ बैठे काहु विचारो ॥  
“माधव, अप्सर गये न मिलि हैं लाय जतन कर हारो ॥  
बन्धु अब मलिन वेष तजि ढारो ॥

—प० माधव शुक्र  
बसन्त श्रुतु के समय में महाराणा प्रतापसिंह ने मेवाड़ का राज मुकुट अपने मस्तक पर रखा था । उन दिनों अहेरिया का उत्सव निकट था । महाराणा प्रतापसिंह ने आज्ञा दी कि सब लोग शिकार खेलने के लिये जङ्गल में चलें । और भगवती गौरी के सामने बाराह-यलि देकर आगामी वर्ष का फल देखें । और आने वाले वर्ष का फलाफल आज के दिन निश्चय करें । सामन्त सरदार महाराणा की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके अपने घोड़े, हथियारों को सुसज्जित करके जङ्गल में शिकार खेलने के लिये चले । महाराणा भी अपने सामन्त सरदारों के साथ चले । आनन्द में भरे सब शिकार खेलने लगे । सभी उपस्थित जन आखेट के फल पर मेवाड़ के भविष्य शुभाशुभ का विचार करने लगे । महाराणा भी अपने सरदारों को इस अवसर पर उत्साहित और उत्सेजित करने रहे । अपने सरदारों को बड़े गम्भीर और और उत्साह

‘पूर्ण’ शब्दों में फहने लगे - सरदारगण ! मेवाड़ के थीरो ॥ स्मरण रक्षो कि बाज याराह के शिकार पर ही मेवाड़ भाग्य की परीक्षा निर्भर है । भत समझो कि केवल शान्ति समय में पोड़भोपचार सदित धन घोर घटा धनि फरके ही भगवती के सामने याराह की यलि देने से ही कार्य फी सिद्धि हो जायगी । माता के सामने यन सुअरों को यलि देते हो तो भले ही दो, लेकिन अच्छी तरह से याद रखो कि हमारा महाप्रत जो चित्तोड़ को खाधीन करने का है वह केवल बन-यारहो के बिन्दान करने से नहीं हो सकता है । देखते नहों हो कि समस्त राजपूताना ‘पापो नराधम, मुगलों से प्रस्त हो रहा है । मेवाड़ घो, राजपूताने फी राजपूत जाति की स्थाधीनता दरण हो गई है । माता भगवती की परम पवित्र मूर्ति यंत्रों द्वारा पदाक्रान्ते हुई है । भगवती चतुर्भुजों की मूर्ति यंत्रों की ओरकरी से टकराई गई है । इसे महेत्स्य करने को प्रयोजन येहो है कि हम सब राजपूताने से मुगलों को यदेड़ने को, अपनी प्यारी जन्मभूमि चित्तोड़ को मुगलों के हाथ से उद्धार करने की अटल प्रतिष्ठा करें । जिस तरह से बाजे हम बैत-यारहों को शिकार करते हैं, वैसे ही राजपूत जाति के शत्रुओं का शिकार करे । महोराणा के सुगारमिन्द से ऐसे उत्साह पूर्ण शब्द सुन केर उपमित समस्त सरदार मण्टलों ने आकाश गूँजने वालों यह धनि को कि “महोराणा प्रतोपसिंह” को जय” “मेवाड़धिपति को जय” “भगवान् एक लिङ्ग की जय” । तेंदनेंवर सभी लोग आगेट में प्रवृत्त हुये अंसख्य योराहों को शिकार हुआ उस दिन के आरेट में सफलता प्राप्त करके समस्त राजपूतों ने समझ-लिया कि भविष्य में ही बात होने

# पांचवाम परम्परा

## रङ्ग में भङ्ग

#सौहंद्रेन परित्यक्तं नि स्नेह स्वल्मुत्सृजेत् ।

सोदर्यः भूतरमपि किमुतान्ये प्रथगजनम् ॥

दूजे के हित प्राण दै, करै धर्म प्रतिपाल ।

को दंसेता शिवि के बिना, दूजा है या काल ॥

—भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

हम यहले, कह आये हैं कि प्रतापसिंह और शक्तिंह दोनों भाई थे। बाल्यावस्था में दोनों का लालन पालन, खेल कूद, शिक्षा दीक्षा, एक ही साथ हुई थी। प्रायः बालकों में एक दूसरे से खेल कूट में बीमनस्य भाव हो जाता है। वैसे ही बचपन में प्रताप और शक्ति दोनों में हो गया। धीरे धीरे इस द्वेष भाव ने दोनों भाइयों के ऊपर विशेष रूप से अधिकार प्राप्त कर लिया। आगे चल कर इस द्वेषभाव के कारण, दोनों भाई एक दूसरे के शत्रु बन चैठे।

अहेरिया उत्सव के दिन अनेक राजपूत चीरों ने घने ज़ह़लों में घुस कर धड़त से बाराहों का शिकार कर के अहेरिया उत्सव मनाया। देवी के सामने अनेक बाराहों का बलिदान दिया और महोत्सव से उस वर्ष का फल भी अच्छा प्रतीत हुआ सब की आशाये महाराणा प्रतापसिंह पर बधी

---

इप्पेसे दृष्ट सगे भाई को भी त्याग करना चाहिये जिसने मिश्रता छोड़ दी है और जिसके स्नेह नहीं है और की तो बात ही क्या है? —लेखक

परन्तु हाय ! इस महोत्सव के समय पर ऐसी दुर्घटना हो गई जिस से सभी के प्राण थर्हा उठे और चित्तीड़ के शत्रुओं को, प्रतापसिंह के दैत्यों को वह घटना एक प्रभार से सहायता पहुचाने वाली हुई। किसी अंश में यह भी कहा जा सकता है कि वह घटना मेनाड़ के इतिहास को ही पलटने वाली हुई।

अहेर के उत्सव के दिन जिन समय समस्त राजपूत धीर मण्डली चारों ओर बाराहा के शिकार करने में लगी हुई थी सभी लोग प्राणपण से यह चेष्टा कर रहे थे कि धीरता में कौन श्रेष्ठ है अथवा यों कहियेगा कि सभी लोग अपनी अपनी श्रेष्ठता दिखाने की चेष्टा कर रहे थे। उसी समय यह घटना हुई।

उसी समय दोनों धीर भाता प्रतापसिंह और शक्तिसिंह में पिछला पिंडेप भाव जागृत हो उठा। दोनों के बीच में भयझुर विचाद उपस्थित हुआ। विचाद का कारण यह था कि सभी के हृदय में 'आखेट' करने की लौ लगी हुई थी सभी को अपनी धीरता दिखाने और यश 'प्राप्त करने की लालमा चढ़ रही थी। किसी को किसी की सुध न रही छोटे घड़े वा कुछ भेद भाव नहीं रहा। प्रताप और शक्ति दोनों भाई एक साथ ही शिकार के लिये चले उन दोनों के पास ही एक यन बाराह दिखाई दिया। वे दोनों भाई बाराह की ओर लपके घेचारा बाराह भी अपने प्राणों के भोग से कठिन ज़ज़ाल से बचकर भागने लगा पर वह भाग कर जाता ही कहा ? दो महापराक्रमी धीरों के बीच से बाराह का बचकर जाना असम्भव था। उस दोनों भाइयों ने एक साथ एक ही समय ठीक एक ही यान पर दो कठिन तीर बाराह की ओर ताक कर छोड़े एक धीर बाराह के मस्तक को पार कर गया। उस तीर की घेदना की ज़ज़ली सुधर सम्भाल न सका। उस तीर के

धरती पर लेट गया। हाय! धुरी सायत में इस जङ्गली सूखा का आघात हुआ था। वह इसी लक्ष्य वेद पर दोनों भाइयों में खूब तर्क वितर्क होने लगा। दोनों आपस में इसी बात पर भगड़ने लगे कि मेरे तीर से बाराह मारा गया, अन्त में यह तर्क वितर्क बहुत बढ़ गया। उस समय प्रताप अपने घोड़े के चक्काकार फेर रहे थे। उनके हाथ में शानदार बर्छा चमक रहा था। दोनों भाइयों के हृदय की दबी हुई विद्वेशाङ्गि भभव उठी दोनों एक दूसरे को ललकार कर हङ्कार करकहने के तैयार हो गये दोनों एक दूसरे को ललकार करकहने लगे “खबरदार, पीछे मत हटना आओ अभी हम तुम फैसला करे कि किसके तीर से बाराह मारा गया है।” वह इस तरह से कहकर एक दूसरे के प्राणों के ग्राहक वन बैठे दोनों भाइयों का आपस में यह भगड़ा देखकर समस्त बीर मण्डली चकित और स्तम्भित हो गई वह यन्त्रमुन्ध सांप के समान बीर मण्डली चुप चाप दोनों भाइयों की ओर देखने लगी।

चारों ओर सज्जाटा छा गया, हाय। अब कौन दोनों भाइयों का भगड़ा मिटावे? कौन दोनों भाइयों के अशान्त महासागर के समान हृदयों को शान्त करे। हाय। अब मेवाड़ का सर्व नाश उपस्थित हुआ। इस तरह से सभी बीरों के हृदय कापने लगे, सभी अपने अपने इष्ट देवों से इस भगड़े के शान्त हो जाने की प्रार्थना करने लगे। पर प्रताप और शक अपने अपने सङ्कल्प से विचलित नहीं हुये। वे एक दूसरे के प्राणों के ग्राहक बने हुये थे। वे अपने विचारों पर अटल एवं त के समान डटे हुए थे। वे अपनी अपनी धुन में लगे हुए थे। परन्तु जब सारी बीर मण्डली मन्त्र मुन्ध सांप के समान चुपचाप खड़ी हुई थी। जब प्रताप और शक भी भावी भले धुरे का विचार न करके एक दूसरे के प्राणों के

नेने की तैयारी कर रहे थे। तब प्रताप और शक की रक्षा के लिये कौन आगे आया ? पाठक ! उसी ग्राहण जाति की एक सन्तान लिसको बाबू<sup>१</sup> लोग इस देश को चौपट करने वाली जाति कहते हैं—अगुआ हुआ वह राज्य कुल पुरोहित ग्राहण था। वह प्रताप और शक के इस भयानक युद्ध को मिटाने के लिये और मण्डली में से अगुआ थना। उसका कोमल दृश्य सदृश नहीं कर सका कि उसके होते हुये मेघांड का सर्पनाश हो जाय। वह दोनों भाइयों के घीच में खड़ा हो गया और कहने लगा—हे महाराणा जी ! हे राजकुमार ! शान्त हो, इस व्यर्थ के भगडे में कुछ नहीं रखा है। पर किसी ने उसकी यात नहीं सुनी, दोनों मस्त हाथी के समान एक दूसरे पर भाला चलाने लगे। इस भयङ्कर दृश्य को देगकर गजपुरोहित ग्राहण ने फिर उश्मर से महाराणा प्रतापसिंह को सम्बोधन करके कहा—दुर्दार्द, महाराणा जी अरे भाई जरा तो धीरज धरो। थोड़ी देर ठहरो तो सही, मेरी थोड़ी सी बिनती तो सुनो पर महाराणा ने कुलपुरोहित की इस यात पर ध्यान ही नहीं दिया। कुल पुरोहित ने देखा कि उसकी प्रार्थना का कुछ असर नहीं हुआ तब उसने शक भिंड को सम्बोधन करके कहा—हे राजकुमार ! जरा ठहर जाओ ! तुम मरीखे और पुरुषों को आपस में इस तरह से लड़ना शोभा नहीं देता है। बड़े भाई से लड़ना क्या बुद्धिमत्ता है। पर उहाँ सुनता कौन था ? एक दूसरे पर चमकादार भाले चलने लगे, कुल पुरोहित ने देखा कि उस की आवाज वहारे कानों पर पड़ी है। तब तो उसने दूसरा ही उपाय सोचा, वह दोनों भाइयों के घीच में जाकर खड़ा हो गया। वह पागल के समान मेघ गर्जना की भाँति उच्च खर से कहने लगा—“खैर तुम दोनों भाइयों ने

माना, न सही। पर मैं अपने कर्तव्य से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। स्वर्गीय देव गण ! देनो भाइयों की रक्षा करना। राजकुल को सकुशल रखना। वाष्पोरावल की राजगद्वी का गौरव बनाये रखना। सिसोदिया धंश के राजसुकुट की मान मर्यादा रखना। इनके जीवित रहने से ही मेवाड़ की रक्षा होगी, मुगलों के हाथों में से चित्तौड़ का उद्धार होगा। नहीं भारत विद्रोपाञ्जि का परिणाम बड़ा ही शोचनीय होगा। अरे विद्रोपाञ्जि बुझ, तू अब बुझे विना नहीं रहेगी, तू रक्त की प्यासी है तो मेवाड़ के राजकुमारों का रक्त न चूस कर ले इस ग्राहण का रक्त पी। बस यह कह कर ग्राहण ने अपने पेट में कटार छुसेद्दी रक्त का फवारा हूँटने लगा। उष्ण रक्त की धारा ने दून घुद्ध करने वाले देनो भाइयों को होली के लाल रङ्ग के समान रङ्ग दिया।

अरे ! यह क्या ! कुलपुरोहित ने हमारे ही लिये तो अपने प्यारे को मल प्राणों का विसर्जन किया। अब दोनों भाई अपने भाले थाम थाम कर पश्चाताप करने लगे। दोनों को अपनी भूल जात हुई। साप के काटे के समान दोनों ही धीर गम्भीर सिर रड़े हो गये। दोनों के हृदय में अशान्त महासागर के समान जो क्रोध उठ रहा था, वह गान्त हो गया। दोनों को अपनी अपनी करनी पर पछतावा होने लगा, पर जो हो चुका, उसके दूर करने के लिये उनके हाथ में कोई उपाय न था।

यथा समय प्रतापसिंह ने छुल देवता का अन्त्येष्टी संस्कार कराया, उनके धंश में लोगों को यथेष्ट भूमिवृत्ति नियत कर दी। कहते हैं, आज तक ग्राहण के धंशधर राजवृत्ति पाते बने गाते हैं। इसके पश्चात् प्रतापसिंह ने अपने सहोदर शक्तसिंह को अपने राज्य से निकल जाने की आज्ञा दी। शक्त

ज़ि में भद्र

अपने बड़े भाई की आँखा को शिरोधार्य किया  
अपनी जन्मभूमि फो छोड़ फर चल तो दिये, पर  
का क्रोध शान्त नहीं हुआ। उनको अपने बड़े  
अपमान का बदला लेने की धुनि सवार हुई। बदल  
नियत से उन्होंने मेवाड़ के सदैव के धेरी मुगल से

# द्विदो पार क्षेत्र

भीष्म प्रतिज्ञा और सर्व आहुति  
 “क्वचिद्भूमि शैया क्वचिदपि च पर्यङ्कशयन  
 क्वचिच्छाकाहारी क्वचिदपि च शालयादेनरुचि  
 क्वचित्कन्थाधारी क्वचिदपि विनिवामवरधरो  
 मनस्वीकार्यार्थी गणयति न दुःखं न च मुखम्”

प्रताप मेवाड के राजसिंहासन पर सुशोभित हुये, विशाल  
 मेवाड़ के सामी हुये, अगणित नरनारियोंके दुःख सुख का भाव  
 उनके हाथ में आया पर प्रताप के पास उस समय राज योग्य  
 कोई सामग्री न थी। धनबल, जनबल उस समय मेवाड़ में  
 कुछ भी नहीं था। सर्ग तुल्य मेवाड उस समय शमशान भूमि  
 बनी हुई थी। उस समय मेवाड जनशून्य था। मेवाड के  
 राजधानी चित्तौड—मुगलों के हाथ में थी, मेवाड  
 ओर उस समय अन्धकार छा रहा था। राजपूत

“पृथ्वी पर मो रहते हैं कमी उत्तम पलङ्ग पर  
 ॥ पात घाऊर रह जाते हैं, और कमी चावलादि  
 हैं कमी गूदटी खोदते हैं और कमी अबडे बैख  
 ॥ काम करने वाले मनुष्य कमी दुःख सुख का  
 “भूमि रायथा कहुं पलंग पे ॥  
 मिर पांव कहुं अर्धी मुख दुख

हृदय में से आशा की ज्योति बुझ चुकी थी। निराशा क्षणी महासागर में राजपूतगण गोते या रहे थे, फेवल मेवाड़ में ही नहीं धारों और राजस्थान में से प्रतापसिंह की कहीं से भी सहायता की कुछ आशा नहीं थी। राजपूत घोर अपनी सामायिक घोरता को भूल कर मुगल दरबार के कीतदास उन द्वारे थे। उस समय चित्तीड़ की किसी दशा थी इसका अनुमान पाठक केवल इसी से करले कि धारण, भाटों ने उस समय चित्तीड़ की उपमा विद्या ख्री से दी है।

महाराणा प्रताप ऐसे ही राज के खामी हुये, उनके पास धन बल, जन बल कुछ न था परन्तु सबसे बढ़ कर हृदय का उत्साह था। वे जानते थे, जैसा उनका हृदय है, वैसी राज पूताने की, मेवाड़ की परिस्थिति नहीं है। परन्तु धीरबर प्रताप के हृदय पर धारक प्रताप रहते हुये जो सस्कार जम गये थे वे कभी दूर न हुये अपने यहा के स्वदेशी धारण भाटों के मुख से अपने पूत्रजों के पूर्व गौरव का वृत्तान्त सुनते २ प्रताप के हृदय में चित्तीड़ उद्धार का उत्साह दूना होगया। यद्यपि अक्षयर की नीतिनिपुणता से समस्त राजपूताना अपनी मान भर्यादा पर लात मार कर पराधीनता की जब्जोर में जकड़ा हुआ था। जो राजपूत किसी समय मेवाड़ की छाया तले में रहते थे उनमें से अधिकाश अक्षयर के विना मोल के च्चेरे घन गये। जो राजपूतगण एक समय चित्तीड़ की शिक्षा के ट्रिये अपना खून बहाते थे वे ही अक्षयर की नीति परायणता

के वास्तव में दुर्योग हृदयों को बलयान करो के लिये महापुरुषों के जीवन चरित और वृत्तान्त स बढ़कर और कीई व्याय नहीं है। महाराज शिवा जी के दृढ़ग में भी स्वदेश भण्डि रामायण और मदामारत की कथाओं से हुई।

# छिंदौ परि छेद

भीष्म प्रतिज्ञा और सर्व आहुति

“वचिद्भूमौ शैव्या क्वचिदपि च पर्यङ्कशयन  
 वचिच्छाकाहारी क्वचिदपि च शाल्योदेनक्षि  
 वचित्कन्याधारी वचिदपि विचित्रास्वरधरो  
 मनस्वीकार्यर्थी गणयति न दुःखं न च मुखम्”

प्रताप मेवाड के राजसिंहासन पर सुशोभित हुये, विशाल  
 मेवाड के सामी हुये, अगणित नरनारियोंके दुर्घे सुख का भार  
 उनके हाथ में आया पर प्रताप के पास उस समय राज योग्य  
 कोई सामग्री न थी। धनबल, जनबल उस समय मेवाड में  
 रुछ भी नहीं था। सर्ग तुल्य मेवाड उस समय शमशान भूमि  
 बनी हुई थी। उस समय मेवाड जनशून्य था। मेवाड की  
 राजधानी चिंतोड—मुगलों के हाथ में थी, मेवाड भूमि में  
 चारों ओर उस समय अन्धकार छा रहा था। राजपूत दोरों के

के कभी पृथ्वी पर सो रहते हैं कभी उत्तम पलङ्ग पर रायन करते हैं  
 कभी साग पात खाकर रह जाते हैं, और कभी चायलादि का उत्तम भोजन  
 करते हैं कभी गुदढी ओड़ते हैं और कभी अद्भुत वस्त्र पहिनते हैं कार्यवीर  
 भयानक काम करने याले मनुष्य कभी दुर्घे सुख का अनुमान नहीं करते हैं

“भूमि राय्या कहु पलंग पे शाकहार कहुभिष्ट,  
 कहु कथा मिर पांव कहु अर्धी मुख दुख इष्ट”—खेलह ।

## मीथ्म प्रतिष्ठा और संघ आहुति

हृदय में से लाशा की ज्योति बुझ चुकी थी। निराशा द्वीपी महासागर में राजपूतगण गोते खा रहे थे, केवल मेवाड़ में ही नहीं, चारों ओर राजस्थान में से प्रतापसिंह को कहाँ से भी सहायता की कुछ लाशा नहीं थी। राजपूत घोर अपनी अनुभाविक धीरता को भूल कर मुग़ल दरबार के क्रीतदास उन चुके थे। उस समय चित्तौड़ की कैसी दशा थी इसका अनुमान पाठ्क केवल इसी से करले कि चारण, भाटों ने उस समय चित्तौड़ की उपमा विद्या खी से दी है।

महाराणा प्रताप ऐसे ही राज के सामी हुये, उनके पास धन बल, जन यल कुछ न था परन्तु सबसे बढ़ कर हृदय का उत्साह था। वे जानते थे, जैसा उनका हृदय है वैसी राज प्रताप की, मेवाड़ की परिस्थिति नहीं है। परन्तु धीरवर के हृदय पर बालक प्रताप रहते हुये जो संस्कार जगत्यागी थे वे कभी दूर न हुये # अपने यहा के सदेशी चारण भाटों के मुख से अपने पूछजों के पूर्व गौरव का वृत्तान्त सुनते २ प्रताप के हृदय में चित्तौड़ उद्धार का दूना होगया। यद्यपि अकबर की नीतिनिपुणता से समस्त राजपूताना अपनंग मान मर्यादा पर लात मार कर पराधीनता की जब्जी में जकड़ा हुआ था। जो राजपूत फिसी समय मेवाड़ व छाया तले में रहते थे उनमें से अधिकाश्च अकबर के बिना मोर्खे चेरे बन गये। जो राजपूतगण एक समय चित्तौड़ की शिक्षा के लिये अपना खून बहाते थे वे ही अकबर की नीति परायण से हुए।

वास्तव में दुर्युल हृदयों को यहान करने के लिये महापुरुषों धीरत चरित और वृत्तान्त से बदकर और कोई उपाय नहीं है। महिला जी के हृदय में भी स्वदेश, भगि रामायण और भद्रामारत की से हुई।

के कारण चित्तौड़ की, मेवाड़ की, स्वधीनता को मिटाने के लिये तैयार हो रहे थे। जो राजपूत एक दिन मेवाडाधिपति के पसीने की जगह अपना खून बहना अपना परम सौभाग्य समझते थे वे ही अकबर की नीति पाश में फँसकर महाराणा के खून के गाहफ़ बन चैठे थे। मारवाड़ के उदयसिंह अकबर के सेनापति थे उन्होंने अपना हृदय तक अकबर को बिच दिया। चूंदी के हाड़ा जो महाराणा के परम मित्र थे समय समय पर महाराणा को सहायता देते रहते थे वे भी अकबर के हाथ की कठपुतली बन चुके थे। कहने का सारांश यह है कि उस समय राजपूतों के हृदयों से स्वदेश और सजातीयता का भाव एक दम दूर हो चुका था। राजपूत, राजपूत का खून चूसना चाहता था यहा तक कि प्रताप को भाई सागर जो और शक्सिंह भी भाई चारे और जननी जन्मभूमि के नाते को

\* सागर जी भी प्रतापसिंह के हौमातृज भाई थे। इस के साथ माई जामन को सिरोही के राय सुलतान ने मारदाखा था परन्तु इसका बदला प्रतापसिंह ने कुछ न लिया क्योंकि राय सुलतान राणा का दामाद था। इसी से बिगड़ कर सागर जी अकबर से जा मिले थे। अकबर ने उन्होंने राणा की पदवी और चित्तौड़ दिया। कुछ इतिहास लेखकों का मत है कि जब जहांगीर के नमय में पतपसिंह के पुत्र अमरसिंह की सन्धि हुई तब जहांगीर ने उनसे राणा की पदवी और चित्तौड़ क्षेत्र कर अमरसिंह की दें दिया था। कुछ इतिहास लेखक कहते हैं कि सागर जी को अपनी करनी पर बहुत पहचानताप हुआ था। इस लिये वह अपने भतिजे अमरसिंह को चित्तौड़ देकर जाले गये थे। जहांगीर ने उन्हें राणा की उपाधि दी थी खागर जी ने अमरसिंह में खाल रपया। जगाहर बाराह जो का मन्दिर बनवाया था। उसे भी जहांगीर ने तुड़ा बाला था। इस कारण अपना अन्य किसी बकार से जहांगीर द्वारा तिरस्कृत होने पर दरबार में अपनी छाती पर 'खलाखात' करके आत्मघात किया। सागर जी के एक पुत्र मुहम्मदशाही थे

भूलकर प्रताप की ओर जा मिले थे। पर इन सब वार्ताँ से प्रतापसिंह निराश और निरसाद्वित नहीं हुये। राजपूतों की यह दुःखशा देख कर वे दुष्प्रिय होते, पर अपने भाइयों की देसी मिति देखकर वे और भी दुष्प्रिय होते थे। परन्तु इन सब अड्डवलों के आ जाने पर भी वे ध्रुत ने डिगे नहीं उन्होंने अपने अतको पूरा करने के लिये कठिन भौध्म प्रतिष्ठा धारण की।

ससार के यहुत से देशों में अपनी जन्मभूमि के उद्धार करने के लिये अनेक व्यक्तियों ने फटोर प्रतिष्ठाएँ धारण की हैं। परन्तु प्रताप की भाति यिरले ही लोगों ने देशोदार का कठिन ध्रुत प्रहृण किया होगा। जानते हो, प्रताप का कठोर ध्रुत क्या था? अरे! दुबल हृदय उस कठोर ध्रुत को कल्पना भी नहीं कर सकता है। प्रताप की उस असाधारण प्रतिष्ठा, भौध्म प्रतिष्ठा की घात सुनते ही, रोंगटे खडे होजाते हैं, आपों में से पानी मेह की झड़ी के समान गिरने लगता है। अरे विलासिता के प्रेमियों और दासो! तुम भोगविलास में पड़े हुए देशोदार की डीग हाथकरे हो। तुम अपने कान के पढ़े खोल कर उस राजपुत्र की, उस नरनाथ की प्रतिष्ठा सुनो, केवल सुन कर ही हुप मत हो जाओ, अपने हृदय के कपाटों को खोलकर उस प्रातिष्ठा को धारण करो। तथ देखो तो

इसा था, दाढ़ साहब ने उसका नाम महावत था। लिखा है। किसी किसी इतिहास लेखक का मत है कि सागर जी के पुत्र न मुसलमानी धर्म प्रहृण करके अपना नाम महावत था। रक्षा। कोइ कोई इतिहास लेखक कहते हैं कि महावत जां सागर जी की मुसलमानी धर्म का वेदा नहीं था। यह कानून से आया था पहिला नाम उस हा अमाना थे। यह नाम जहांगीर ने रक्षा की। जो शुक हो जहांगीर के समय में महावत जां वैसा योद्धा और सेनापति था वैसा क्यों नहीं था। कान्पार का इसे सागर जी के अधिकार ना—खोलन।

सही कि प्रताप की प्रतिष्ठा कैसी थी ? वह बज से और परधर से भी कड़ी थी या नहीं। परन्तु नहीं, तुम लोगों को प्रताप की प्रतिष्ठा पर ध्यान देने का समय ही कहां है ? तुम्हारे पापाण हृदय पर प्रताप की वह प्रतिष्ठा अपना प्रभाव कैसे जमा सकती है ? ।

जानते हो कि जननी से बढ़कर जन्मभूमि का सिद्धान्त प्रचलित है पर कितने लोगों ने अपने व्यावहारिक जीवन —“जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी”—इस वाक्य की कार्य में परिणत करके दिखलाया है। प्रताप इस वाक्य को केवल अपनी वाणी से रट कर ही शान्त नहीं हुए थे। उन्होंने अपने इस वाक्य की कार्य में परिणित करके दिखलाया था। प्रताप सच्चे क्रियाशील थे, उनके हृदय में अपनी जन्मभूमि की दशा पर शोक सागर उमड़ रहा था। जननी की मृत्यु पर बहुत आदमियों को शोक मनाते देखा है परन्तु प्रताप ने अपनी जन्मभूमि के लिये जो शोक किया था, वह उनकी इस प्रतिष्ठा से ही प्रकट होता है कि जब तक चित्तोड़ उद्धार न होगा। तब तक हम और हमारे चंशाधर बाल नहीं घनवायेंगे\* सोने चांदी के पाजों में भोजन नहीं करेंगे, पलड़ पर कोमल शश्या पर शयन नहीं करेंगे इस प्रतिष्ठा के अनुसार कार्य किया गया। सभी सोने चांदी के घर्तन फीड़ गये सुख, की-सामग्री नष्ट की गई, राज परिवार ने कोमल पलड़ की शश्या परित्याग करके तुण की, धोस की, शश्या अहण की। सदेश भक्त प्रताप केवल इतना ही कर के शान्त नहीं हुये। उन्होंने एक ऐसा उपाय किया जिससे यह शोक-पट मेयाद के सामने सदैव के लिये रह जाये। चित्तोड़ की

\* भारत के दुर्मिल से चित्तोड़ को यह पूर्व गौरव किर प्राप्त नहीं हुआ।

साधीनता नष्ट होने से पहले चित्तीट के टक्के (नगाड़े) सेना के सामने रहते थे। परन्तु जन्मभूमि के उद्धार करने का ग्रन्थ स्मरण कराने के लिये धीरघर प्रताप ने आशा दी कि “यह नगाड़े मेघाट की सेना के आगे न घड़कर पीछे चला करें। प्रताप ने कठोर प्रतिष्ठा की कि प्राण रहते मेघाट का गोरव नष्ट नहीं होने देंगे, जन्मभूमि की मान मर्यादा की रक्षा के लिये कुछ यच्चा नहीं रखेंगे, माता के दूध पर कभी नहीं आच आने देंगे।” इस भावि प्रताप ने कठोर देशोद्धार का कठिन ग्रन्थ, उठाया जिस प्रकार माता के परलोक घास करने से उसकी वियोग घेटना में शोकाकुल होकर पुनरुच्छ दिनों के लिये एवं सुन्न सामग्रियों का परित्याग कर देता है। वैसे ही प्रताप ने जन्मभूमि के शोक में नव सुख दीन पर खात मार दी।

“राजर्पि प्रताप केवल सदैश के लिये सब्य ही सन्यासी नहीं हुये किन्तु उन्होंने समस्त देशों को संन्यासी बना डाला उन्होंने आशा दी “समस्त प्रजा राज्य को छोड़कर पहाड़ों पर रहे। राज में कोई महोत्सवादि न हो। सब घर जला दिये जाये वहाँ कोई धारिज्य छपि आदि करने न पावे। कोई भी ऐसी घन्तु न रहे जिससे मुसलमान वैरियों का आकर्षण होने पावे। जो कोई राज आशा भइ करेगा उसे प्राण दण्ड होगा।” ऐसी आशा धीरघर प्रताप ने अपने राज्य में प्रचलित करा दी। हँसने घालो। भले ही हँसा और कहो कि प्रताप की यह पागलपन की प्रतिष्ठा थी। ससार में किसी को किसी कार्य करने की सध्या लौ लगी हुई होती है उसी को पागल

जिसके कारण मवाट के राणा अंज तक स्पन्तर में इस आशा का चालन करते आते हैं। शायन करते समय शरण के नीचे घास रख दी जाती है, सोने धोड़ी के घंसीनों में पत्तों पर भोजन रखा जाता है। अब भी की सेना का रण टह्हा पांछे रखा जाता है—घेसक।

कहते हैं। 'प्रेम में सभी पागल हो जाते हैं, 'प्रेम में मनुष्य अपना सर्वस्व खो देता है। वह प्रेम चाहे जैसा क्यों न हो ? मज़नू ने लैला के प्रेम में अपने प्राण तक गंवा दिये थे। प्रताप का प्रेम लैला मज़नू का सा न था। उनका प्रेम देश प्रेम योगी जनों की भाति था जो ईश्वरीय प्रेम में सर्वस्व त्यागकर एकान्त सेवन करते हैं। उन्होंने अपने राष्ट्रीय यज्ञ को पूर्ण करने के लिये सर्वस्व खाहा कर दिया। अपनी प्रजा के हृदय में देश की शोचनीय 'स्थिति' को 'बनाये' रखने और देश की शोचनीय दशा सुधारने के लिये उन्होंने 'इस कठोर ध्रत का अवलम्बन किया था।

प्रजा ने सहर्ष अपने नरनाथ की इस आक्षा के सामने मस्तक झुकाया। 'थडे' सरदारों से लेकर सौधारण श्रेणी की प्रजा तक प्रताप के इस कठिन ध्रत में सहायता करने के उद्यत हुई। अपनी प्रजावर्ग की सहायता से प्रताप ने देशों द्वार का शुभ अनुष्ठान आरम्भ किया।

# (सूतवां प्रक्षेप)

## राजाज्ञा भङ्ग का दण्ड

“अहो, जिनको विधि सब जीव सों बढ़ि दीनों जग काज ।  
अरे, दान सलिल वारे सदा जे जीतहिं गजराज ॥  
अहो, भुज्जो न जिनको मान ते नृपवर जग सिरताज ।  
अरे सहहिं न आज्ञा भङ्ग जिमि दन्त पात् सृगराज ॥  
यरे, केवल यहु गहिना पहिरि राजा होइ न कोय ।  
अहो, जाकी नहिं आज्ञा दरे सो नृप तुम सम होय ॥

—भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

महाराणा प्रताप केवल देशोदार के कठोर व्रत पालन करने की आज्ञा देकर ही निश्चिन्त नहीं हुए। वे घोडे पर सवार होकर अकेले अपने राज्य में घूमते थे और छिप छिप कर देखते थे कि उनकी आज्ञा पालन होती है या नहीं। जो कोई उनकी आज्ञा भङ्ग करता था वह पकड़ा जाता था और कठोर दण्ड पाता था। थोड़े ही दिनों में मेवाड़ के अधिकार स्थान उजड़े हुये दिखाई देने, लगे। यहा तक कि राजपथों पर डसाडस भोड़ लगी रहती थी, जिन पर रास्ता मिलता कठिन हो जाता था, तिल रखने को भी स्थान नहीं मिलता था, वे सुनसान दिलायी पड़ते थे। जिन बड़ी बड़ी बट्टालिकाओं में कोलाहल के कारण एवं भी सुनता सुशिक्ल हो जाता था, वे उजड़ी हुई इनमें पशु पक्षियों ने अपने घोंसले बना लिये।

महलों में दोशनी के कारण आखें चका चौंध हो जाती थीं उनमें अन्धेरा छाया हुआ था। जिन स्थानों में हाथियों की चिग्घाड़ और घोड़ा की हिनहिनाहट रात्रि दिन सुनारे पड़ती थी उन स्थानों को जङ्गली पशुओं ने अपना अद्वा बना लिया था। जिन स्थानों में सुन्दर पुष्प वाटिकायें बनी हुई थीं जहां पुष्पों की सुगन्धि से मस्तक में त्रावट हो जाती थी अब वे स्थान कटीले बन हो गये थे। फूलों के स्थान में बहुत से काटे उग कटीले बृक्षों और झाड़ियों से रुक गये थे। जिन बडे २ महलों में अप्सराओं सी रूपवती कमलनयनी सुन्दरियां रहती थीं वहां अब भयड़र जङ्गली जन्तुओं का बास था। कहा तः कहाँ स्वर्ग तुल्य मेवाड़ की शमशान भूमि से भी गई बीती दशा हो गई थी।

एक दिन प्रताप अपने साथियों के साथ बनास नदी के किनारे अनततला नामक स्थान में घूम रहे थे। इतने क्या देखते हैं कि एक गडेरिया छिपकर अपनी मेड बनास नदी के किनारे उगी हुई बड़ी बड़ी घास पर चराने लिये लाया था कि दैव संयोग से राणा जी की उस पर निगम हुई। उस बेचारे को क्या मालूम था कि महाराणा खोज खोजते यहां तक आ जावेंगे वह समझे हुये था कि इस निर्मान में उसे कोई देख नहीं सकेगा। परन्तु नहीं उसका स्थान मिथ्या निकला। महाराणा यहा पहुच ही तो गये महाराणा को सामने देखते ही बेचारे गडेरिये के होश फार हो गये, महाराणा ने उसे आद्वा भङ्ग के लिये कठोर दण्ड व्यवसा दी और गडेरिये को प्राण दण्ड मिला। उसकी एक बेड पर लटका दी गई जिससे दूसरे लोगों को वा-

भड़ करने की शिक्षा मिलती रहे। बस इस तरह से उस श्यामल सस्यपूर्ण सामाविक सुन्दरता की यानि समतल मेवाड़ की अवस्था। उस अवला के समान हो गयो जो विघ्वा होते ही अपना सब शृङ्खार गहने कर दे उतार, मलिन, हीन भिखा रिणी के समान हो जाती है। शश्पर्शालिनी मेवाड़ भूमि मर-भली बन गई।

मेवाड़ को उज्जाड़ कर राजर्पि प्रतापसिंह ने अपनी राजधानी कुम्भलमेर में बनाई तथा गोगू दा आदि पहाड़ी किलों को ढूढ़ किया। मुसलमानों से लड़ने की तैयारी करने लगे। परन्तु उस समय उनके परिवार की दशा और भी भयानक थी कि जो नदा राजोचित भोग विलास करते थाये ये थे दीन भाव से भिखारी के समान कन्दराओं में गुफाओं में भटक रहे थे। राज महिपी को अपने हाथ से रसोई थनाकर पेड़ों के नीचे धास के बिछोने पर सोना पड़ता था। इस सांति प्रताप का राज परिवार भी अपना समय बिताने लगा।

प्रताप ने जिस कुम्भलमेर में अपनी सेना इकट्ठी की थी वह मेवाड़ के पहाड़ी प्रदेश के बीच में है। उस प्रदेश में जाने के लिये एक दो से अधिक पहाड़ी रास्ता नहीं है। मुग्ल सेना उस प्रदेश से बाहर इकट्ठी हो रही थी। पहाड़ों प्रदेश का उसे कछ भी पता न था। मेवाड़ के उज्जड़ जाने से बादशाही सेना कौ साने पीने को सामग्री का अभाव था। इस लिये बादशाही सेना का भोजन की यथेष्ट सामग्री और सैन्यबल बिना उस प्रदेश में घुसना असम्भव था। राजपूत बीर अपने प्रदेश के सभी रास्ते घाटी नाले जानते थे। वे लोग बीच बीच में मुग्ल सेना पर आक्रमण करके उसके छके छुड़ा देते थे। उस समय उत्तर भारत से वाणिज्य की जो चीज़ें यूरोप को जानी थीं, वह अरबली के पास होकर सूरत

जाने पर जहाज पर लादी जाती थीं। राजपूत लोग इन वस्तुओं को लूटने लगे। इस तरह भी धीरे धीरे उस रास्ते से याचियों को चलना भी मुश्किल हो गया था। मुग़ल सेना धीरे धीरे बढ़ रही थी, दीर प्रताप उन्हें रोकने के लिये उत्तर भाग की पहाड़ी गुफा की ओर बढ़ रहे थे इस स्थान का नाम दलदीघाटी है।

# मुठवा पारच्छट

## अकबर की कपट लीला

“मधुर यचन ते जात मिट, उत्तम जन अभिमान ।

देनक शीत जह सो मिट, जैसे दृष्ट रफान ॥”—दृष्ट ॥

“जाकी धन धरती हरी ताहि न लीजे संग ।

जो संग राखे ही यने तो करि राखु अर्पण ॥

तौ करि राखु अर्पण केरि फरके सुन कीजै ।

कपट रूप यतराय ताहि को मन हरि दीजै ॥

—गिरधर कविराय

आइये । पाठक ॥ आइये ॥॥ थोड़ो देर परम पुनीत  
 प्रताप—चरित को आलोचना न करके उनक प्रतिद्वन्द्वी अकबर  
 को नीति कुराक्ता पर भो विवार करे । हम लोगों को  
 इतिहास में पढ़ाया गया है कि अकबर हिन्दुओं के बड़े  
 भिष्य थे । हिन्दुओ से यदा प्रेम करते थे हिन्दुओं के साथ  
 अकबर का व्यवहार बहुत ही अच्छा था । कोई कोई इतिहास  
 अकबर के गुणों पर फूल कर कुप्पा ही गये हैं । बहुत  
 लोगों ने “दिल्लीश्वरो वा जगदोश्वरो वा”—यह उपाधि  
 कबर को देकर अपनी उदारता की बहुत कर दी है । स्कूलों  
 को मल मति के थालकों को पढ़ाया जाता है कि अकबर  
 बढ़कर मुसलमानों में कोई बाँशाह नहां हुआ । हिन्दु  
 से प्रसन्न रहते थे और मुसलमान सदा उससे नाराज  
 रहते थे । वह मुसलमानों के नाराजी की कुछ भी

न करके सदैव हिन्दुओं का पक्ष करता रहा। आज कल के मदरसों में हमारे जिन पाठकों ने इतिहास का अध्ययन किया है अथवा जो कोमल मति के बालक और नवयुवक पढ़ रहे हैं, वे हमारे उपर्युक्त कथन से सहमत होंगे कि वास्तव में स्कूलों में पढ़ाये जाने वाले इतिहासों में वादशाह अकबर की ऐसी ही प्रशासा—बल्कि इस से भी घटकर लिखी हुई है। कवि की कल्पना नहीं है लेखक का वाक्य आडम्बर शब्द रचना भी नहीं है। वस्तुतः इतिहास में अकबर को हिन्दुओं का मित्र ही कह कर सम्बोधन किया गया है। कहा गया है कि अकबर के दरबार में गगाजल पिया जाता था, उसने अपने राज्य में गो वध की मनाई करा दी थी और साल भर में छ. महीने से ऊपर अकबर मास भक्षण भी नहीं करता था। हिन्दुओं की तरह अपना लिवास रखता था। तब कहो क्यों न अकबर को हिन्दुओं का मित्र और पक्षपाती कहा जाय। और अकबर के प्रपीत्र—पौरज्ञेव को जानते हो न। वह कैसा था? वह हिन्दुओं का वादशाह विद्रोपी था, उसने हिन्दुओं के मन्दिर तोड़ि, बहुत से हिन्दुओं को मुसलमान बनाया। इतिहास कहता है कि वह हिन्दुओं से घृणा करता था। उसने कितनी ही बार हिन्दुओं को कतल कराया था। रहो तो सही अकबर और औरज्ञेव के आचरणों से तुम लोगों ने क्या परिणाम निकाला है और न्या समझते हो? अरे! तुम क्या उस समय के हिन्दु भी, राजपूत भी वादशाह अकबर की हलाहल विष्य भरी नीति को नहीं समझे थे। यदि राजपूत चीर गण अकबर की इस जहरीली नीति को समझ गये होते तो क्या आज हमारी वृद्धा माता भारत के पैर पराधीनता की, कठोर बेड़ी

से ज़कड़े जाते। समझते हो न! अकबर का इस आडम्यून में मूल सिद्धान्त क्या था? अरे! अकबर की कुर्डिल नीति चाणक्य पण्डित और जर्मनी के विस्मार्क से भी कठोर थी। चाणक्य ने केवल नन्द धंश का नाश करके चन्द्रगुप्त का राज्य यसाया था। विस्मार्क ने फ्रास के नीचा दिसा कर तथा जर्मनी के भीतरी विषुवर्गों को शान्त करके—जर्मन राज्य की पुनर्जापना की थी। पर अकबर की नीति का पता लगाना टेढ़ी खीर है। अकबर का हिन्दूपन का ढींग क्या था? हम साफ भीर खुले शब्दों में कहेंगे कि वह अकबर की कपट नीति थी और कपट नीति भी कैसी?—विषय विषमीपधम्, अर्थात् विष की बीरधि विष है। ज़हर से ही जहर शान्त होता है। ऐहा लोहे से ही काटा जाता है। यस, अकबर की यही नीति थी कि हिन्दू जाति का हिन्दुओं द्वारा ही नाश किया जा सकता है। राजपूत और राजपूतों द्वारा ही वश में किये जा सकते हैं। यही तो अकबर का हिन्दूपन था। इस लिये वह हिन्दुओं से भ्रम करता था। यहि अकबर Divide and rule की अर्थात् भेदभाव और शासन करने की नीति का प्रचार न करना तो नहीं कह सकते कि सब मेरे बड़े मुगल सम्राट नहीं नहीं मुसलमान सम्राट का राज्य उस समय अटल रहता था नहीं। चतुर चूड़ामणि अकबर दैर्घ त्रुका था कि उसके हादा पितामह घावर के राणा साहा की अधीनता में राजपूतों से कैसा कैसा सामना करना पड़ता था। अकबर जानता था कि यहा घालों के, कारण उसके बाप हुमायूँ का बिल्ली का तम्ह तक होड़ना पड़ा था। इस लिये दूरदर्शी अकबर ने सोचा कि पाव में गड़े हुए काटे को द्वाय के काटे से निकालते हैं, वैसे ही अन्दर से अपने वश में किये हुए शनु से रक्तु को नाश करला चाहिये। मिथ्री देने से ही, किसी का

प्राण नाश होना हो वहां विष देने की ज़रूरत ही क्या है ? अस, अकबर का यही सिद्धान्त था, सिद्धान्त क्या था ? कपट जाल था । अस, उसके इस कंपट जाल में भोले राजपूत फँस गये । जिस तरह से मछली थोड़े से आटे के लालच में आकर, अपने प्राण घातक की बंसी में फँस जाती है, अथवा यों कहिये थोड़ी सी मधुर तान की लालच में दौड़ता हुआ हरिण, उहर कर शिकारी का निशाना बन जाता है, वही दशा इस नीति के कारण राजपूत जाति के हुई ।

शत्रु की अपेक्षा मित्रों से भारतवर्ष का विशेषतः राजपूताने का सत्यानाश हुआ है । यह सच है कि औरङ्गज़ेब हिन्दुओं का विद्रेषी था, परन्तु हिन्दू भी उसके विद्रेष से चिढ़कर उससे मुकाबिला करने के तत्वार हुये थे, औरङ्गज़ेब के विद्रेष भाव ने हिन्दुओं को अपने भूले हुये स्वरूप का ज्ञान कराया । औरङ्गज़ेब के विद्रेष भाव के कारण ही दिल्ली की बादशाही खाक में मिल गई । पर अकबर का हिन्दुओं की मित्रता के कारण राज्य जम गया । इस समय जो मुसलमान अकबर की कुटिल नीति के मर्म को न समझ कर उस पर नाक भौं सिकोड़ते थे, चिढ़ते थे, वे भूलते थे । अकबर ने हिन्दु आचरण को ग्रहण करके, राजपूतों के विशुद्ध रक्त तक की कलङ्कित करने की चेष्टा की थी । औरङ्गज़ेब निष्ठुर शासक हो सकता है, माना उसने हिन्दुओं पर घड़त से अत्या चार किये थे पर अकबर ने हिन्दुओं का विशेषतः राजपूतों का एक खटमल अथवा जुप्प की तरह से पीने की कोशिश की थी वैसा औरङ्गज़ेब ने नहीं किया \* औरङ्गज़ेब में हजार दोष

\* औरङ्गज़ेब और बादशाहों की सरद मोग विजासी न था । मरते समय उसने लिखा है कि टोपियां सोकर जो मैं जैवता था, उसका साड़े भार

हों, परवह अकबर के समान विलासी और इन्द्रिय निरत न था। अकबर की तरह औरद्दूजेव न तो नाच गान पसन्द करता था और न अकबर की भाँति हिन्दुओं की खियों के सतीत्व रत्न को हरण करना चाहता था। अकबर हिन्दुओं पर प्रीति दिखाते थे सही, परन्तु उनका भीतरी अभिप्राय हिन्दुओं को बलहीन, धर्महीन और जातिहीन करने का था और वह कैसे अपने इस मनोरथ को सफल करते थे, सो आगे पढ़ियेगा।

रूपया शाकी है, यही मेरे कफन में खर्च किया जाने और मैंने कुरान लिखकर ४०५] रूपया जमा किया है उसे फकीरों में थांट देना। इससे मलूम होता है कि शिष्टकार्य और सहित्य-सेवा द्वारा औरद्दूजेव अपना निज का खर्च चलाता था। नासिरुल्हीन मुहम्मद—जो शमसुहीन अल तिमश का बेटा था, हिन्दुस्तान का याटशाह होने पर भी बड़े सादे स्वभाव का रहा। उसने सिर्फ अपनी एक ही शादी की, अपनी बेगम से ही घाना पकवाता था--कोइ खाँड़ी या भजदूरिन उसके पास नहीं रहने देता था जो गरीब मुहताजों के खाने में आता है वही आप दाता था। साहित्य-सेवा करके अपना गुजारा करता था। एक दिन किताब नकल की और एक मुख्ला को दिखालाई, मुरला ने उसमें कुछ भूलें दत्तलाई जो उसके सामने तो उसके कहने के मुताबिक ठीक नहीं पर पीछे किर पहले को भाँति बना दिया। एक आदमी के पूछने पर कहा —मैं जानता हूँ कि जो कुछ मैंने लिखा है, सही है, पर उसके सामने न लिता तो उसका जी दुखता। ऐसक

# नवां परिच्छेद

“नौरोज़ा” और अबला का आतिथक अल

धनि धनि भारत की छानाणी ।

बीर कन्या का बीर प्रसविनी बीरवधू जगजाणी ॥

मती शिरोमणि धर्म भुरन्धरि बुधि वल धीरज सानी ।

इनके जस की तिहू लोक में अमल धाजा फहरानी ॥

हरिश्चन्द्र,

सरोदवार रमणी जहा, रमणी वेचनहार ।

रमणीगण के रूप का, लगा अनूप बजार ॥

हमारे बहुत से पाठकों ने नौरोजे के मेले का नाम सुना होगा । इस नौरोजे के मेले के चलानेवाले, हिन्दुओं को लाड ध्यार करनेवाले बादशाह अकबर ही थे । अकबर से पहले और उसके पीछे भी किसी की बुद्धि में “नौरोजे” जैसे मेले के प्रबलित करने की नहीं समाई । इस नौरोजे में होता क्या था ? खजी कुछ भी नहीं, होता क्या था—याक़ ! बादशाह अपने राज्य की भीतरी अवस्था जानने के लिये नौरोजे का मेला किया करते थे अकबर के लाडले दुलारे बजीर अब्गुलफजल ऐसा ही कहते हैं । अब्गुलफजल को हम कुछ दोष नहीं देते । भोक ही है; ‘समरथ को नहि दोषगुसाई’ यदि अकबर के समय में कोई दूसरा नौरोजे के मेले का अकबर के समाझी आडम्बर रखता तो अब्गुलफजल इतने उदार हो जाते कि वे अपनी सारी पुस्तक में नौरोजे का मेला करनेवाले को

चानत मलामत देते। स्वयं अकबर ही ऐसे मेले करने घालों की खाल ही उधडवा डालते पर नहीं अकबर और अब्बुलफजल दोनों ही इस मेले में कोई वुराई नहीं समझते थे। अब्बुलफजल ने इस नौरोजे के मेले को लेकर अकबर की खूब ही बकालत की है। अकबर को नौरोजे के मेले से मुक्त करने के लिये उदार हृदय से स्याही रप्न की है। चतुर चूडामणि अब्बुल फजल ने नौरोजे शब्द के अर्थ की खूब ही हत्या की है। भला कहीं सत्य भी छिपाये से छिप सकता है। अब्बुलफजल अकबर के भाष्य से यहुत कुछ कलङ्क हटाने की चेष्टा करने पर भी फूठ छिपाने में समर्थ नहीं हो सके हैं। अब्बुलफजल के शब्दों में ही सुनिये गा प्रति भास के बड़े बड़े त्यीहारों के घटले में इसी नौरोजे के नी दिन माने गये थे। नयी साल के नी दिन नहीं थे। नौरोजे, के नी दिनों में सब मुसलमान आनन्द मनाते थे ‘नौरोजे’ के नी दिनों में से एक दिन बादशाह खियों के लिये मेला करते थे। खियों के इस मेले में बड़े बड़े सौडागरों की लिया अपने अपने यहा का माल बेचने लाती थी बादशाह की बेगम शाहजादिया, अमीर उमराव, रईस, राजा लांग जो बादशाह अकबर के आश्रित में रहते थे उनकी लिया सभी अपनी जरूरत की चीजें धरीदती थीं इस तरह से नौरोजे मीना बाजार राजधानी दिल्ली के महलों में रूप की हाट लगती थी। और बादशाह अकबर क्या करते थे? पक्षपाती और खुशामदी इतिहास लेखकों की कपाल किया, पर्योक्ति अब्बुल फजल जैसे खुशामदी इतिहास लेखक कहते हैं कि अकबर अपने राज्य की भीतरी अवस्था जानने के लिये मेला करते थे। बाह क्या खूब अच्छा राज्य की भीतरी अवस्था यद्यकहना क्यों उपाय सोचा। न

फर कहा,— 'अरे ! नराधम !। पापिष्ठ ॥ ईश्वर की शपथ खाओ कि फिर कभी राजपूत कुल कलङ्कित करने की चेष्टा नहीं करोगे । नहीं तो अभी तुमको इस छुरी से यमलोक ले पहुंचाती हूँ । कहावत है कि चोर के कभी पैर नहीं होते, अन्याय के कट्टीले वृक्ष और पर्वत के समान घड़े पापियों के कलेजे भी जरा से न्याय के पत्ते हिलने पर दहल जाते हैं । वो ही दशा धादशाह अकबर की हुई अकबर भारतवर्ष के लाय सब्राह भले ही रहे पर पृथ्वीराज की बीरबाला के साहस को देखकर उनका भी कलेजा दहल गया और चिना किसी संकोच के रानी के कथन के सामने मस्तक झुकाया । धन्य मातृभूमि है, जहां किसी समय ऐसी धीरललनाए हुई थी । आज इस गई बीती दशा में भी भारतमाता का ऐसी पुत्रियों के कारण ही मस्तक ऊचा है, परन्तु हाय । आज ऐसी लियां होना तो दूर रहा, पुरुष भी नहीं हैं । अस्तु, पाठक ! जब राजपूत जाति अकबर की कुटिल नीति की इस चात मे फँसकर अपनी बैश मर्यादा मान और प्रतिष्ठा, तक भूल चुकी थी, तब केवल राजस्थान के ब्रुगतारा प्रतापसिंह ने अकबर का मुकाबला करने जी रानी ।

# दशवां परिच्छेद

## मान का अपमान

“निज कुल की मरजाद लोभवस दूर चराई ।  
जीवन भय जिन खोइ, दई, आपुनी बडाई ॥  
जिन जग सुप हितकरी जाति की जगत हँसाई ।  
लपि जिनको मुप चीर, सवै सिर रहे नवाई ॥  
तिनके संग सानौ कहा मुर देखतहू पाप है ।  
जाइ सीस घु धर्म हित यह सिसोदिया थाप है ॥”

श्रीराधाकृष्णदास

सर्वग्रासी अकबर ने एक एक फरके सब देशी रजवाडों को दृढ़प लिया था, सभी उनके मन बल से मुग्ध हो गये थे। आर्यजाति के एकमात्र आराधनीय रघुकुल कमल दिवाकर धर्म रक्षक, पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र जी ने जिस सूर्यकुल की शोभा बढाई, थी, उसी सूर्यकुल की सन्तान जयपुर नरेश अकबर के सब से पहले दास बने थे। जयपुर के राजा मान सिंह अकबर के दाहिने हाथ थे। कई मुसलमानी-इतिहास लेखकों ने लिखा है कि जयपुर, जोधपुर, आदि के राजा गण उस समय बादशाही सलतनत के बन्मे थे। चास्तब में यह ठोक हो है यदि राजपूतगण अकबर के साथ न होते तो कदापि अकबर निष्कण्टक राज्य न कर सकते। जिन राजपूत-नरेशों ने अकबर की घश्यता, भीकार की थी उनमें से मुगल राज्य में जयपुर नरेश—राजा मानसिंह का बड़ा मान था। कछवाओं के भाटों और चारणों ने राजा मानसिंह को कीर्ति में बड़ी बड़ी ओजस्विनी कविताएँ

हैं। कहा जाता है कि अकबर का आये से अधिक राज्य राजा मानसिंह द्वारा ही विजय किया हुआ था। चारणों की कविता में लिखा हुआ है कि पश्चिम में रूरान के पर्वत पेरी पामीशस तक और पूर्व में अराकान (ब्रह्मा) तक देश इस राजपूत राजा ने राजपूत सेना की सहायता से जीतकर अकबर के अधीन कर दिये थे। इस प्रकार राजा मानसिंह के सम्बन्ध में बहुत सी बातें चारणों और भाटों ने लिखी हैं। जो कुछ हो राजा मानसिंह ने अकबर के राज्य की उन्नति करने में कुछ कसर नहीं छोड़ी थी। मुग़ल साम्राज्य की उन्नति करने में राजा मानसिंह जाति द्वौह, देश द्वौह तक करने में नहीं हिचके। अकबर की दाहिनी भुजा इन्हीं राजा मानसिंह के कारण, राजस्थान के ध्रुवतारा हिन्दूपति मही महेल यादवार्य-कुल कमल-दिवाकर महाराणा प्रतापसिंह, को अनेक कष्ट सहन करने पड़े थे। प्रतापसिंह के साथ अकबर के युद्ध के कारण यही राजा मानसिंह हुए।

मानसिंह दक्षिण में शोलापुर को विजय करके दिल्ली जा रहे थे, राह में मानसिंह जी उनकी राजधानी कुम्भलमेर में आये। प्रतापसिंह हृदय से चाहे जो कुछ थे, परन्तु अपने

१४। कुल के अनुसार उन्होंने राजा मानसिंह का

१५। सत्कार किया। स्वयं उदयसागर तक जाकर स्वागत किया और बड़े आदर सत्कार के साथ उनको

१६। उसी नव प्रतिष्ठित राजधानी में, उदय के तट पर मानसिंह के भोजन का प्रबन्ध किया गया। तो राजा के अतिथि, दूसरे मुँह माँगे मेहमानी, तीसरे के चिर शशु सम्राट अकबर के प्रधान युद्ध मत्री, तिस पट्ट की आज्ञा, इन कारणों से जोजन का प्रबन्ध यथा अच्छा किया गया।

राणा प्रताप उम समय प्रतधारी थे सोने चादी के बर्ननादि सभी उन्होंने छोट रखे थे। परन्तु उन्होंने मानसिंह के आतिथ्य सरकार में किसी प्रकार की शुटि नहीं को। अपने जेष्ठ पुत्र युवराज अमरसिंह को आतिथ्य का भार सौंपा। मानसिंह भी युवराज अमरसिंह की अध्यर्थीता से सन्तुष्ट हुये।

मगमरमर पापाण तिर्मिंति सुन्दर सरोवर के तीर भोजन का अवन्ध-किया गया, भोजन के लिये एवं सजाया गया। भोजन की सामग्री धीरे धीरे आने लगी, ठीक समय पर राजा मानसिंह को भोजन के लिये बुलावा भेजा। मानसिंह आये और भोजन करने के लिये आसन पर बैठ गये, भोजन करने से पहले तीक्ष्ण दृश्य मानसिंह समझ गये कि महाराणा प्रतापसिंह क्यों नहीं आये? उन्होंने भोजन करने से पूर्व पूछा कि महाराणा कहा है? अमरसिंह ने चिनीत भाव से उत्तर दिया—“महाराणा के सिर में दर्द है, इसलिये वे नहीं आ सकते हैं, आप भोजन करें इस यात का कुछ यात्रा न करें”। मानसिंह महाराणा के न आने का उद्देश्य समझ गये और उत्तर दिया—“राणाजी से कहो, हम उनके सिर की पीड़ा का गर्म अच्छी तरह से जानते हैं जो होना था सो हो चुका अब उसके दूर करने का कोई उपाय नहीं है। यदि राणा जी ही हमारे साथ भोजन नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? तत्काल मानसिंह का यह सन्देश—प्रतापसिंह को पहुँचाया गया वे अनेक प्रकार से वहाँ आने के लिये बाल घाजी करने लगे, पर कुछ फल न दुआ। मानसिंह इसी रात पर अडे रहे कि जब तक राणा प्रताप मेरे साथ भोजन करने नहीं जैड़ेंगे तब तक मैं भोजन नहीं करूँगा।

उन्होंने भोजन करने का कारण छिपाना उचित नहीं

समझा। उन्होंने स्पष्ट कहला भेजा ।—“जिस राजपूत अपनी बहिन को तुर्क के हाथ बेच दिया है सम्भवत जिस का मुसलमानों के साथ खान पान होता है उनके साथ राजभोजन नहीं कर सकते।”

अब तो मानसिंह को अपनी भूल ज्ञात हुई कि भाव मान में तेरा मेहमान, अपने मन से मेहमानी ग्रहण कर अच्छा नहीं किया। वे सोचने लगे कि अपमान का कारण हम स्वयम् ही बने थे। उन्होंने ग्रास (कौर) नहीं उठाकर केवल कुछ दाने अन्नदेव के नाम से उठाकर पंगड़ी में रख लिये और चलते समय राणा प्रताप से कहा—“आपके मर्यादा की रक्षा के ही लिये हम ने अपनी सब प्रतिष्ठाएँ गौरव धूल में मिला दिया है यदि आपको इच्छा से दुख सागर में पड़े रहने की है तो भले ही पड़े रहिये। आप को मेवाड़ सदैच के लिये छोड़ना पड़ेगा, अब आप मेवाड़ में चगुल भर जमीन भी नहीं मिलेगी।” इतना कह मानसिंह घोड़े पर सवार होने ही को शे कि प्रताप आप उस समय मानसिंह ने बड़े अभिमान से कहा—“यदि आप दर्प दमन न कर सका तो हमारा नाम मानसिंह नहीं, प्रताप ने शान्त भाव से उत्तर दिया कि आप को युद्धे क्षेत्र में कर ही हम प्रसन्न होंगे। पास खड़े हुए प्रताप के

सरदार ने यह कटाक्ष करते हुए कहा—“अपने सुनकर फूफा अक्घर को भी लेते आना।” मानसिंह ने अपने पर सारा क्षोध उतारा, उस देवारे घोड़े के जोर से घोड़ा भी हृदा से बातें करता हुआ, अपने स्वामी लेकर नी दो ग्यारह हुआ।

जहा मानसिंह के भोजन की सामग्री हुई थी वह सभगवती भागीरथी के पवित्र, पुनीत जल से धोया ग

जिस जगह मानसिंह ने भोजन किया वह स्थान भी धोया गया। राजपूत कुल कलङ्क मानसिंह का जिन्होंने मुँह देखा, उन सबों ने स्नान किया, जनेऊ बदले। स्वयं महाराणा प्रतापसंह ने मानसिंह का मुख देखने के कारण स्नान कर अपने गो शुद्ध किया।

उदयसागर पर जो बातें राजा मानसिंह के चले जाने पर हुई उनकी खबर मानसिंह के कान तक पहुची और धीरे घोरे अकबर के कानों तक भी पहुची, राजा मान ने अपनी द्वीन भाषा में अपनी ओर से नोन मिर्च लगा कर बादशाह कक्षर के कान खूब भरे। अकबर की क्रोधाग्नि मान के 'अपमान' को सुनकर भडक उठी। जो अकबर एक समय राजा मानसिंह को जहरीले लड्डू खिला के मारना चाहते थे। वह आज मान के मान की मरम्मत करने के लिये प्रताप पर आक्रमण करने की तैयारी करने लगे।

छू दी के कागज पत्रों से पता लगता है कि जब मानसिंह अपने भास्त्र उपर को दिल्ली के राज सिहासन पर पिठाना चाहते थे तब उस समय अकबर ने उनको मारने के लिये विवेले लड्डू तैयार कराये थे Tod Raja - han Vol II —लेखक।

# ग्यारहवाँ परिच्छ्रेद

'रणचण्डी' का नाच

बरे अरे। सिन्दूरा बजाओ बजाओ, नगारे पैचोंवे लगाओ लगाओ।  
 चतुर्वर्ण सेना गुलाओ गुलाओ, ध्वजा और पताका उड़ाओ उड़ाओ॥  
 गथी सारथी बीर धाओ सिधाओ, चकावू रचो शीघ्र सेना सजाओ  
 अभी मोरचे जा जमाओ जमाओ, जवूरे सितावी चलाओ चलाओ॥  
 निशाने पै तोपें लगाओ लगाओ, ग्रनीमों के धुरें उड़ाओ उड़ाओ।  
 करावीन ले वाग़ दागो द्रगाओ, उखाडो पुखाडो गिराओ भगाओ॥  
 कटारी छुरी वाण वर्छी सम्हारो भरे रक्त का सिंधु सांडा पसारो।  
 जहा शत्रु पाओ तहा पीस डारो, पुकारी महाराज की जै पुकारो॥

ला० श्रीनिवास दास

अकबर का उस समय सौभाग्य सितोरा बुलन्दी पर था  
 एक से एक बढ़कर बीर पुरुष उसके दरवार में थे भगवान्  
 रामचन्द्र जी के साथ केवल एक विभीषण लङ्का की स्वाधी-  
 नता नष्ट कराने वाला था। अकबर के दरवार में घर का भेदी-  
 लङ्का ढाँचे वहुत से विभीषण इकट्ठे हो गये थे। बाहर के  
 दैरी की अपेक्षा घर की फूट वहुत बुरी होती है। जिस जगह

ऐशाचिनी फूट पहुचाती है। उसी का सत्यानाश करके  
 छोड़ती है। पाठक। हृदय थाम कर कड़ा कलेजा करके सुनो,  
 इस चाण्डालिनी फूट ने क्या नहीं कराया है। चाण्डालिनी व  
 ऐशाचिनी फूट। तुझे हम क्या कह कर सम्बोधन करें? तू ने  
 इस संसार में क्या नहीं कराया है। मन्थरा धन कर तू ने रानी  
 कैकेयी को धहकाया जिससे वैचारे राजकुमार राजचन्द्र को

पथ में महाराज के स्थान में पृथ्वीराज शब्द है। लेखक

बन में कठोर फलेश सहन करने पड़े, विभीषण घनकर तू ने सुरपंचुरी लड़ा को मिट्टी में मिलवा दिया, हुए दुर्योधन घनकर तूने इस म्यां तुल्य भारत भूमि को शमशान भूमि बना दिया । पामर जयचन्द्र घनकर रक्षा गर्भा भारत माता के हाथ पर पराधीनता की ज़ज़ीर में जकड़वा दिये अब तू शक्सिह, सागर जी आदि के न्प में दिल्लीश्वर के दर बार में पहुंच गई जिससे मेवाड़ का सत्यानाश हुआ इस लिये कहते हैं कि तुझे किस नाम से सम्बोधन करें । पिण्डाचिनी तेरी कपट नीति से कोई नहीं बच सकता है । जो एक धार तेरे विषकुम्भ मुखोपम फल को चख लेता है । वह फिर तुझसे कभी प्रीति नहीं छोड़ता है । तू उसे सापिनी की तरह डस जाती है । अरे चाण्डालिनी ! अब तो इस बृद्धा भारत माता पर से अज्ञानता के भयानक और डरावने बादल हटाले । घसं, घटुत हो चुका अब तो इससे दूर रह ।

राजा मानसिंह का अपमान अकबर के लिये बच्चा ही हुआ । मानो भमकती हुई अग्नि में धो की एक आहुति छोड़ी गई । अकबर पहले से ही प्रताप को अपने अधीन करना चाहते थे मानसिंह के अपमान का उन्हें एक और बहाना मिला । अपने डुलारे युद्ध मन्त्री मानसिंह का अपमान उन्होंने अपना ही अपमान समझा । जैसे कोधित सर्प फुफकार मारने लगता है वैसे ही वे भी मानसिंह के अपमान के कारण अपने लोगों को मेवाड़ पर चढ़ाई फरने के लिये उत्तेजित करने लगे । अभान्य वश अकबर के दरवार में महाराणा प्रतापसिंह के छोटे भाई शक्सिंह थे । प्रतापसिंह के वैमातृज भाई सागर भी गाही दरवार में थे उन सब से बादशाह ने अपने मोहिनी मन्त्र के बल से प्रताप के यहा की एक एक करके सभी थातें जान लीं । अपने प्रतिदून्दो प्रताप के सभी मेद

मेचाड पर चढ़ाई करने का प्रबन्ध सोचने लगे । अकबर को इस बात की वहुत चिन्ता थी कि सभी राजपूतों ने मेरे सामने सिर नवा दिया है पर अपनी तक प्रतापसिंह अपनी टेक क्यों रखे हुये हैं ।

अकबर के पास प्रतापसिंह की स्वाधीनता नष्ट करने के सभी साधन उपस्थित थे । पर वेचारे प्रताप के पास अपनी स्वाधीनता को रखने के लिये क्या था ? प्रताप के पास न तो मुगल सेना के समान विशाल सेना थी, न धन बल था और न उनके पास राजपूत कुल कलङ्कों की भाँति धर के भेदी लड़ा ढाहने वाले विभीषण मुगल थे । पर था उनके पास मातृभूमि के उद्धार करने का उत्साह, देशभक्ति और धर्म । प्रेम वश अपने इस हृदय के बल के कारण ही प्रताप अपनी मुझी भर सेना के साथ समुद्रवत् बादशाही सेना का सामना करने को तैयार हुये । जिस दिन मानसिंह अभिमान पूर्वक भोजन के थाल पर से उठ गये थे उसी दिन प्रताप ने समझे लिया था किसी न किसी दिन रणबण्डी का नाच हुये बिना नहीं रहेगा । वे निश्चिन्त नहीं थे । उन्होंने अपने सरदारों और थीर राजपूतों से परामर्श लिया तब सब ने एक स्वर से कहा कि प्राण रहते हम कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे । महाराणा अपने इन सरदारों और राजपूत थीरों के भरोसे ही अपनो जन्मभूमि की स्वाधीनता की रक्षा करने के लिये तैयार हुये जिसके कारण वह अमर हो गये । जब तक संसार है तब तक वहें आदर के साथ प्रताप का नाम लिया जायगा ।

प्रताप अपनी कुछ राजपूत सेना के साथ पहाड़ी प्रदेश में रहते थे । उनकी राजधानी कुम्भलमेर उदयपुर के पश्चिम ओर थी, उसकी लम्बाई चौहाई दोनों ओर चालीस कोस थी चारों ओर वह स्थान पर्वत से परिवेन्द्रित था । पर्वत-माला

शहर एनाह का काम दे रही थी। यीच यीच में कही छोटे छोटे पानी के भरने अपनी अनुयम शोभा को दिखला रहे थे। कहीं कहीं यीच में पर्वत और घना ज़ज़ल उस शोभा को और भी घढ़ा रहे थे। उस स्थान की यह प्राकृतिक शोभा देखने, योग्य ही थी। उदयपुर को इस दुर्गम पहाड़ी प्रदेश का मध्य स्थल कहते हैं। उदयपुर के जिस ओर होकर वहाँ जाना पड़ता है वह बहुत दुर्गम और त़म्हा पहाड़ी रास्ता है। उस दुर्गम स्थान पर राडे होकर जिपर निगाह डालिये गा, उस तरफ ही पर्वत श्रेणी और हरे हरे वृक्षों के सिवाय और कुछ दिखलायी नहीं पड़ता है। कुम्भलमेर के इस निकटस्थी स्थान की ही हल्दी धाटी कहते हैं। अजमेर प्रभूति स्थानों से मुगल मेना इस मार्ग से पहाड़ी प्रदेश में आवेगी, यह विचार कर उसे रोकने के लिये प्रताप अपनी सेना को हल्दीधाटी की ओर ले जाए। हल्दीधाटी के आस पास के स्थानों में से प्रताप के वार्दिस हजार वहादुर अपनी मारूभूमि के लिये शोणित तर्फ परने को लिये इकट्ठे हुए।

राजपूताने के उस कठिन पहाड़ी प्रदेश में भील आदि कई पहाड़ी असम्भव जातियाँ रहती हैं। भील राजपूताने के आदि गासी हैं। मेवाड़ प्रदेश के पहाड़ी स्थानों में भील राजपूताने र से अधिक मिलते हैं। राजपूतों ने भीलों को पहाड़ों में आकर उनके देश पर आधिपत्य जमा लिया है। सब से पूर्व मूढ़, जिन्हें न व्यापे जगत गति। भील लोग अवश्य ही हैं परन्तु चाहे वे असम्भव हों, पर उनकी अपने महाराणा प्रति अटल भक्ति होती है। अवश्य ही वे प्लेटफार्म पर होकर गला फाड़ कर अथवा अखवारों में कलम कुठार कर ही अपनो राजभक्ति की सीमा समाप्त नहीं कर देते वे महाराणा एवं विपत्ति आते ही अपनी राज

श्रावण मास के सातवें दिन रणचण्डी का विकट नृत्य धारम हुआ । हल्दीघाटी के पवित्र क्षेत्र में स्वदेश की स्वाधीनता के निमित्त अगणित राजपूतों के खून की नर्दी घड़ने लगी । राजपूत लोग जन्मभूमि की रक्षा के लिये अपना खून यहाकर ही चुप नहीं हुए किन्तु उन्होंने मुगल सेना के अनेक बीरों का सिर तन से जुदा कर दिया हल्दीघाटी का युद्ध सामान्य नहीं था वह युद्ध बड़ा विकट था । स्वदेश रक्षा के निमित्त एक ग्रीस देश को छोड़कर और कहीं भी ऐसा युद्ध हुआ है या नहीं इसमें सन्देह है । एक ओर प्रचंड मुगल सेना समुद्र के समान आगे बढ़ने लगी । दूसरी ओर से महाघली राजपूत उस सेना की गति रोकने के लिये आगे चढ़े । मानों दो मत्त हाथियों का मल्लयुद्ध होने लगा । उसी तङ्ग घाटी में जहा आदमियों को मार्ग मिलना कठिन होता था, वहा अगणित हिन्दू मुसलमान एक दूसरे को मारने फाँड़ने चीरने के लिये छाती फैलाकर खड़े हुये थे । जहा तक दृष्टि पहुचती थी वहा तक नरमुण्ड ही नरमुण्ड दिखलायी पड़ते थे ।

पाठक ! एक बार अपनी कर्तपना शक्ति से देखो कि कैसा भयङ्कर युद्ध था । तूफान उठने से पहले समुद्र निश्चल शान्त और गम्भीर होता है, परन्तु तूफान के आते ही समुद्र की लहरें भयङ्कर रूप धारण कर लेती हैं समुद्र की लहरें कूदती

हुई आकाश से चाते करना चाहती हैं ठीक

दोनों ओर की सेना की हुई । क्षण भर के लिये आं के बीरों ने एक दूसरे को खिं, निश्चल और भाव से देखा । परन्तु बीणा बजने की उन्मादिनी

पहाड़, बन, पशु, पक्षी सभी कोधित ही उठे । बाजे की उन्मादिनी ध्वनि से हाथी घोड़े पैदल सब ही युद्ध के

हो गये । दोनों दल एक दूसरे पर दृढ़ पड़े ।

बल की ओर से “दीन, दीन जहाद” नाद सुनाई पड़ने लगा। राजपूत—सेना के “हर हर महादेव” शब्द की ध्वनि से आकाश प्रति ध्वनित होने लगा। राजपूत बीर मुगल सेना पर जैसे भूया सिहं हरिणों के झुण्ड पर खपटता है। वैसे ही टूट पड़े। मुगल सेना राजपूतों का साहस बल और आत्म त्याग देख कर चकित होकर स्तम्भित हुई। मेवाड़ भूमि की स्थाधी नता को बचाने के लिये राजपूतों ने अपने प्राण-प्रण से युद्ध किया। बीरवर प्रतापसिंह भी निश्चिन्त नहीं थे। वे निडर होकर सबके आगे थे और शत्रुओं का सैनिक बल नष्ट कर देना चाहते थे, उन्हें इसमें सफलता भी हुई। उन्होंने अपने, असाधारण साहस से मुगल सेना का चकन्यूह तोड़ दिया। प्रताप का साथ लड़ने लगे। जिस तरह भूखा व्याघ्र बड़े यहं-हाथियों को क्षण भर में चीर डालता है, वैसे ही अकेले प्रताप ने असंख्य मुगलबीरों को तलवार से काट डाला। राजा मानसिंह से कहा था कि मैं युद्ध में जापजो देखकर प्रसन्न होऊंगा। वहस, वे इस युद्ध स्थल में मानसिंह को ढूढ़ने लगे पर कही मानसिंह का पता न लगा। वे दो बार वैरियों की सेना में पहुच गये पर कहीं भी मानसिंह का पता न लगा। मानसिंह प्रताप की रुद्रमूर्ति से, भयभीत होकर नीकरों की भीड़ में अपनी रक्षा कर रहे थे। दूसरी बार प्रताप मानसिंह को ढूढ़ते ढूढ़ते बहुत सी मुगल सेना के धीर में पहुच गये। किन्तु राजपूत धीरगण भी निर्धन्त नहीं थे। उन्होंने प्राणों का याजी लगाफ़र अपने महाराणा की रक्षा की। सैकड़ों राजपूतों ने अपने महाराणा की जांगन रक्षा के लिये सहर्ष प्राणों का विसर्जन कर दिया। भील लोग भी जान्त नहीं थे। उन्होंने धूधों और थोटमें से तीरों से, परथरों से मुगल सेना के मैफ़दे धीरों के चकनाचूर कर दिये। दोनों भार से घमासान युद्ध हुआ।

# बारहवाँ परिच्छेद

## भाला सरदार का आत्मत्याग

मित्र परीच्छहु मैं कियो सरजागत प्रतिपाल ।

निरमल जस शिवि सो लियो तुम या काल कराल ॥

हरिश्चन्द्र

दो बार मुगल सेना के धीर में पहुच कर और मानसिंह को न पाकर प्रताप निश्चिन्त नहीं हुये उनकी अन्तर्यापिनी प्रचण्ड अग्नि अभी नहीं दुखी थी वे देश द्वीही कुलकलङ्क मान सिंह को इस समय भी मत्तसिंह की तरह खोजते थे । नर केसरी प्रताप युद्धसेव में चारों ओर आखें गडाये हुए देख रहे थे कि देश द्वीही भीषण वैरी मानसिंह कहाँ है ? उस समय प्रताप अपने चेतक घोड़े पर सवार थे, वास्तव में चेतक घोड़ा प्रताप के योग्य ही था जैसे प्रताप वीर थे, वैसा ही उनका घोड़ा भी वीर था । जैसे प्रताप रण निपुण थे, वैसा ही चेतक भी रण निपुण था । उसी चेतक पर सवार निढ़र वर प्रताप राजा मानसिंह की खोज में धूम रहे थे ।

जैसे खेल में मट्टी के खिलौनों को उताड़ पछाड़ कर

देते हैं, वैसे ही मानसिंह की खोज में प्रताप मुगल-के अनेक धीरों के दुकड़े दुकड़े कर रहे थे ; उनकी रण

देखकर मुगल सेना आयाकर रह गई, किन्तु प्रताप को

भी मानसिंह दियलाई न पड़े । अपने धीर में मुगल-धीर प्रताप को देख कर उन्हें मार डालने की चेष्टा करने लगे । प्रताप के पक पक करके देह उभय भूमि शायी हप पर

प्रताप को इसको युछ परवाह न मुर्द, वे अकेले ही मुगल बीरों का सामना करते थुये, देशद्रोही मानसिंह को ढूँढने से।

मानसिंह का तो कहाँ पता नहीं लगा, पर सामने ही वे क्या देखते हैं कि अकबर का युवराज सलीम हाथी पर सेना के बीच में है। मानसिंह न सही सलीम ही सहो यह सोब कर अपने घोड़े के एड़ लगाई घोड़ा भी अपने स्वामी के इशारे से आगे बढ़ा। उनको मारे बढ़ते देख कर चारों ओर मुगल सिपाही युवराज की रक्षा के लिये जमा होने लगे और उन्होंने मिल कर ग्रन्ताप पर आक्रमण किया, परन्तु प्रताप की चीरता के सामने मुगल सेनिकों का आक्रमण व्यर्थ हुआ। किन्तु प्रताप ने इसका कुछ स्वाल नहीं किया। स्वदेश के लिये उस युद्ध में प्राण त्याग मानों उनका सिद्धान्त था। उन्होंने दूर से सलीम पर तेज घर्डा चलाया दैनयोग से वह घर्डा सलीम के लोहे के टीटे से टकरा कर व्यर्थ हुआ। तब प्रताप ने सलीम की ओर अपना घोड़ा घडाया अपने स्वामी का अभिग्राय भमझ कर चेतक एक छलाह मार कर सलीम के हाथी के निकट पहुंच गया। तेजस्वी चेतक ने हाथी के माथे पर दाप जमा दी। ऐराघत के समान उस महागज के माथे पर उच्चैश्वरा की भाँति चेतक का पैर शोभायमान होने लगा। प्रनाप की इस रण निपुणता का देसकर थोड़ी देर के लिये चौरमण्डली आगाक् रह गई उनके शत्रु भी उनके इस साहस को प्रशंसा करने लगे। इस अवसर पर प्रतापसिंह एक क्षण के लिये भी नहीं ठहरे उन्होंने मुहूर्त मात्र का विलय करना भी उचित नहीं भमझा। उन्होंने सलीम को मारने के लिये तल-धार चलाई वह तलधार सलीम के हैंदे से फिर दफराई पर इस धार खाली — जैसे विने से उछल कर महाचत् ।

तलवार के आधात से चेचारा महावत पृथ्वी पर आगया। यिना महावत का हाथी युवराज सलीम को लेकर भाग गया, यदि हाथी न भागता तो अकबर की आँखों का प्रदीप बहों बुझ जाता। दैव कृपा से ही अकबर के युवराज सलीम की रक्षा हुई।

युवराज सलीम को इस तरह से विपत्ति में फँसा देख कर मुगल सेना पागल हो उठी सब की सब सेना चीर-प्रताप के प्राणों की ग्राहक बन बैठी मुगल सेना ने चारों ओर से प्रताप को घेर लिया। प्रताप ने भीम विक्रम से अनेक शत्रुओं को मार गिराया। पर अकेले प्रताप को देख कर मुगल सेना का जोश ठंडा नहीं पड़ा। जिस तरह से समुद्र की तरङ्गें पहाड़ से पहली बार टक्कर खा कर दूसरी बार और भी जोर से टक्कर खाती हैं उसी तरह से मुगल सेना पहिले से अधिक जोर के साथ प्रतापसिंह पर हृटी। अकेले प्रताप और मुगल सेना के असम्मय चीर, कैसा भयङ्कर युद्ध है। अब प्रताप की कौन रक्षा करेगा। अकेला चीर इतनी विशाल सेना से कब तक लड़ेगा? यह चिन्ता सधके चित्त को डावाँडोल करने लगी। सभी को प्रतापसिंह के जीवन की चिन्ता हुई असम्मय मुगल चीरों से धिरने के अतिरिक्त उनके शरीर पर तोन बर्छी के तीन तलवार के और एक गोली का आधात लग चुका था इतने में ही “जय प्रताप की जय” शब्द सुनाई पड़ा। यह शब्द सुनते ही प्रताप पहले से और भी अधिक उत्साह के साथ लड़ने लगे। इतने में ही साबटी के भाला सरदार मन्ना प्रताप सिंह जी के पास पहुच गये। उनके ऊपर से राजेष्वर चबर हटवाकर अपने ऊपर लगवा लिया। मुगल सेना ने भाला सरदार मन्ना को ही महाराणा प्रताप समझा यह प्रताप को छोड़

कर चारों ओर से# झाला सरदार मन्ना पर दृट पड़ी। झाला सरदार मन्ना अनेक मुगल सैनिकों को यमलोक पहुचा कर मुगल सेना के हाथ से मारा गया जिससे महाराणा प्रताप की जीवन की रक्षा गई। धन्य। झाला सरदार ॥ धन्य!!! तुम्हारे जैसे आत्मत्यागियों के कारण ही मेवाड़ के गौरव की रक्षा उस कठिन काल में गई थी।

प्रताप झाला मन्ना के आत्मत्याग को भूले नहीं। उसी दिन झाला मन्ना के वशधरों को राज चिन्ह सहित, महाराणा की दाहिनी और दैठने तथा महलों तक नकारा बजाते हुये आने और राजकीय भण्डा अपने साथ रखने का अधिकार मिला। उन्हें सद्गि देश में ज़मीन दी गई।

भी मारतबप के हतिहास में और भी इस प्रकार के अनेक बदाहरण मिलते हैं एक युद्ध में वाजीराव प्रभु पांडे ने शिवाजी की मी इस तरह से रक्षा की थी। जब तक शिवाजी दूसरे दुर्ग में नहीं पहुंच गये तब तक यह बराबर रमधने में खड़ता रहा और अन्त में शिवाजी की रक्षा के लिये अपने शारों की आड़ति दी ।

# तेरहवाँ परिच्छेद

## विजय या पराजय

“मरना भला है उसका जो जीता है अपने लिये  
जीता है वह जो मर जुका खदेश के लिये।”

हल्दीघाटी के महासंग्राम में वाइस हजार राजपूत वीरों में से चौदह हजार वीरों ने मातृ-भूमि के गौरव की रक्षा के लिये हँसते हँसते श्राण व्यारी के समान सूखु का आलिङ्गन किया। प्रताप के आत्मीय जन ही लगभग पाच सौ थे। ग्वालियर के राज्यचयुत राजा सहाव भी महाराणा के आश्रय में मेवाड़ में रहते थे, वे अपने लड़के खण्डेराव और तुमार-वंशीय कोई साढ़े तीन सौ योद्धओं के सहित मारे गये थे। झाला सरदार मानसिंह अपने डेह सौ आदमियों सहित प्रताप के जीघन की रक्षा करते समय मारे गये। प्रताप ने देखा कि इस तरह से और भी राजपूत मारे गये। सन्ध्या ही चली थी, तब वे युद्ध सम्बन्धी कई प्रयोजनीय आँखाएं देफर ढुखित मन से रणस्थल से हटे। हल्दीघाटी युद्ध समाप्त हुआ, मानसिंह की मनोकामना पूर्ण हुई।

सोचो ! पाठक ! सोचो !! इस युद्ध में प्रतापसिंह की हुई अथवा पराजय, यह सच है कि प्रताप के असंख्य धीर गये। मुग़ल सेना युद्धस्थल से हटी नहीं। प्रताप रण-से चले आये। परन्तु हमारी समझ में इतने पर भी या का पराजय नहीं हुई, उनकी चिरस्मरणीय विजय हुई, आप कहेंगे सो कैसे ? सुनो। मुग़ल सघाट और मुग़ल सेना अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिये लड़ रहे थे, राणा प्रताप और राजपूत जाति अपने देश के गौरव की रक्षा के लिये,

राजपूत जाति की स्थानता के लिये लड़ रहे थे । राजपूत जाति की लडाई सिद्धान्त विषयक थी, मुग्लों की अपने स्थान की थी । जो लोग सिद्धान्त विषयक देश को मान मर्यादा और गोरख की रक्षा के लिये लड़ते हैं वे कभी हार जीत का चिनार नहीं करते हैं । उनकी हार भी लाख जीतों से बढ़कर होती है । यदि उनकी हार जीत से बढ़ कर न होती तो आज ऐसे लोगों को कौन स्मरण करता ? उनकी हार जीत में बढ़कर मनुष्यों के दृद्यों पर मानसिक प्रभाव डालने वाली न होती तो जीत उनके नाम की पूजा करता । जब ऐसी हार में जीत से कहीं अधिक शक्ति है, तब हम कैसे इस को पराजय कहें ? हल्दीघाटी के महासंग्राम में मुग्ल सेना से राजपूत अपनी अतुलनीय धीरता का परिचय देकर क्षण-मात्र के लिये हट अग्रण्य गये, जब तक संसार है वे देश भक्तों के हृदय मन्दिर से हट नहीं सकते, उनका नाम संदेव को याग द्वारा होगिया है । स्मरण रक्षो । यदि गोरखद्विदि और घमरनत्व लोभ ही विजय के चिन्ह हैं, तो राजपूत पराजित नहीं हुए । राजपूतों की विजय हुई । संसार के किसी इतिहास में हल्दीघाटी के युद्ध के समान पराजय, पराजय नहीं गिनी गई है, वह पराजय विजय से बढ़कर समझी गई है । यदि ऐसा न होता तो यूनान देश थम्मापली की सङ्कीर्ण पार्वतीय घाटी में महात्मीर लिलोनिडाज के अधीन, जिन थोड़े से योद्धाओं ने फ्रारस के बादशाह की निशाल सेना के प्रवेश पथ में पहुँच कर आत्मघाती दी थी, उनकी कीर्ति कथों का कदापि इतिहास लेखक बखान न करते । थम्मापली के युद्ध के समान ही हल्दीघाटी में चौदह हजार राजपूत देश के लिये मर कर अपनी कीर्ति अमर कर गये । तब कैसे कहें कि इस राजपूतों की पराजय हुई ।

# चौदहवां परिच्छ्रेद

बन्धु मिलन

"कि मे भ्रातृविहीनस्य स्वर्गेण सुरसत्तमा ।

यत्र ते मम स स्वर्गो नाय स्वर्गोपमो मम" ॥

"राजीवलोचन स्ववन जल तनु ललित पुलकावलि बनी ।

अति प्रेम हृदय लगाइ अनुजहि मिले प्रभु विभुवन धनी ॥

प्रभु मिलत अनुजहि सोह मे पहें जाति नहिं उपमा कही ।

जनु प्रेम अरु श्रूतार तनु धरि मिलत घर सुखमा लही ।"

गो० तुलसीदास

महाभारत में एक कथा है कि महाभारत के युद्ध के पीछे जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग में पहुंचे, उस समय वे वहां अपने भाइयों और द्रौपदी को न पाकर, कहते लगे कि मुझे ऐसा स्वर्ग न चाहिये, जहा मेरे भाई और द्रौपदी न हों, भाइयों और द्रौपदी से शून्य स्वर्ग भी मेरे लिये न रक है । और वह नर्क जहां मेरे भाई हैं स्वर्ग से भी बढ़कर है । चास्तव में भ्रातृ प्रेम ऐसा ही होता है । भारतवर्ष के दुर्माणीय दश आज भाई, भाई में प्रेम की पारस्परिक, निर्मल, शुद्ध धारा नहीं बह रही है, यदि भाई, भाई का प्रेम प्रवाह न सूखता तो कदापि इस देश की ऐसी अवीगति न होती एक दिन भारतवर्ष में, भाइयों में प्रेम का अखण्ड राज्य था । परन्तु वह बात ही आज नहीं । पर यह देखने में आया है, चाहे भाई भाई में प्रेम भाव न हो पर जब कभी किसी पर आपति

"लभाइयों से विहीने इस स्वर्ग को लेकर मैं क्या करूँ ? ऐसा स्वर्ग मुझे नहीं चाहिये वे जहां होंगे, वहीं मेरा स्वर्ग है" ।

आती है तो खून का असर दूसरे भाई पर भी हृषि बिना नहीं रहता है। नित्य प्रति ऐसी घटनाएँ देखने में आती हैं। इस हल्दीयादी के युद्ध में भी ऐसी ही एक घटना हुई।

रणभूमि से निकल कर प्रताप अपने चेतक धोड़े पर अकेले ही चले। उस समय वे यहुत थके हुए थे उनका शरीर खत विक्षत हो रहा था, उनके प्यारे धोड़े चेतक की भी ऐसी ही दशा हो रही थी। परन्तु उस दशा में भी चेतक अपने खामी को लेकर घड़े धेग से जा रहा था। प्रताप को जावे देख कर उनके पीछे दो मुगल सिंहाहों भी दौड़े जिनमें एक का नाम खुरासानी और दूसरे का नाम मुलतानी था। प्रताप पथम तो समस्त दिन युद्ध में व्यवहर रहने के कारण ही थके हुए थे, दूसरे युद्ध का फल और स्वदेश की विज्ञता के कारण दुख सागर में झूये हुये थे। उन्हें अपने पीछे मुगल सवारों के आने की कुछ स्थिर नहीं हुई। जिस मार्ग से प्रताप जा रहे थे उस मार्ग के बीच में नाला था, चेतक छलाग भर कर नाले को पार कर गया, परन्तु उन दोनों मुगल सवारों का धोड़ा नाला पार नहीं कर सका। कुछ आगे बढ़ने पर प्रताप ने अपनी स्वदेशी भाषा में एक आवाज़ सुनी “हो नीला धोड़ा सवार हो”। इस आवाज़ के सुनते ही प्रताप ने पीछे की ओर फिर कर देखा तो मालूम हुआ कि दोनों मुसलमान सवारों को मारकर, तीर की भाति उनका भाई शक्तिह उनके पीछे लपक रहा है। प्रताप, धीर गम्भीर खिट भाष से लड़े हो गये, सोचने लगे कि मुझे मारकर शक्तिह अपनी पूर्वप्रतिज्ञा को पूर्ण किया चाहता है, नहीं तो उन दोनों मुगल सवारों के मारने को क्या आवश्यकता थी? मन ही मन कह लगे—“आओ! आओ! मुझे मारकर अपनी



मैं सजल नयन से भाई को गले लगाया। उस समय प्रताप हल्दीधाटी की पराजय भूल गये मुगलों ने हल्दीधाटी पर विजय लाभ किया था, प्रताप ने अपने भाई के हृदय साक्षात् पर अधिकार प्राप्त किया। उस समय उनके हृदय में अङ्गूष्ठ आनन्द का सञ्चार हुआ। मानो राम और भरत घुट, दिन पीछे मिले।

परन्तु हाय! यह आनन्द दायक समय, अपूर्व समिलन भाइयों का मिलान घुट देर तक न रह सका। क्योंकि महाराणा प्रतापसिंह का घोड़ा—चेतक उस दिन युद्धस्थल में घुट थक गया था। उसके शरीर पर कई घाव भी आये थे। जिस समय दोनों भाई भावुक समिलन का अपूर्व आनन्द-अनुभव कर रहे थे। उस समय प्रताप का घोड़ा, चेतक अपने स्वामी का साथ छोड़ कर इस लोक से सिधार गया। घोड़े की मृत्यु देख कर प्रताप, से रहा न गया। वे फूट फूटकर घाड़ मार कर रेसे रोते लगे, जैसे कोई अपने सजन की मृत्यु पर रोता हो। चमान जारोली के निकट जहा चेतक की मृत्यु हुई थी, वहा चेतक के स्मारक स्तंभ में एक बदिका बनाई गई थी, उसको चेतक का चबूतरा कहते हैं। कहते हैं, मेवाड़ के जिस घर में नाप का चित्र है, उस घर में चेतक का भी चित्र है।

इस घटना के पीछे शक वहा घुट देर नहीं ठहरे, उन्होंने अपना घोड़ा जिसका नाम अङ्गूष्ठ था प्रताप को दे दिया ताप उस पर सवार हो कर चल दिये और शकसिंह उनको द कह कर कि सुविधा होने पर फिर मिलूँगा। मुगल शिविर और लौट दिये।

शकसिंह ने जिन दो संवारीं को मारा था, उनमें से वे रासानी के घोड़े पर सवार हो कर घापिस आये। युवराज श्रीम ने उनसे खुरासानी घोड़े पर आने का कारण पूछा,

पहले शक्सिंह ने असली भेद को छिपाना चाहा, परन्तु सलीम ने समस्त अपराधों को क्षमा करने की प्रतिक्रिया की, और असली हाल कहने के लिये शक्सिंह से आग्रह किया। तब तो उन्होंने व्यौरेवार सब हाल कहा। सुनाया और कहा:- “युवराज! विशाल राज्य का भार मेरे बड़े भाई पर है, उन पर विपत्ति आवे और मैं चुप बैठा रहूँ, यह कैसे हो सकता है? खुरासानी और मुलतानी दोनों को मैंने ही मारा है” भाई के घोड़े के मरने पर अपना धोड़ा, मैंने उन्हें दे दिया, और खुरासानी के घोड़े पर मैं आया हूँ”।

यह सुनकर सलीम थोटी देर चुप रहा पीछे उसने अपनी प्रतिक्रिया स्मरण करके कहा -“अच्छा! आप का सब अपराध क्षमा किया, पर आज मुग़ल सेना को छोड़ जाइयेगा।

यह सुनकर शक्सिंह बड़े प्रसन्न हुये, उन्होंने तत्काल ही सुगल शिविर का परित्याग किया। भाई से अनवन होने के कारण उन्हें देशद्रोहिता का कलङ्क अपने मर्त्ये लेना पड़ा था। बहुत दिन पीछे उनका उस कलङ्क से छुटकारा हुआ। मिलते समय भाई को कुछ नजर देने की इच्छा से मैसरौर गढ़ पर आक्रमण किया, और जीत कर अपने भाई की भेट कर दिया। मैसरौर गढ़ बहुत दिन तक शक्तवतों का स्थान रहा है। प्रताप ने भाई के इस व्यवहार से सन्तुष्ट हो कर वह स्थान वारम्बार के लिये उन्हें दे दिया।

राजमाता पुत्र शक्सिंह को ही बहुत प्यार करती थी। इस लिये वे भी बहीं जाकर रहीं। इसलिये अब भी शक्सिंह के वंशधरों की माताएँ “बाई जी महाराज” कहलाती हैं। शक्सिंह के आ जाने से प्रतापसिंह का और भी बल बढ़ा। चन्द्राचतों की भाँति शक्तवतों की भी वीरेन्द्र सुमाज में परिणाम

हुई। शक्सिंह ने खुरासानी और मुलतानी सिपाहियों को मार कर प्रताप की रक्षा की थी, इसलिये उनके बंशधर अब तक खुरासानी, मुलतानी के आगल अर्थात् खुरासानी मुलतानी को रोकने वाले कहलाते हैं।

पहले शक्सिंह ने असली भेद को छिपाना चाहा, परन्तु सलीम ने समस्त अपराधों को क्षमा करने की प्रतिज्ञा की, और असली हाल कहने के लिये शक्सिंह से आग्रह किया। तब तो उन्होंने व्यौरेचार सब हाल कह मुनाया और कहा—“युवराज! विशाल राज्य का भार भेरे बड़े भाई पर है, उन पर विपत्ति आवे और मैं चुप बैठा रहूँ, यह कैसे हो सकता है? खुरासानी और मुलतानी दोनों को मैंने ही मारा है”, भाई के घोड़े के मरने पर अपना घोड़ा, मैंने उन्हें दे दिया और खुरासानी के घोड़े पर मैं आया हूँ”।

यह सुनकर सलीम थोड़ी देर चुप रहा पीछे उसने अपनी प्रतिज्ञा स्मरण करके कहा—“अच्छा! आप का सब अपराध क्षमा किया, पर आज मुग्ल सेना को छोड़ जाइयेगा।

यह सुनकर शक्सिंह बड़े प्रसन्न हुये, उन्होंने तत्काल ही मुगल शिविर का परिन्याग किया। भाई से अनबन होने के कारण उन्हें देशद्रोहिता का कलङ्क अपने मत्ये लेना पड़ा था। यहुत दिन पीछे उनका उस कलङ्क से छुटकारा हुआ। मिलते समय भाई को कुछ नजर देने की इच्छा से मैसरौर गढ़ पर आक्रमण किया, और जीत कर अपने भाई की भेट कर दिया। मैसरौर गढ़ यहुत दिन तक शक्तवतों का स्थान रहा है। प्रताप ने भाई के इस घ्यवहार से संतुष्ट हो कर वह स्थान धारम्बार के उन्हें दे दिया।

राजमाता पुत्र शक्सिंह को ही बहुत प्यार करती थीं। इस लिये वे भी वहीं जाकर रहीं। इसलिये अब भी शक्सिंह के वंशधरों की मातापै “वाई जो महाराज” कहलाती हैं। शक्सिंह के आ जाने से प्रतापसिंह का और भी बल बढ़ा। चन्द्रवतों की माँति शक्तवतों की भी बीरेन्द्र समाज में परिणामना

हुई। शक्सिंह ने खुरासानी और मुलतानी सिपाहियों को मार कर प्रताप की रक्षा की थी, इसलिये उनके बंशधर अब तक खुरासानी, मुलतानी के आगल अर्थात् खुरासानी मुलतानी को रोकने वाले कहलाते हैं।

पहले शक्सिंह ने असली भेद को छिपाना चाहा, परन्तु सलीम ने समस्त अपराधों को क्षमा करने की प्रतिज्ञा की और असली हाल कहने के लिये शक्सिंह से आग्रह किया। तब तो उन्होंने व्यारेवार सब हाल कह, सुनाया और कहा—“युवराज ! विशाल राज्य का भार मेरे बड़े भाई पर है, उन पर विपत्ति आये और मैं चुप बैठा रहू, यह कैसे हो सकता है ? खुरासानी और मुलतानी दोनों को मैंने ही मारा है” भाई के घोड़े के मरने पर अपना घोड़ा, मैंने उन्हें दे दिया और खुरासानी के घोड़े पर मैं आया हू” ।

यह सुनकर सलीम थोड़ी देर चुप रहा पीछे उसने अपनी प्रतिज्ञा स्मरण करके कहा—“अच्छा ! आप का सब अपराध क्षमा किया, पर आज मुगल सेना को छोड़ जाइयेगा ।

यह सुनकर शक्सिंह बड़े प्रसन्न हुये, उन्होंने तत्काल ही मुगल शिविर का परित्याग किया। भाई से अनबन होने के कारण उन्हें देशद्रोहिता का कलङ्क अपने मर्ये लेना पड़ा था। चहुत दिन पीछे उनका उस कलङ्क से छुटकारा हुआ। मिलते समय भाई को कुछ नज़र देने की इच्छा से मैसरौर गढ़ पर आक्रमण किया, और जीत कर अपने भाई की भेट कर दिया। मैसरौर गढ़ चहुत दिन तक शक्तियों का स्थान रहा है। प्रताप ने भाई के इस व्यवहार से सन्तुष्ट हो कर वह स्थान बारम्बार के लिये उन्हें दे दिया ।

राजमार्ता पुत्र शक्सिंह को ही बहुत प्यार करती थीं। इस लिये वे भी वहीं जाकर रहीं। इसलिये अब भी शक्सिंह के बंशधरों की मानाएं “भाई जी महाराज” कहलाती हैं। शक्सिंह के आ जाने से प्रतापसिंह का और भी बल बढ़ा। चन्द्रांचतों की भाँति शक्तियों की भी बीरेन्द्र समाज में परिणाम



# पन्द्रहवाँ परिच्छेद

## महाबङ्कट

“बडे लहत सुख सम्पदा, बडे सहत दुःख ढन्दे।  
उदुगण घटत न घटत कहु, घटत घटत नित चन्द ॥”

“बडे तजत नहि नीति पथ, यद्यपि प्राण तजि देत।

भूखा रहत सूरेन्द्र तउ, तुण न कब हु मुख लेत ॥”

हल्दीघाटी के युद्ध की समाजि हो खुकी चौदह हजार  
राजपूत वीर हल्दीघाटी की रक्षा के लिये प्रसन्न मुख किसी  
प्रकार का सङ्कोच न करके अपने जीवन को न्यौछावर करके  
स्वर्ग को सिधार गये। हल्दीघाटी राजपूत वीरों के रुधिर के  
सोतों से धुल गई। हल्दीघाटी युद्ध का परम पवित्र क्षेत्र ।  
इस युद्ध की कथा कवियों की रसमयी कविता द्वारा चिर  
स्मरणीय रहेगी। इतिहास लिखनेवालों की पक्षपात रहित पवित्र  
लेखनी सुवर्ण अक्षरों में इस कथा को लिखेगी अन्तकाल तः  
बीरेन्द्र समाज में महाराणा प्रतापसिंह का नाम उच्च रहेगा  
परन्तु हाय ! बीरेन्द्र प्रताप के कष्टों का ठिकाना न था। मान  
बादशाह के साथ ही साथ ससार की खुख सम्पदा सम  
चुनसे रुठ गई। उस समय वीर शिरोमणि प्रताप के दुख ब  
ठिकाना न रहा।

वर्षाशतु के आरम्भ में हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था  
धर्या ने अपना भयङ्कर रूप धारण किया। लगातार की धा  
ने बादशाही सेना का नाकों दम कर दिया पर्वत के आ  
पास नदी नाले भरने लगे, बादशाही लश्कर में बहुत से लो  
चीमार पड़ने लगे। चिजयोन्मत्त मुग्ल सेना का सारा उन्म

चतुर गया। सलीम ने घहा की पेसी खिति देखकर घहा से अपना देरा हटा लिया। प्रताप को फुछ डिनों के लिये अव-काश मिला। परन्तु वसन्तऋतु आते ही सब रास्ते साफ हो गये। मार्ग में किसी प्रकार की रुकावट न देखकर मुगल सेना फिर आ पहुची। प्रतापसिंह ने फिर अपने बीरों को इकट्ठा किया। माघ चूदी ७ समवत् १६३३ को मेवाड़ की स्वाधीनता का पुनर्युद्ध असत्य मुगल सेनिक सब प्रभार की तैयारी करके राजपूत जाति की मान मर्यादा और गौरव को धूल मिट्टी में मिलाने के लिये इकट्ठे हुए। मुगल सेना सब तरह से तैयार थी उनके पास किसी प्रकार के सामान की कमी नहीं थी। परन्तु बेचारे राजपूतों के पास पवा था, केवल उनके ग्राण हादिंक उत्साह अथवा आत्मिकबल था इने, गिने अपने थोड़े से बीरों को लेकर प्रताप मुगल सेना से भिड़ ही गये। परन्तु थोड़े से राजपूत अपनी तलवारों के धल से कहा तक विशाल मुगल सेना का सामना करते। बहुत धीरता दिखलाने पर भी विजय लड़मी राजपूतों से प्रसन्न नहीं हुई राजपूत बीरों ने कुम्भलमेर के किले में जाकर आश्रय लिया।

मुगल सेना ने भी राजपूतों का पीछा किया, मुगल सेना के सेनापति शहवाज खा ने उस किले को घेर लिया। प्रताप ने बहुत फुछ आत्मरक्षा की, परन्तु भाग्य देवता सब तरह से उनके प्रतिकूल थे। गर्मी के दिन थे। राजपूत धोर किले में घिरे हुये थे। रसद की कमी थी पानी का अत्यन्त कष्ट या ऊँची जगह होने से घहा पानी का अभाव था गर्मी के दिनों पानी का अभाव असहनीय हो जाता है। अब पानी की राजपूत बीरों को असहनीय येदना हो रही थी। कुम्भलमेर में “निगुण” नामक एक कुशा था। राजपूत धोर कंचल से कुएँ के जल से ही प्यास झुकाते थे।

समय ऐसे देशद्रोही कुलाङ्गारों की कमी नहीं थी जो अपने राजपूत भाइयों के खून को चूसने में ही अपना वर्डप्पन समझते थे। ऐसे ही जातिद्रोही देश विद्रेषियों में आवू के देवर अधिकारी थे। इस देश द्रोही आवू के अधिकारी की घृणित कार्रवाई के कारण राजपूत धीरों को भयझुर सङ्कट का सामना करना पड़ा। आवू के देवर के अधिकारी को जब देश द्रोहिता के लिये और कुछ न सूझ पड़ा तो उसने प्रताप के दौरी मुग़लों को कुएं का हाल बतलाया मुग़लों ने किसी ढङ्ग से कुएं का जल ही खराब कर दिया। जल के खराब और ज़हरीले होने के कारण प्रताप और उनके साथियों को विशेष कष्ट होने लगा। बहुत से ज़हरीले जल के पीने के कारण मृत्यु के ग्रास होने लगे। अब प्रताप को किले के खाली करने के वित्तिक और कुछ उपाय नहीं रहा उन्होंने शोणिगुरु सरदार को दुर्ग की रक्षा का भार सौंपा। बहुत से राजपूत धीरों के साथ उन्होंने उस किले को खाली कर दिया। वहां से प्रताप चौंद नामक पहाड़ी किले में गये।

शोणिगुरु सरदार ने अभूत पूर्व साहस से मुग़ल सेना के सामना किया। उसने इसकी बहुत चेष्टा की कि मुग़ल सेना चौंद तक पहुचने न पावे, परन्तु उस धीर की चेष्टा सफल नहीं हुई और वह युद्ध में भूतलशायी हुआ। शोणिगुरु सरदार भरने से मेवाड़ का एक प्रधान महाकवि उठ गया। जिसकी कृतिका कामिनी ने मेवाड़ में विद्युतशक्ति का प्रादुर्भाव के दिया था, जिसकी कृतिका के सुनते ही मेवाड़ की लियां और तक की नसों में खदेश रक्षा का रूप बहने लग गया। जिसके गीत सुनकर मेवाड़ के धीर विशाल मुग़ल सेना का कुछ भी विचार न करके अपने देश की रक्षा के लिये प्राप्त थे को तैयार कुएं थे। शोक। वही शोणिगुरु इस युद्ध में अप-

देशवासियों को रुलाकर चलते थे। किन्तु इतने पर भी मेवाड़ की ओर मण्डली का उत्साह नहीं घटा। राजपूतों का प्रधान अश्रयस्थल कुम्भलमेर मुगलों के हाथ में चला गया सही परन्तु और ओर प्रतापसिंह आश्रय हीन नहीं हुये। वे अपने व्रत से दूले नहीं।

ऊपर कहा जा चुका है। कि कुम्भलमेर छोड़ने पर प्रताप ने चौद नामक स्थान में आश्रय लिया था। मेवाड़ के दक्षिण पश्चिम भाग में चम्पन नामक प्रदेश है। उस स्थान में बहुत से पहाड़ हैं, उसमें कोई साढे तीन सौ छोटी छोटी वस्तियाँ हैं। इन सब वस्तियों में भील घसते हैं उस प्रदेश में ही चौद नामक वस्ती पहाड़ पर है। प्रताप वहीं रहने लगे।

प्रताप की प्रतिष्ठा थी कि चाहे जो कुछ हो पर मुगल सम्राट् अकबर के सामने अपना माथा नहीं झुकाऊंगा। उधर अकबर भी इस कठोर प्रतिष्ठा को धारण किये हुये था कि चाहे जो कुछ हो प्रताप को अपनी वज्रयता स्वीकार कराके रहगा। अकबर अपनी इस प्रतिष्ठा को पूरी करने के लिये अनेक सेनापतियों के अधीन दल की दल फौज भेजने लगा यह फौज मेवाड़ के अनेक स्थानों से फैल गई। पहले युद्धों में ही प्रताप का धन बल जनन्यल सब कुछ नष्ट हो चुका था। परन्तु प्रताप अपनी प्रतिष्ठा नहीं भूले। वे सुही भर राज पूर्णों को लेकर मुगल सेना का सामना करते थे। जब प्रताप एक स्थान की रक्षा करते थे। तब दूसरा स्थान मुगलों के हाथ में चला जाता था। मुगलों की ओर से राजा मानसिंह ने घरमेति और शोऽन्तकरणा नामकीनों पर अधिकार कर लिया

अमीशाह#नामक व्यक्ति ने चौंद और अगुण पानेर के भीलों और प्रताप के बीच में जो सम्बन्ध था वह तोड़ दिया । वहाँ से प्रताप को जो रसद आती थी, वह भी बुद्ध होगई । ऐसे महासङ्कट के समय में फरीदसां नामक एक मुगल सेनापति ने चम्पन पर आक्रमण किया और दक्षिण की ओर से क्रमशः चौन्द की ओर कूच करने लगा । प्रताप को वह सान-भो छोड़ना पड़ा । मानसिंह मुहब्बत खाँ, फरीद खाँ और शहवाज़ खाँ प्रभति प्रधान २ मुगल सेनापतियों ने मेवाड़ भूमि को चारों ओर से घेर लिया ।

इस प्रकार चारों ओर से घिरे पर प्रताप विलकुल निस्सहाय होगये । उनको अपनी मातृभूमि मेवाड़ में साधीनता पूर्वक विचरण करना भी असम्भव होगया । मेवाड़ेश्वर प्रताप की दशा दीन, हीन, मलीन भियारी से गई बीती होगई । कहीं भी वे निश्चित रूप से नहीं बैठने पाते थे । वह अपनी सेना सहित कुछ राजपूत बीरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान में भटकते फिरते थे । उस समय उनके परिवार की रक्षा का भार भीलों ने लिया । कैसा कठिन समय था, कि महाराणा की महाराणी तथा उनकी सन्तान के लालन पालन का भार भीलों पर था । भील ही उनके भोजन की सामग्री लाते थे । दिन रात उनकी रक्षा (मुगलों के हाथ कहीं महाराणों का कुदम्य न पड़ जाय) करते थे । दुश्मनों के पास आ जाने के भय से भील लोग महाराणा के परिवार को भोलियों ले जाकर गुफाओं में छिपाते थे, कभी कभी लगातार १० आठ दिन तक महाराणा प्रताप का अपने परिवार के

“कहूँ इतिहास लेखकों ने अमीशाह को मुसलमान लिखा है और कुछ लेखक उसको राजपूत बतलाते हैं ।—लेखक”

लोगों से मिलना नहीं होता था। परन्तु फिर भी देशभक्त प्रताप अपनी प्रतिष्ठा पर अटल थे। प्रताप की ऐसी दशा वैष्णवट सुग्रल सेना के आनन्द की सीमा न रही।

ऐसे भनेक सद्गुरों के आजाने पर भी प्रताप निश्चिन्त नहीं थे। उनके राजपूत धीरों को जय कभी भीका मिलता था

ही वे सुग्रल सेना पर टूट पड़ते थे। जिससे सुग्रल सेना की विहेप हानि होती थी। राजपूत धीर अचानक सुग्रल शिविर पर आक्रमण करके पादशाही सेना को छिन्न भिन्न कर रहे थे सुग्रल सेना के योद्धाओं को रक्खारा से अपनी भारतमि मेवाड़ का शरीर रङ्ग कर पहाड़ी कन्दराओं में

हो जाते थे। जिससे सुग्रल सेना को भी कुछ न कुछ विश्वस्ति का सामना करना पड़ता था। इस तरह से सुग्रल सेना को उन्होंने सामना करना पड़ा। उसके एक सेनापति फरीद की नदी की कसम, प्रतापसिंह को जीवित पकड़ने, अथवा उसके साथ से मार डालने की याई “चौथे जी छन्दे होने गये पर यह गये दुये” यही दशा फरीदशा की हुई उसे पीछे अपनी भूल आत हुई, उसे मालूम हुआ कि नर केसरी प्रताप को पकड़ना कोई चिलब्राह नहीं है प्रताप के कौशल से फरीद को, एक पहाड़ी में घिर गया। राजपूत धीरों ने उसकी सारी सेना को काट डोला। केवल एक आदमी फरीद खा के पास रहा। उस समय, महाराणा प्रताप बाहते तो फरीद खां को छोड़ कर लेते अथवा मार डालते परन्तु उदार हृदय महाराणा, अर्तापसिंह ने फरीदखां के साथ जो अवहार किया उसे अवहार के उदाहरण मारतवर्ष को छोड़ कर, ससार के गायद अन्य देश के किसी इतिहास में मिले, महाराणा ने उसके अधियार लेकर उसको छोड़ दिया।

सुग्रल सेना इस प्रकार, युद्धों में निपुण न थी, राजपूतों

के सामने वह निस्तेज और उत्साह होने हुई, मुग्गल सेना की सब चालाकी और वीरता निष्फल हुई, प्रताप पकड़ने में नहीं आये। इतने में वर्षा झट्टु फिर आरम्भ हो गई, तदी नाले शहने लगे इस कारण मुग्गल सेना अपनी छाँवनी को लौट गई, चीरेन्द्र प्रताप को वर्षा झट्टु आने के कारण फिर अवकाश का समय मिला।

इसी तरह से वर्षा बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप में लड़ाई होती रही। हर वर्ष वर्षा झट्टु में बादशाह की फौज लौट जाती थी और बसन्त में नये दल बल से आक्रमण करती थी। पर प्रताप का कठोर घ्रत नहीं दूटा, उनकी प्रतिक्षा अटल पर्वत के समान स्थिर रही। भीलों ने प्रताप के इस सङ्कट के समय स्वामिभक्ति का अपूर्व परिचय दिया। एक समय मुग्गलों के हाथ में प्रताप का परिवार पैड़ा ही होता, परन्तु उनके सदा के विश्वासी मिश्र भीलों ने रक्षा की उस बार कावा निवासी भीलों ने उनके परिवार के लोगों को वांस की टोकरियों में रखकर जावरा की टिन की खानी में छिपाया था, प्रभुमक्त भील स्वर्य भूखे रहते थे पर प्रताप के परिवार के लोगों को भूखा नहीं रहने देते थे, और रात्रि दिन उनकी रक्षा किया करते थे। कई शताब्दियों के बीत जाने पर भी जावरा और चौंद के बने जगलों में भीलों के उपकारी के चिन्ह आज भी मिलते हैं आज भी उन जगलों में बड़े बड़े शृङ्खों में लेहे के कड़े और असंख्य कील दिखलायी पड़ती हैं। भील गण राजपुत्र, राजेकुमारियों की उन कील और कड़ों पर बतेले पशु जन्तुओं से 'रक्षा करने' के लिये रख देते थे। जिस राज परिवार को 'एक दिन सुन्दर राजमहल में भी दृसि नहीं होती थी, उस राज परिवार की अनाथों की तरह जगलों में भीलों के आश्रय अपना जीवन व्यतीत करना'

पढ़ा। परन्तु यह सब विपत्तियों के होते हुये भी प्रताप अपनी कठोर प्रतिष्ठा से टले नहीं। उनकी प्रतिष्ठा थी कि चाहे जो हुछ हो पर मुग्ल सम्राट् अकबर के सामने अपना मस्तक नहीं झुकाऊँगा।

अकबर भी निश्चिन्त नहीं था, वह छुपे छुपे प्रताप की दोह लेता था। वह प्रताप की यह दशा देख कर चकित और स्तम्भित हुआ। वह प्रताप के ऐसे असाधारण स्वार्थत्याग और परम कष्ट में धीर भाव को देखकर अकबर का हृदय भी पिघल गया। वह छिपे छिपे प्रतापसिंह की दशा जानने की चेष्टा फरता था। जब उनके यह सुना कि प्रताप के सरदारों को खाने के लिये थोड़े से फल फूल मिलते हैं, परन्तु उनका भी भोजन वे राजसी ठाट से करते हैं। ऐसे धीर सङ्कृत में भी वे उसी मर्यादा का पालन फरते हैं, जो वे सुख के समय करते थे जङ्गली फलों के दोने उनके हाथ से सहर्ष सरदार न्योग लेते हैं। अकबर ने जिस समय यह हाल सुना, उस समय उसकी प्रताप पर अत्यन्त भक्ति हो गई। जो राजपूत गण प्रताप से शत्रुता करके अकबर के दरवार की शोभा बढ़ा रहे थे, वे भी महाराणा जी की सहायता करने लगे और वहने जो में अपने को धिक्कारने लगे। हिन्दू ही नहीं, अकबर के मुसलमान दरवारी भी महाराणा प्रतापसिंह की मुकाबला त्रैमिति में अपने राजपूत गण ये तथा इमार में मिर्जां खां की गोदू दा में छोट गये थे तथा इमार में मिर्जां खां की

“ध्रुम रहस्या रहस्यी धरा, खिस जासे खुरसाणा।

मेयाद की राज प्रशंसित में रिसा है—जय दादशाह मिर्जां खां द्वे गोदू दा में छोट गये थे तथा इमार में मिर्जां खां की

अमर विश्वमर ऊपरे, रखियो न हचो रणा" ॥

इसका आश्रय यह है—“हे राणा जी ! उस अमर ऊग दीश्वर पर विश्वास रखियेगा, आप का धर्म और धरती दोनों ही बने रहेंगे और बादशाह लजित होगा ।”

थे, परन्तु महाराणा जी ने उनको प्रतिष्ठा के साथ मिजां था के पास दिया था, बहुत सम्भव है, उसी पर प्रसङ्ग हो कर इसने महाराणा के अपर्युक्त कविता मेजी हो ।

# सोलहवाँ परिच्छेद

## कठोर परीक्षा

“सहे सरै दुय नेकु न अपने प्रण तें भटके ।  
राज गयो धन गयो फिरे वन यन में भटके ॥  
ऐ हाय सही जाती नहीं जीवत इन नयनत निरख ।  
इन दूध पोचते बालक, रोटी हित रोयते गिलख ॥

श्रीराधाकृष्णदास

पाठक सुन सुके हैं कि उस समय प्रताप फी दशा परु साधारण गृहस्थी से भी गयी थीती थी । साधारण से साधारण गृहस्थ के पास जो कुछ होता है, वह भी प्रताप के नहीं था । घाहे जैसा विषत्ति ग्रस्त बनों न हो, उसके पास भी थोड़ा बहुत क्षुधा निवृत्ति के लिये होता है । पर प्रताप पास कुछ नहीं था । गृहस्थ को रात्रि में सोने का कहीं तो भी डिकाना होता है, पर प्रताप के पास वह भी नहीं था राह, चलता हुआ एक भियारी किसी पेड़ के तले निश्चिन्त होकर रात को सो तो भी लेता है, परन्तु प्रताप को कहीं सोने का भी डिकाना नहीं था । न मालूम किस समय शनु आ जाय यह भय प्रताप को रात्रि दिन लगा रहता था । जब मुगल विनिक गण किसी तरह भी प्रताप को नहीं पकड़ करके, सब रक्तर की चेष्टाये ऊरके हार गये, पर प्रताप ने मुगल सभाट रक्तर की अधीनता खोकार नहीं की तब उन्होंने प्रताप के परिवार में से हो किसी को पकड़ कर उसको अपमानित करके हो, कलेजा ढंडा करने की ठानी । इस लिये कभी अवसर देखते थे तब ही प्रताप के

अमर विभ्वमर ऊपरे, रखियो न हचो रण॥  
 इसका वाच्य यह है—“हे राणा जी ! उस अमर जग  
 दीश्वर पर विश्वास रखियेगा, आप का धर्म और धरती दीनों  
 ही बने रहेंगे और वादशाह लजित होगा ॥”

लाये थे, परन्तु महाराणा जी ने उनको प्रतिष्ठा के साथ मिर्जा खां के पास पहुंचा दिया था, बहुत सम्मद है, उसी पर प्रसङ्ग हो कर उसने महाराणा रास उपर्युक्त कविता भेजी हो ।

# सोलहवाँ परिच्छेद

## कठोर परीक्षा

“सहे सबै दुय नेकु न अपने प्रण तें भटके ।  
 राज गयो धन गयो फिरे बन बन मैं भटके ॥  
 पै हाय सही जाती नहीं जीवत इन नयनन निरख ।  
 इन दूध पीवते वालक, रोटी हित रोवते घिलख ॥

श्रीराधाकृष्णदास

पाठक सुन चुके हैं कि उस समय प्रताप की दशा एक साधारण गृहस्थी से भी गयी थीती थी । साधारण से साधारण गृहस्थ के पास जो कुछ होता है, वह भी प्रताप के नहीं था । चाहे जैसा विपत्ति ग्रस्त पर्नों न हो, उसके पास भी थोड़ा बहुत क्षुधा निवृत्ति के लिये होता है । पर प्रताप पास कुछ नहीं था । गृहस्थ को रात्रि में सोने का कहीं तो पास कुछ नहीं था । गृहस्थ को रात्रि में सोने का कहीं तो भी ठिकाना होता है, पर प्रताप के पास वह भी नहीं था राह, चलता हुआ एक भिखारी किसी पेड़ के तले निश्चिन्त होकर रात को सो तो भी लेता है, परन्तु प्रताप को कहीं सोने का भी ठिकाना नहीं था । न मालूम किस समय शब्दुआ जाय यह भय प्रताप को रात्रि दिन लगा रहता था । जब मुगल सैनिक गण किसी तरह भी प्रताप को नहीं पकड़ करके, सब प्रकार की चेष्टायें करके हार गये, पर प्रताप ने मुगल सज्जाट वकार की अधीनता स्थीकार नहीं की तब उन्होंने प्रताप के परिवार में से हो किसी को पकड़ कर उसको अपमानित करके ही अपना कलेज़ा ठंडा करने की ढानी । इस लिये मुगल सैनिक जब कभी अवसर देखते थे तब ही -

परिवार को पकड़ने की चेष्टा करते थे, परन्तु प्रभु-भक्त भील किसी न किसी प्रकार प्रताप के परिवार की रक्षा करते थे। इस प्रकार प्रताप को प्राणों से अधिक प्यारे, खीं पुत्र आदि परिवार का कष्ट उनको कितनी ही धार प्राणान्त पीड़ा देने लगा पर उन्होंने अपने कठोर प्रण के सामने इस प्राणान्त पीड़ा की कुछ परंवाह नहीं की।

एक दिन 'प्रतापसिंह' की राजमहिला ने पांच बार भोजन प्रस्तुत किया, परन्तु पांचों बार राजपरिवार को मुग्गल सैनिकों के कारण भोजन छोड़कर भागना पड़ा था। एक बार भी भोजन करने का समय नहीं मिला। पांचों बार प्रस्तुत किये हुए भोजन को छोड़ कर उन्हें पहाड़ों के दुर्गम स्थानों में जाना पड़ा 'विसी न किसी तरह से उस दिन मुग्गल' सैनिकों के प्रताप के परिवार की रक्षा हुई। परन्तु तिस घर भी प्रताप अपने ब्रत से डिगे नहीं। । १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥ १ ॥

मनुष्य सब कुछ सह सकता है। परन्तु सन्तान का कप्टन सहना कठिन है। दुधमुहे को मिल अन्नान घड़चों की चिछाहट कठोर से घटोर हृदय वाले व्यक्तिओं के कलेजे को पिंडला हैं। संसार में ऐसे कितने माता पिता हैं; जिनके बजे से घटोर हृदय को भी अपनी सन्तान के दुख को देखकर न रोना पड़ा हो वीरेन्द्र प्रतापसिंह की भी ऐसीही कठोर परीक्षा यो अवृसर उपस्थित हुआ। कई दिन के बाद सुन्दर के पीछे एक दिन महाराणा प्रतापसिंह को राजमहिला और युवा यथा ने “मह” कामक धासे के बीजों की रोटिया चनाई थीं। रोटिया चैवार दोने पर उपस्थित शालक, चालिकाओं को एक एक रोटी चाट दी गई थी उस दिन। और कुछ भोजन न या, सिफ्फ उन्हीं एक एक रोटी को सघ को स्वाहारा था, जहा यह रोटियाँ घट रहीं थीं, वहीं पास ही प्रताप लैटे हुए, अपनी

दशा और मेवाड़ के भाग्य के सम्बन्ध में विवार रहे थे। जिस समय इस तरह के विचार सागर में मग्न थे, कि यकायक अपनी छोटी लड़की के रोने की आवाज सुनकर चौंक पड़े देखा कि एक ज़मुली घिली यकायक टूटकर लड़की की गोद से आधी रोटी छीन कर भाग गई इसी से बालिका हृदय विदारी रोदन कर रही है। बीरेन्द्र प्रताप इस हृश्य को देखकर काप उठे। प्रतापसिंह ने प्रसन्नमुख से हृदी धाटी रणस्थल में अपने देशवासियों की रुधिर की नदी बहती हुई देखी थी, उन्होंने प्रसन्न मन से देश के गौरव को बनाये रखने के लिये अपने भाइयों को उच्चेजित किया था। वे ही प्रताप बालिका को रोते देखकर फाँप उठे, जो प्रताप अपने बीरब्रत पालन के लिये सहर्ष राजपाट, धन दीलत सभी की राष्ट्रीय यह में पूर्णाहुति देकर भी तनिक विचलित नहीं हुए, उन्होंने प्रताप का बालिका के रोने से कलेजा फटने लगा। जो प्रताप अनेक अपत्तियों के आने पर भी अपने कठोर ब्रत से नहीं हटे थे, वे ही प्रताप आज अपनी एक छोटी कन्या के रोने के कारण प्रतिष्ठा भङ्ग फरने को तैयार हुये। कन्या के रोने के साथ ही साथ महाराणा की आखों से भी अधृधारा बहने लगी, प्रशान्त सागर में अशान्ति रूपी लहरें उठने लगीं। भागवान सूर्य की गति बदल गई गिरराज, हिमालय कन्दरा में धस गया। प्रतापसिंह-आखिर मनुष्य ही तो थे उनका हृदय को मल बालिका के दुख को सहन नहीं कर सका, “हाय ! छोटे २ अच्छे, तक मेरे कारण इतना दुख पावें” फिर इस प्रतिष्ठा को लेकर क्या करूँगा ? यही विवार उनके हृदय के अन्दर उठने लगा। वह हताश हृदय से कहने लगे —“धस अब सहा नहीं जाता यथेष्ट हुआ !” यह कह कर वे अकबर से सन्धि की तैयार हुये।” सरदारों ने हाथ जोड़कर महाराणा-से

प्रस्ताव के विरुद्ध प्रर्थना की, राजमहिपी ने प्राणेश्वर को इस प्रस्ताव के विपरीत बहुत कुछ समझाया, बुझाया पर कोई भी तर्क, कोई भी गुकि महाराणा के हृदय समुद्र की गति देखने के लिये तैयार नहीं हुई। उन्होंने अकबर से सब लोगों के मने करने पर भी सन्धि की प्रार्थना कर ही तो दी। पश्च देकर दूत को अकबर के पास रवाना कर दिया।

अनेक विष, विचार शील सज्जन कह उठेंगे कि प्रताप के चरित में यह दुर्बलता थी जो लोग भले ही इस घटना को लेकर प्रताप के चरित्र में दुर्बलता का कलङ्क योपा करे परन्तु यह दुर्बलता नहीं है प्रताप लाख और होने पर भी मनुष्य ही तो ये नहीं मनुष्य होने के कारण वे मनुष्य स्वभाव से कैसे बच सकते थे? फिर प्रताप के चरित्र में दुर्बलता क्यों बतलाई जाय? इस घटना को क्यों दोपदिया जाय? कौन सा भाई का लाल ऐसा है जिसका पत्थर का कलेजा ऐसे अवसर पर न पसीजता वह मनुष्य मनुष्य नहीं है, वह देखता है अथवा राक्षस, या दानव है। हम तो समझते हैं कि ऐसे अवसर पर देखण भी धैर्य और कर्तव्य से चयुत हो जाते हैं, बड़े प्राण संहारी राक्षसों को भी देखा गया है कि उन्हें बड़े बड़े हत्या कांड करने पर भी दया नहीं थाई पर सन्तान की थोड़े से दुख को देखकर उनका हृदय भी पसीज गया। सन्तान की दाखण वेदना देखकर कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके हृदय में कहुणा उत्पन्न न होती हो? कठोरता और कोमलता दोनों ही इदय के महत्व के सूचक हैं। कर्तव्य पालन करने में प्रताप का हृदय जितना कठोर था, उतना ही दूसरों की विपक्षि में कोमल था। यही कारण था कि बड़े बड़े सङ्कृत में फंस कर अनेक अन्तर्णाले भेल कर भी जो प्रताप अपने ग्रन्त पालन से हटे नहीं थे। वे ही प्रताप एक आलिका के दाखण रुदन को सहन करने में

मनधं नहीं हुये। अक्षयर का समस्त कौशल, समर्थत भगि भेषजों  
अधीनता के पाश में जिन प्रताप को जपाइने के लिये उद्यम हुए,  
वे ही कठोर घर्ती प्रताप थाज पक्ष यालिका के सापारण विकार  
के कारण अपनी स्वतन्त्रता देचने को तैयार हुये हैं। अपने सारे  
दारों के, राजमंथियों के, आमीय जनों के प्राण प्यारे युधान  
अमरसिंह के, यहा तक कि अपनी दृद्धयेत्तरी के भवानों  
में भी अक्षयर की अधीनता स्वीकार घरने का सङ्कल्प परिस्थिति  
नहीं किया। पवा स सार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है, जो एम  
समय प्रताप पी डूषती हुई नैया को पार लगावे। देखें, वीच  
भग्नधार में से कौन जा देवट प्रताप की नैया को उदारता है?

# सत्रहवाँ परिच्छेद

## पृथ्वीराज का पच

“चुप रहन हूँ नहिं जोग जब देश हित विपति प्रताप परयो ।  
तासों बचावन प्रियहि अब हम देह निज विक्रम करयो ।

प्रताप की अधीनता का समाचार लेकर दूत अकबर के दरबार में पहुचा । दूत के आते ही अकबर की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा । लगातार कई वर्ष से जिस प्रताप के कारण अकबर का नाकों दम था । जिस प्रताप को अधीन करने में अकबर को धन और जन दोनों की बहुत सी क्षति भेलनी पड़ी थी, वही प्रताप विना किसी दिवकृत के अकबर के अधीन होना चाहता है । तब क्यों न खुशी हो ? प्रताप के सन्धि अधीनता विषयक प्रस्ताव के कारण सारा शाही दरबार आनन्द में गूँज उठा । सम्राट अकबर के आनन्द का तो पूछना ही क्या था ? अकबर मेवाड़ का राज वा राजछब नहीं चाहता था, वह चहता था कि एक बार प्रताप सिर झुकादे तो सब काम बन जावे । बस प्रताप के दूत के आने से अकबर की वह हार्दिक लालसा पूर्ण हुई । प्रताप के सन्धि विषयक प्रस्ताव के पहुचते ही राजधानी में चारों ओर आनन्दोत्सव होने लगा, पर यह किसी ने नहीं सोचा कि परमेश्वर को यह मन्त्रजुर नहीं है कि प्रताप भी अन्य राजपूतों की तरह

—लिमूल कविता यह है—

“चुप रहन हूँ नहिं जोग अब मम हित विपति चन्द्रन परयो ।  
तासों बचावन प्रियहि अब हम देह निज विक्रम करयो ॥

( मुद्राराशस )

अकबर के चरणों में भस्तक मुकाफर इस संसार से राजपूत जाति का नाम निशान मिटा दे। आनन्द का यह खोत बहुत दिन तक ठहरने वाला नहीं है। भरभार में प्रताप की अटकी नाव को उधारने वाला भी कोई इस राजधानी में, नहीं नहीं खास शाही दरवार में ही फोर्ई है?

प्रताप के पत्र को पाकर अकबर यहुत ही प्रसन्न हुये, उन्होंने वारी वारी से यह पत्र अपने सब ही दरवारियों को दिखलाया। अकबर ने यह पत्र धीकानेर के राजा के छोटे भाई पृथ्वीराज को भी दिखलाया। यह हम पढ़ले कह चुके हैं कि पृथ्वीराज अकबर के यहा राजनीतिक घन्दी अवश्य थे, पर उन्होंने अपना हृदय अकबर को नहीं देचा था। अकबर के दरवार में उनके समान कोई भी सदेश भक्त और सजाति हितैषी नहीं था। प्रताप का पत्र अकबर के दिखलाने पर उन्हें आन्तरिक धेदना हुई यह महाराणा प्रताप में बड़ी अद्वा और भक्ति रहते थे, इससे उन्हें महाराणा का पत्र देखकर अत्यन्त दुरु दुखा। प्रथम तो उन्होंने प्रतापसिंह के पत्र का विश्वास ही नहीं किया फिर विश्वास हो जाने पर उन्होंने धादशाह से फहा —जहाँ पनाह ! यह पत्र जाली है, मैं प्रताप को भली भाति जानता हूँ वे कभी भी अधीनता स्वीकार करने वाले नहा हैं। वे आपका राजसुरुट पा जाने पर भी आपके मन मुताबिक सन्धि भानने को तैयार नहीं होंगे, समझ है, प्रताप के किसी शत्रु ने यह पत्र भेजा है”। इसके पीछे उन्होंने अकबर से अनुमति लेकर प्रताप के पास एक चिट्ठी भेजी, उन्होंने अकबर से चिट्ठी भेजने का कारण, असली घटना का पता लगाने का घतलाया था किन्तु उनका भाँतरी अभिप्राय यही था कि किसी तरह से प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार न करें। पृथ्वीराज जैसे देशभक्त थे

चैसे ही बड़े भारी कवि ये उन्होंने महाराणा प्रताप के पास भाषा में ओजस्विनी नस २ फड़काने घालो \* कविता भेजी, जिसका आशय यह है हिन्दुओं का आशा भरोसा सब कुछ हिन्दू जाति पर ही है महाराणा इस समय उस सद्यकी ताग देते हैं। राजपूत जाति आज रसातल को जा चुकी है हमारे राजपूत वीरों में आज वीरता नहीं रही। हमारी देवियों में सतीत्व का भाव नहीं रहा। राजपूत जाति का सभी सम्मान आज समाप्त हो चुका। यदि प्रतापसिंह न होते तो आज अकबर वीं गुड़ समी को एक भाव यरीद लेते। यदि प्रतापसिंह

\* पृष्ठीराज के पत्र की असली नकल हम समय मिलती नहीं है कहं प्रथमारों ने वेष्टा की परन्तु किसी को उपलब्ध नहीं हो सकी हैं जो कुछ पृष्ठ प्रचलित हैं वसकी नकल नीचे दी जाती है।

सोरठा—अकबर घोर छधार हिन्दू अमर,

जागे जगदातार पोहरे राणा प्रताप सी ॥ २ ॥

अकबरिये हणवार दागिल की, सरी दूनी

धण दागिल असधार गेतक राणा प्रताप सी ।

अकबर समद धायाह सूरायण मरियो सुजब ।

मेवाडी तिणमाह पोयण फूल प्रताप सी ॥ ३ ॥

आषही अकबर याही तेजो तिहारों तुरकडा ।

नमि नमि नसिर याह राणा बिना सहराजवी ॥ ४ ॥

चौथो चौथो ढाह बाटी शार्जती तपू ।

दीसे मेवाडाह मोशिर राणा प्रताप सी ॥ ५ ॥

दोहा—जननीसुत अहडा जणे जहडों राणा प्रताप ।

अकबर शूती ही लौधकै जागा शिराण साप ॥ ६ ॥

सोरठा—पाताख पाथ प्रमाण साच्ची सांगा हरतणी ।

रही भमोगत राण अकबर सू बामी अणी ॥ ७ ॥

सोवै सह संसार असुर पलोले बपरे ।

जागे तु तिणवार पीहरे राणा प्रताप सी ॥ ८ ॥

न होते तो अक्षयर सभी थो एक पथ के पथिक यता ढालते  
इमारी जाति में अक्षयर एक व्यापारी हैं, उन्होंने सब को ही  
खरोद लिया है, केवल अमूल्य रत्न उदयकुमार (पृतापसिंह)  
बाकी है। अक्षयर केवल उदयसिंह के शूरवीर पुत्र का मूल्य  
नहीं चुका सके हैं। मेवाड़ की गोद में पृताप फा सा शूरवीर  
पुत्र न होने से आज मुगल सचाट अक्षयर की कुटिल नीति  
से सब राजपूत एक हाँ जावेंगे। सभों ने ही धीरज खाफर के  
नौरोजे के बाजार में अपना अपमान देखा है। केवल हमीर  
के घशधरों फी ही आज तक यह अपमान नहीं देखना पड़ा  
है। परा कभी हमीर के घशधर भी अपने जातीय मान को  
इस बाजार में देवेंगे। राणा का रत्य राजधानी तथा सब  
कुछ नष्ट हो चुका है परन्तु उनके पास केवल अमूल्य रत्न  
बाकी है। वह अमूल्य धन उनका जातीय मान और धर्म है  
जगत यही पूछता है कि पृताप के पास धर्म रक्षा का कौन सा  
सहारा है? किसका भरोसा है यही उत्तर मिलाता है कि  
“पुरुषार्थ और तलवार का”। महाराणा केवल अपनी तलवार  
के सहारे से ही क्षतियों के गोरव की रक्षा कर रहे हैं बाजार  
का यह गरीदार कुछ सदा जीता न रहेगा। एक दिन अवश्य  
जाति बाजार के इस गरीदार को ढगा जाना पड़ेगा। एक  
दिन अवश्य ही वह इस लोक से चल बसेगा। उस दिन सब  
ही, छुट्टी हुई जन्ममूमि में राजपूत बीज थोने के लिये महाराणा  
के पास पूछेंगे। तब ही इस बीज की रक्षा होगी। तब ही  
राजपूतों की बीरता दूसरी बार उज्ज्वल होगी। इस लिये सब  
ही महाराणा की ओर टक्की लगाये ताक रहे हैं।

नौरोजे का रहस्य नवाँ परिष्ठेद में नौरोजा और जयदा के  
श्रीर्थक में देखो। देखक

पृथ्वीराज के उपर्युक्त उत्साह उनके वाक्यों से राजपूत जाति में एक विजली सी दौड़ गई, प्रताप और उनके साथियों में नये सिरे से दुगना बल आया। वादशाह को सन्धि विषयक पत्र लिखकर प्रताप को कठोर मानसिक वेदना हुई थी, पृथ्वीराज के पत्र से उनकी वही दारण वेदना दूर हुई। वे फिर बीर ग्रन्त पालन करने को समर्थ हुए। पृथ्वीराज के पत्र ने ममधार में पहुची हुई, महाराणा प्रतापसिंह की नाव को, किनारे लगाया। अब्द्य है वह देश जहा पृथ्वीराज सरीखे कविहर्षों, यदि पृथ्वीराज न होते तो न मालूम उस समय राणा प्रताप की कौन गति होती राजपूत जाति के इतिहास में, भारतवर्ष के शास्त्रीय इतिहास में पृथ्वीराज का पत्र सदैव स्मरणीय रहेगा। जिस कविता कामिनी ने प्रतापसिंह जैसे बीरेन्द्र के हृदय को सान्त्वना और शान्ति दी, वह कविता कामिनी सदैव भारतवर्ष के इतिहास में स्मरणीय रहेगी पृथ्वीराज जैसे कवियों का जीवन सफल है। वह कवि ही क्या, जो अपने इधरे हुए देश और जाति को उठा न सकता हो, तभी तो विलायत के प्रसिद्ध विद्वान् कारलाईल की अपने “हीरोएण्ड हीरो चरशिप” ( बीर और बीरपूजा ) नामक ग्रन्थ में कहना पड़ा है कि इटली डान्टे जैसे कवियों के होने से रुस “अपेक्षा विशेष सौभाग्यशाली है, जिस के पास कर्जाक है।” एक कविता में एक सेना से कहीं अधिक घल होता पर वह कविता हो, तब न स्मरण रक्षतो। किसी अङ्गरेज “एकाध, दो किताबों के अनुवाद, करने से ही कोई नहीं हो सकता है। जिसके हृदय है, वही कवि है हिन्दी में आज कितने कवि हैं, जिनके हृदय हो। वे एकाध, दो अङ्गरेजी की पुस्तक का अनुवाद करके ही अपने को कवि अभ्यर्थ कर फूल उठते हैं। उनसे हमारा कहना है कि वे एक

बार यूनान के होमर कवि की घात यिचारें तो सही, यूनान का कवि होमर था तो अघा पर अन्धे होने पर भी उसके हृदय के कपाट खुले हुये थे तब तो यह अन्धा होने पर भी यूनान में घर घर भीय मागता हुआ अपनी कविता से अपने स्वदेश माझ्यों में जागृति फैलाता था। कहो तो सही ? तुम्हें ऐसे कितने कवि हैं ? प्रतिष्ठनि किर पूछती है कि आज होमर जैसे हिन्दी संसार में कितने कवि हैं ? किसी अङ्गरेजी कवि के एकाध ग्रन्थ का टृटा फूटा अनुवाद भले ही कर लो पर भाई ! सच्चा कवि होना बहुत दूर है ।

पृथ्वीराज के उपर्युक्त उत्साह जनक धार्मों से राजपूत जाति में एक विजली सी दौड़ गई, प्रताप और उनके साधियों में नये सिरे से दुगना बल आया। वादशाह को सन्ति विषयक पत्र लिखकर प्रताप को कठोर मानसिक वेदना हुई थी, पृथ्वीराज के पत्र से उनकी वही दारूण वेदना दूर हुई। वे फिर बोर्ड प्रत पालन करने को समर्थ हुए। पृथ्वीराज के पत्र ने मरधार में पहुंची हुई, महाराणा प्रतापसिंह की नाव को, किनारे लगाया। धन्य है वह देश जहा पृथ्वीराज सरीखे कवि हों, यदि पृथ्वीराज न होते तो न मालूम उस समय राणा प्रताप की कौन गति होती राजपूत जाति के इतिहास में, भारतवर्ष के शास्त्रीय इतिहास में पृथ्वीराज का पत्र सदैव स्मरणीय रहेगा। जिस कविता कामिनी ने प्रतापसिंह जैसे बीरेन्द्र के हृदय को सान्त्वना और शान्ति दी, वह कविता कामिनी सदैव भारतवर्ष के इतिहास में स्मरणीय रहेगी पृथ्वीराज जैसे कवियों का जीवन सफल है। वह कवि ही क्या, जो अपने इबते हुए देश और जाति को उठा न सकता हो, तभी तो विलायत के प्रसिद्ध विद्वान् कारलाईल को अपने “हीरोएण्ड हीरो चरशिप” ( बीर और बीरपूजा ) नामक ग्रन्थ में कहना पड़ा है कि इटली डान्टे जैसे कवियों के होने से रूस की अपेक्षा विशेष सौभाग्यशाली है, जिस के पास कज्जाक स्वार हैं। एक कविता में एक सेना से कहों अधिक बल होता है, पर वह कविता हो, तब न स्मरण रखें। किसी अङ्गरेज कवि की एकाध, दो किताबों के अनुवाद करने से ही कोई कवि नहीं हो सकता है। जिसके हृदय है, वही कवि है हिन्दी संसार में आज कितने कवि हैं, जिनके हृदय हो। वे एकाध, दो अङ्गरेजी की पुस्तक का अनुवाद करके ही अपने को कवि समझ कर फूल उठते हैं। उनसे इमारा कहना है कि वे एक

यार यूनान के होमर कवि की धात विचारें तो सही, यूनान का कवि होमर था तो अधा पर अन्धे होने पर भी उसके हृदय के कपाट खुले हुये थे तब तो वह अन्धा होने पर भी यूनान में घर घर भीख मांगता हुआ अपनी कविता से अपने स्वदेश भाइयों में जागृति फैलाता था। कहो तो सही ? तुममें ऐसे कितने कवि हैं ? प्रतिध्वनि फिर पूछती है कि आज होमर जैसे हिन्दी संसार में कितने कवि हैं ? किसी बड़रेजी कवि के एकाध ग्रंथ का दृष्टा फूटा अनुचाद भले ही कर लो पर भाई ! सच्चा कवि होना बहुत दूर है ।

# अठारहवाँ पारंचक्रोद

## भासासाह की अपूर्व सहायता

“जो धन के हित नारि तजैं, पति पूत तजैं पितु सीलहिं सोई ।  
भाई सों भाई लरें रिपु से पुनि मिश्रता मिश्र तजै दुख जोई ॥  
ता धन को बनिया है, गिन्यौ न दियो दुखःदेश से आरत होई ।  
स्वारथ अर्थं तुम्हारो ई है, तुमरे सम और न या जग सोई” ॥

भारतेन्दु इरिश्चन्द्र

पृथगीराज के पत्र को पाकर प्रताप उत्साहित हुये, वे दुगने उत्साह से अपनी पूर्व प्रतिष्ठा को स्थिर रखने के लिये उद्यत हुये । उन्होंने मुग्गल सम्राट् अकबर की अधीनता स्वीकार न करने के लिये पुनः प्रतिष्ठा की परन्तु यह सब कुछ होने पर भी प्रताप के पास उस समय अपनी प्रतिष्ठा को पूर्ण करने को चाहा रखा हुआ था ? लगातार अठारह वर्ष के युद्ध के कारण वे धन बल, जन बल सब तरह से क्षीण हो चुके थे ? प्रबल शत्रु, मुग्गल सम्राट् अकबर से लड़ते लड़ते उनकी सारी शक्ति नष्ट हो चुकी थी, अकबर को भी इन लगातार युद्धों में थोड़ी, बहुत अवश्य हानि सहन करनी पड़ी परन्तु फिर भी अकबर को बहुत सा सहारा था । उसका राज्य धन धान्य परिपूर्ण था, उसके राजकीय में उनका अभाव न था, अकबर की सेना को चित्तीड़ पहुचते समय जो हानि सहन करनी पड़ती थी वह राजधानी दिल्ली पहुच जाने पर पूर्ण हो जाती थी, परन्तु प्रताप के पास कुछ नहीं था, उनकी अकबर से भिन्न दशा थी । मेवाड़ के वे राजराजेश्वर, नरनाथ, दीन हीन पथ के भिन्नारो

७ मूल कविता में देश के स्पान में “मीठ शब्द है ।

बने हुये थे। उनको दोनों समय सूखी रोटी खाने को और रात्रि में आराम से सोने को भी कहों ठिकाना न था, बहुत से उनके साथी घीर रणस्थल में मेवाड़ की रक्षा के लिये सदैव को सो गये। बहुत से संनिक साथ छोड़ कर चलते थे, उनके साथ केवल वे इने गिने थीर थे, जिन्होंने चित्तोड़ के उद्धार की महाराणा के साथ कठोर प्रतिष्ठा की थी। धन हीन जनक्षीण प्रतापसिंह अपने दैरी का मुकाबिला किस तरह से कर सकते थे?

महाराणा अपनी जन्मभूमि की दुर्दशा के कारण दुनी ही थे, यहुत सोच विचार के पीछे उन्होंने निश्चय किया कि जब राजधानी चित्तोड़ का परित्याग कर दिया, तब जन्म भर के लिये मेवाड़ भूमि को ही छोड़ देना चाहिये। निश्चय हुआ कि अबली पर्वत पार करके सिन्ध नदी के किनारे सोगढ़ी राज्य में जाकर बसें। वहाँ मेवाड़ का झण्डा गाड़ें। वस यह निश्चय करते ही उन्होंने अपने गुप्तचरों द्वारा यास यास सरदारों को पर्वर भेज दी, इस खबर को पाते ही दूर दूर से राजपूत यज यजतापसिंह की रक पताका के नीचे इकट्ठे होने लगे। यात्रा की सबही आवश्यक तैयारिया हो चुकी, मातृभूमि की अन्तिम प्रणाम करने का समय था एहुचा।

प्रतापसिंह अपनी ऊं, पुत्र, पुत्रिया और कुछ सरदारों के साथ अबली पर्वत की चोटी पर चढ़े, वहाँ से उन्होंने अपने प्यारे चित्तोड़ का दर्शन किया, चित्तोड़ को देखते ही उनके हृदय में अनेक प्रकार की भावनाएँ उठने लगी। हृदय ने शोकभरी लम्बी स्वास्त रोंचने लगे, उस समय उनके हृदय में निराशा की तरङ्गे उठ रही थीं ते सोचने लगे कि इस जन्म में मातृभूमि मेवाड़ का उद्धार न हो सकेगा। इस तरह वे निराशा और निना से व्यथित हृदय होकर

प्रवंत से पार होकर माडवाड भूमि में पहुँचे और अपनी जन्मभूमि को संदैव के लिये प्रणाम किया। किन्तु ईश्वर की माया अपरम्पार है, मनुष्य का चाहा हुआ कुछ नहीं होता। उसकी गति कौन रोक सकता है, प्रताप को जो कुछ दुख था, वह मेवाड भर के सब ही मनुष्यों को था। प्रताप अपनी मातृभूमि को केवल पेरमात्मा से मुक्त न कराने के कारण ही छोड़ने को तैयार हुए थे, तब कौन ऐसा अभागा था जो इस अत में सहायता न देता? मातृभूमि—किस को प्यारी नहीं होती। छोटी सी बनास नदी ने जिस प्रकार नाचते, कूदते, छुड़कते पुढ़कते अर्वलो के पहाड़ी भाग की शोभा बढ़ा रखती है, वैसेही आत्मोत्सर्ग झपी क्षीर धारा ने भी मेवाड के दीर्घों के कठोर धन को अमृतमय बना दिया है। आत्मोत्सर्ग करने घर्ले जिन महापुरुषों का नाम मेवाड़ के इतिहास में आता है, उनमें से एक भामासाह भी है। भामासाह प्रताप के मंत्री थे।

जिस समय प्रताप तथा उनके कुछ साथी सजन तथा इष्ट मित्रों से मिलकर चलने लगे उस समय मेवाड के प्राचीन मन्त्री भामासाह भी उनसे मिलने आये उस समय दीनभाव से प्रताप को स्वदेश परित्याग जरते देखकर भामासाह का दृद्य भर आया वह मन्त्री प्रबर अपने स्वामी की हीन दगा देखकर रोने लगा उसने अपने स्वामी को मेवाड के राजसिंहासन पर पुन प्रतिष्ठित करने के लिये अहौकिक आत्मोत्सर्ग का परिचय दिया। उसने न केवल अपने समय का ही उपार्जित धन किन्तु अपने पूर्व पुरस्तो का समस्त सञ्चित धन अपने स्वामी मेवाडेश्वर के पट पङ्कज पर रख दिया। और विनती की कि नाथ! आप इस देशको छोड़कर न जाय, इस देश परा उद्धार कीजिये। प्रताप और उनके परिवार वर्ग

भामासाह का यह एत्य देगाफर चकित और स्तम्भित हो गये, प्रताप के साथियों के उदास घेरे पर हँसी की रेता दिल लाई पड़ने लगी। प्रताप के शिखिर में से "जयभामासाह की जय" ध्वनि से धारों दिशा गू जने लगों। उसी दिन से भामासाह मेयाड के उद्धार पत्ता कहलाये जाने लगे।

पृथ्वीराज के पश्च और भामासाह के अलीकिक भात्मा भगवन ने मरी गुरु राजपूत जाति के लिये सञ्चीयनी शक्ति का कार्य किया। जो राजपूत घीर निरोश हो चुके थे। उनके हृदय में बात्रा का वीत घहने लगा। घीरेन्द्र प्रताप का साहस पहरे से घीर भी छुगगा ही गया। कहते हैं कि भामासाह का इतना धन था कि उससे पच्चीस हजार धीरों का वारह वर्ष तक निर्धार्ह बछो तरह से हो सकता था। भामासाह से धन गो सहायता पाकर घीरेन्द्र प्रताप फिर अपनी ऐतिहा पूरी करने की चेष्टा करने लगे। धन के अभाव से जो सिपाही विदाकर दिये गये थे। उनकी फिर बुलायाँ गया युद्ध के लिये एथिथार घीर सामग्री इकही की गई। राजपूत सेना के लिये नये धौड़ो सरीदे गये। सेना की यह सब तर्यारी इतनी छिपाकर की गई कि मुगल सम्राट अकबर और उनकी सेना को इसका छुछ पता भी नहीं लगा।

पर्वत से, पार होकर माडवाड भूमि में पहुचे और अपनी जन्मभूमि को सदैव के लिये प्रणाम किया। फिन्तु ईश्वर की माया अपरम्पार है, मनुष्य का चाहा हुआ कुछ नहीं होता। उसकी गति कौन रोक सकता है, प्रताप को जो कुछ दुख था; वह मेवाड भर के सब ही मनुष्यों को था। प्रताप अपनी मातृभूमि को केवल पेरमात्स्मा से मुक्त न कराने के कारण ही छोड़ने को तैयार हुए थे, तब कौन ऐसा आभासा था जो इस ग्रन्त में सहायता न देता? मातृभूमि—किस को प्यारी नहीं होती। छाटी सी बनास नदी ने जिस प्रकार नाचते, कूदते, छुटकते पुढ़कते अर्वलो के पहाड़ी भाग की शोभा बढ़ा रखी है, वैसेही आत्मोत्सर्ग रूपी क्षीर धारा ने भी मेवाड के दीरों के कठोर ग्रन्त को अमृतमय बना दिया है। आत्मोत्सर्ग करने वाले जिन महापुरुषों का नाम मेवाड के इतिहास में आता है उनमें से, एक भामासाह भी हैं। भामासाह प्रताप के मंत्री थे।

जिस समय प्रताप तथा उनके कुछ साथी सजन तथा इष्ट मित्रों से मिलकर चलने लगे उस समय मेवाड के प्राचीन मन्त्री भामासाह भी उनसे मिलते आये उस समय दीनभाव से प्रताप को खदेग परित्याग करते देखकर भामासाह का हृदय भर आया वह मन्त्री प्रबर अपने स्वामी की हीन दशा देखकर रोने लगा उसने अपने स्वामी को मेवाड के राज-सिंहासन पर पुन प्रतिष्ठित करने के लिये अलौकिक आत्मोत्सर्ग का परिचय दिया। उसने न केवल अपने समय का ही उपार्जित धन फिन्तु अपने पूर्व पुरुषों का समस्त सज्जित धन अपने स्वामी मेवाडेश्वर के पद पङ्कज पर रख दिया। और विाती की यि नाथ! आप इस देशकी छोड़फर न जाय, इस देश का उद्धार कीजिये। प्रताप और उनके परिवार! यग्न-

भामासाह का यह एल्य देगकर चकित और स्तम्भित हो गये, प्रताप के साथियों के उदास चेहरे पर हँसी की रेता दिल-लाई पड़ने लगी। प्रताप के शिविर में से "जयभामासाह की जय" ऐसी से घारों दिशा गू जने लगीं। उसी दिन से भामासाह मेंगाड़ के उद्धार कर्ता फ़दलाये जाने लगे।

पृथ्वीराज के पश्च और भामासाह के अलीकिक आत्मो त्सर्ग ने गरी हुई राजपूत जाति के लिये सञ्जीवनी शक्ति का कार्य किया। जो राजपूत धीर निराश हो चुके थे। उनके हृदय में थाना का न्योत घहने लगा। धीरेन्द्र प्रताप का साहस पाले से और भी दुगना हो गया। कहते हैं कि भामासाह का इतना धन था कि उससे पच्चीस हजार धीरों का वारह वर्ष तक निर्धार अच्छो तरह से हो सकता था। भामासाह से धन की सहायता पाकर धीरेन्द्र प्रताप फिर अपनी प्रतिष्ठा पूरी करने की चेष्टा करने लगे। धन के धमावं से। जो सिपाही चिदापकर दिये गये थे। उनको फिर बुलवाया गया, युद्ध के लिये हथियार घगीर सामग्री इकट्ठी की गई। राजपूत सेना के लिये नये घोड़ो खरीदे गये। सेना की। यह सेव तथायारी इतनी छिपाकर की गई कि मुगल सम्राट अंकेवरे और उनकी सेना को इसका कुछ पता भी नहीं लगा।

# उन्नासवा पारच्छ्रद्ध

मेवाड़ विजय

“चलौ चलौ सब बीर आजु मेवार उबारै ।

अहो आज या पुण्य भूमि से शत्रु निकारै ।

चिर स्वतन्त्र यह भूमि यवन कर सों उद्धारै ।

हिन्दू नामहिं थापि धर्म वरिगनहि पछारै ॥

नभ भेदि आजु मेवाड़ पै उडै शिशोदिया कुल ध्वजा ।

जा शीतल छाया तरे रहै सदा सुख सों पुजा ॥

श्री राजाकृष्णदास

सेना का सब सामान इकट्ठा करके प्रताप स्वेश उद्धार हे लिये चले । इस बार बीरेन्द्र प्रताप ने एक और भी कठोर प्रतिष्ठा की । उनकी प्रतिष्ठा थी कि यदि देश का उद्धार नहीं कर सकेंगे तो आत्मघात, करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर देंगे । इधर प्रताप की ऐसी कठोर प्रतिष्ठा थी उधर मुग्ल शाहबाज खा देवीर नामक स्थान में पडाव ढाले हुए था । वह राजपूतों को ओर से बिलकुल निश्चन्त था । वह महाराणा का मेवाड़ छोड़ कर जाना सुनकर अनेक प्रकार के मनमोदक वांध रहा था । वह समझे हुये था कि उसका मार्ग बिलकुल काटी से साफ हो जावेगा । परन्तु थोड़ेही दिनों पहिँे शाहबाज खा को अपनी भूल छात हुई । एक दिन प्रताप की सेना ने अकस्मात् शाहबाज खाँ की सेना पर आक्रमण किया । मुग्ल सेना प्रताप के आकस्मिक आक्रमण को सहन करने में समर्थ नहीं हो सकी, वह मैदान छोड़कर भाग गई । जिस तरह से हिमालय के शिलर से निकलती गंगा जी का ऊपर ले जाना असम्भव है

वैसे ही उस समय राजपूत बीरों का उत्साह रोकना असम्भव था। राजपूत बीरों ने भागते हुए मुगल सैनिकों का पीछा किया और मुगल सेना को बिलकुल नष्ट कर दिया मुगल सेना प्रताप को दल बल सहित कैद करने को चेष्टा करने लगी पर प्रताप के सामने मुगल सेना को कुछ न चली। उनकी सेना ने मुसलमानों का पीछा आमेट तक किया। राजपूत बीरों ने आमेट के मुसलमान गढ़ रक्षकों को काट डाला। पीछे कुम्भलमेर पर धावा मारा मुगल सेना यहाँ हार गई विजय लक्ष्मी ने राजपूत बीरों का बरमाल पहनाई। कुम्भलमेर किले का मुसलमान किलेदार अयदुज्जाखा भी मारा गया उसकी समस्त सेना मारी गई। सफलता उद्योग की दासी है। परमात्मा भी उसी की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता आप करते हैं। राणा प्रताप का उद्योग सफल हुआ। योड़े ही दिनों में ३२ किले उन्होंने मुसलमानों से छीन लिये एक बप अर्थात्, सन् १५८६ ई० के भीतर, ही भीतर उन्होंने चित्तीड़ उदयपुर और मोद्दलगढ़ को छोड़ सारा मेवाड़ अपने हस्तगत कर लिया। अंवेर (जयपुर) के मानसिंह के वाणिज्य स्थल मालपुर को लूटकर उन्होंने मानसिंह को भी शिक्षा दी थी। एक समय प्रताप ने चित्तीड़ के उद्धार करने के कठिन ब्रत में अपने देश भाइयों की बस्ती उजाड़ डाली थी, दूसरी बार अपने प्रबल राजुओं के खून में तल्यार रङ्ग कर मेवाड़ भूमि शमशान भूमि बना दी।

राजपूत बीरों के साहस और प्राक्रम से घबड़ा कर मुसलमान सेना ने उदयपुर छोड़ देना ही गभीरत समझा। इससे उदयपुर भी प्रताप के हाथ लग गया। बादशाह अकबर को इस तरह अपने हाथ से मेवाड़ निकल जाने पर अत्यन्त झोक हुआ। फिर उसने मेवाड़ लेने की आशा नहीं की।

# उन्नीसवां परिच्छेद

## मेवाड़ विजय

“चलौ चलौ सब बीर आजु मेवार उद्धारै ।

— अहो आज या पुण्य भूमि से शत्रु निकारै ॥

विर स्वतन्त्र यह भूमि यवन कर सों उद्धारै ।

हिन्दू नामहि थापि धर्म अरिगनहि पछारै ॥

नभ मेदि आजु मेवाड़ पै उड़ै शिशोदिया कुल ध्वजा ।

जा शीतल छाया तरे रहै सदा सुख सों पूजा ॥

श्री राधाकृष्णदास

सेना का सब सामान इकट्ठा करके पूताप स्वदेश उद्धार के लिये चले । इस घार बीरेन्द्र पूताप ने एक और भी कठोर प्रतिष्ठा की । उनकी प्रतिष्ठा थी कि यदि देश का उद्धार नहीं कर सकेंगे तो आत्मघात, करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर देंगे । इधर पूताप की ऐसी कठोर प्रतिष्ठा थी उधर मुग्गल शाहबाज खा देवीर नामक स्थान में पड़ाव ढाले हुए था । वह राजपूतों की ओर से बिलकुल निश्चिन्त था । वह महाराणा का मेवाड़ छोड़ कर जाना सुनकर अनेक पूकार के मनमेदक बाध रहा था । वह समझे हुये था कि उसका भार्ग बिलकुल काँटो से साफ होजावेगा । परन्तु थोड़ी ही दिनों पीछे शाहबाज खा को अपनी भूल छात हुई । एक दिन पूताप की सेना ने अकस्मात् शाहबाज खाँ की सेना पर आक्रमण किया । मुग्गल सेना पूताप के आकस्मिक आक्रमण को सहन करने में समर्थ नहीं हो सकी, वह मैदान छोड़कर भाग गई । जिस तरह से हिमालय के शिखर से निकलती गंगा जी का ऊपर ले जाना असम्भव है ।

वैसे ही उस समय राजपूत थीरों का उत्साह दोकना असम्भव था। राजपूत थीरों ने भागते हुए मुगल सेनिकों का पीछा किया और मुगल सेना को बिलकुल नष्ट कर दिया मुगल सेना प्रताप का दल थल सद्वित केद करने की चेष्टा करने लगी पर प्रताप के सामने मुगल सेना की कुछ न चली। उनकी सेना ने मुसलमानों का पीछा आमेट तक किया राजपूत थीरों ने आमेट के मुसलमान गढ़ रक्षकों को काट डाला। पीछे कुम्भलमेर पर धावा मारा मुगल सेना यहाँ हार गई विजय लश्मी ने राजपूत थीरों को वरमाल पहनाई। कुम्भलमेर किले का मुसलमान किलेदार अबदुल्लामा भी मारा गया उसकी समस्त सेना मारी गई। सफलता उद्योग की दासी है। यरमात्मा भी उसो को सहायता करते हैं जो अपनी सहायता आप करते हैं। राणा प्रताप का उद्योग सफल हुआ। थोड़े ही दिनों में ३२ किले उन्होंने मुसलमानों से छोन लिये एक घण अर्थात् सन् १५८६ ई० के भोतर ही भोतर उन्होंने चित्तोड उदयपुर और भोद्धलगढ़ को छोड़ सारा मेवाड़ अपने हस्तगत कर लिया। अविर ( जयपुर ) के मानसिंह के वाणिज्य स्थल मालपुर को लूटकर उन्होंने मानसिंह की भी श्रिक्षा ही थी। एक समय प्रताप ने चित्तोड के उदार करने के कठिन व्रत में अपने देश भाइयों की वस्ती उजाड डाली थी, दूसरो बार अपने प्रबल शत्रुओं के खून में तलवार रङ्ग कर मेवाड़ भूमि श्रमशान बना दी।

राजपूत थीरों के साहस और यराकम से मुसलमान सेना ने उदयपुर छोड़ देना ही गती इससे उदयपुर भी प्रताप के हाथ लग गया। को हस तरह अपने हाथ से निकल जाने को हस तरह अपने हाथ से आया, शोक हुआ। फिर उसने

कि इस को मेवाड़ की पहली विजय ही बहुत महंगी पड़ी थी। काइ, कोई इतिहास लेखक कहते हैं कि, प्रताप का साहस धार्त्य और उद्योग देख कर अकबर का मन पिघल गया और भाक में झूचकर यह उनको अधिक कष्ट न दे सका। हम एस कहने चालों के साथ कदांप सहमत नहा हा सकते हैं। भला जिस अकबर का हल्दीघाटी म चौदह हजार राजपूतों का रक्त बहते दूखकर हृदय नहा पिघला उसका अब हृदय, क्यों पिघलने लगा ?। कोई भा विचारशील मनुष्य अकबर के हृदय पिघलन पर नहा व्यश्वास कर सकता है। अकबर के हृदय पिघलने के विषय में कहना, चण्डू खाने की गति से कुछ क्रम नहा है। यदि थोड़ी दर क, लये मान, भी लं तक अकबर का हृदय पिघल भा गया था, तो अकबर का यह पिघलना चैसा ही था, जेसा इस यूरापायन, महाभारत म रुक्ष का पोलेण्ड को स्वराज्य देना है जब बड़े बड़े राष्ट्रों का कुछ घश नहीं चलता है तब व अपना इज्जत आवह, रखने के लिये ऐसी ही लाचारी उदारता दिखलात ह, जेसी इस समय रुक्ष ने पोलेण्ड के प्रात दिखलाया ह। समझ है, अकबर का भा कुछ ऐसी ही तीव्र दूसरा बार में मधाड़ पर आक्रमण करन, म हो, कम से कम यह तो इत्तहास के प्रत्येक निष्पक्षपाता-

अकबर का हृदय पिघलना असम्भव था क्योंकि Badouni, Vol. II. p. 240 में “तबकाते अकबरी” के भाधार पर लिया दुआ है। “वृष सुमय मानसिंह के अधीन, मुग्ल सेना प्रताप, का राज्य लूटना, चाहता था पर मानसिंह ने मने कर दिया। इस पर अकबर ने कुछ दिना के लिये दरबार दोरी, रोक दी थी, IIIjots History of India Vol. p. 40 म इत्ता दुआ है कि मुसलमान सेतापुति भाषफुखों को सी दूस तरह सादराद का शोधपात्र बनना पड़ा था।”

## मेवाड विजय

विद्यार्थी को मानना पड़ेगा कि लगातार के बाईस वर्ष के यु  
द्ध अकबर की आखे खोल दी थी कि मेवाड के राजपूत जो  
दूज में ही मरने घाले नहीं हैं। मेवाड की विजय में उसका  
कि बहुत नए होनी है।

# बीसवाँ परिच्छेद

जीवन सन्ध्या और अन्तिम शन्देश  
“राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम।  
राम, राम रामहिं रटत, राव गये सुरधाम”।

तुलसोदास

\* \* \* \* \*

“जननी अद्य जन्मभूमि को बढ़ प्राणहु ते देख। ✓  
इनकी रक्षा के लिये प्राण न कहु अवरेह”।

मेवाड़ का उद्धार हुआ उद्यपुर भी हाथ में आगया पर  
चित्तौड़ का उद्धार न हो सका जिस चित्तौड़गढ़ उद्धार के लिये  
फठिन प्रतिष्ठा की थी उस चित्तौड़गढ़ से अभी तक मुसलमान  
दूर नहीं हुये। हाय। जन्मभूमि चित्तौड़ अभी तक मुग़लों के  
हस्तगत है। यह दारण-वेदना महाराणा प्रतापसिंह को दूर न  
हुई। चित्तौड़ की दुर्दशा देखकर और उसके पूर्व गौरव को  
हमरण करके, प्रताप का मानसिक कष्ट दूर नहीं हुआ। अनेक  
आपदा, विपदाओं के भेलने और रातादन चिन्ता कपी  
सर्पिणी हुके उसने से उनका अन्तिम समय बान पहुचा संघर्  
१६५३ में प्रताप का अपूर्ण वय में ही देहान्त हो गया।

इस चंसार से चलते समय भी प्रताप के हृदय से  
चित्तौड़गढ़ की दुर्दशा दूर नहीं हुई उस समय उनके  
प्राण पखेह को बड़ी कठोर वेदना हुई। उस समय राजपर्व  
प्रतापसिंह दृण की शर्या पर अपना कुटी में लेटे हुये थे  
उनके चारों ओर नामी नामी सरदार जमा थे, सब जुप बाप  
थे, किसी के मुद्दे से एक अक्षर भी नहीं निकलता था,

सभी व्यथित हृदय होकर महाराणा के अन्तिम दर्शन कर रहे थे। महाराणा का अन्तिम कष्ट देखकर चन्द्रावत् सरदार ने बड़े कोमल शब्दों में पूछा—अग्रदाता जी। इस समय ऐसा कौन सा कष्ट है, जो श्रीमान को विश्राम नहीं करने देता। इस पर घोरेन्द्र प्रताप ने सदैव की माँति उत्तर दिया—मुग़लों के हाथ में मेवाड़ भूमि न जाने पावेगी, यह प्रतिष्ठा सुनने पर ही शान्ति के साथ प्राणत्याग करूँगा। इसके कुछ देर पीछे महाराणा प्रतापसिंह ने कहा—पीछोला तालाब के किनारे पर विपत्ति के समय वर्षा और धूप से धूने के लिये कुछ झोपड़ियाँ धनाई गई थीं उनमें से एक दिन अमरसिंह बाहर निकल रहा था, कि छप्पर के धास में उसकी पगड़ी उलझ गई, इससे वह दुखित और क्रोधित हुआ, इस यात को देखकर मैंने निश्चय कर लिया कि जन्म भूमि की रक्षा के लिये, स्वदेश के गौरव को सिर रखने के लिये जो जो कष्ट सहन करने होते हैं उन्हें अमरसिंह सहन नहीं कर सकेगा। इसके रहने के लिये सुन्दर बड़े बड़े महल चाहिये जब सुख पाने की इच्छा हुई, तथा सुख में पड़कर कौन स्वदेश रक्षा कर सकता है। जिस मातृभूमि के गौरव को रक्षा के लिये, हमारे हजारों राजपूत धीरों ने रक बहाया था, वह मातृभूमि का गौरव यों ही विलीन हो जायगा। उस समय हाय। तुम लोग भी प्रण को भूलकर भोग बिलासता में फँस जाओगे तब कैसे शान्ति पूर्वक प्राणों विसर्जन करूँ।

यह कहकर राजसिंह प्रताप क्रोध और आवेश में शश्या से उठ बैठे सरदारों ने विनय पूर्वक शश्या पर सलूब्ना राव तथा सब सरदारों ने प्रतहि की धाप्यारावल के राजसिंहासन को छूकर प्रतिष्ठा

# बीसवाँ परिच्छेद

जीवन सन्ध्या और अन्तिम सन्देश

“राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम।  
राम, राम रामहिं रटत, राव गये सुरधाम”।

तुलसीदास

\* \* \* \*

“जननी असु जन्मभूमि को बढ़ प्राणहु ते देख।

इनकी रक्षा के लिये प्राण न कछु अवरेख”।

मेवाड़ का उद्धार हुआ उदयपुर भी हाथ में आगया पर  
चित्तौड़ का उद्धार न हो सका जिस चित्तौड़गढ़ उद्धार के लिये  
कठिन प्रतिक्षा की थी उस चित्तौड़गढ़ से अभी तक मुसलमान  
दूर नहीं हुये। हाय! जन्मभूमि चित्तौड़ अभी तक मुग़लों के  
दूरतगत है। यह दारुण-वेदना महाराणा प्रतापसिंह का दूर न  
हुई। चित्तौड़ की दुर्दशा देखकर और उसके पूर्व गौरव को  
झमरण करके, प्रताप का मानसिक कष्ट दूर नहीं हुआ। अनेक  
आपदा, विपदाओं के भेलने और रातादन चिन्ता रूपी  
संपिणी के उसने से उनका अन्तिम समय आन पहुचा संबद्ध  
१६५३ में प्रताप का अपूर्ण दय में ही देहान्त हो गया।

इस संसार से चलते समय भी प्रताप के दृश्य से  
चित्तौड़गढ़ की दुर्दशा दूर नहीं हुई। उस समय उनके  
प्राण पखेब को बड़ी कठोर वेदना हुई। उस समय राजपिं  
प्रतापसिंह तृण की शर्या पर, अपना कुटी में लेटे हुये थे  
उनके चारों ओर नामी नामी सरदार जमा थे, सब झुप चाप  
थे, किसी के मुँह से एक असूर भी नहीं निकलता था,

समी व्यथित हृदय होकर महाराणा के अन्तिम दर्शन कर रहे थे। महाराणा का अन्तिम कष्ट देखकर चन्द्रावत् सरदार ने बड़े कोमल शब्दों में पूछा—अनन्दाता जी! इस समय ऐसा कौन सा कष्ट है, जो श्रीमान को विश्राम नहीं करने देता। इस पर बीरेन्द्र प्रताप ने सदैव की भाँति, उत्तर दिया:—मुग़लों के हाथ में मेवाड़ भूमि न जाने पावेगी, यह प्रतिष्ठा सुनने पर ही शान्ति के साथ ग्राणत्याग, करूँगा। इसके कुछ देर पीछे महाराणा प्रतापसिंह ने कहा—पीछोला तालाब के किनारे पर गिप्ति के समय वर्षा और धूप से बचने के लिये कुछ झोपड़ियाँ बनाई गई थीं उनमें से एक दिन अमरसिंह बाहर निकल रहा था कि छप्पर के बास में उसकी पगड़ी उलझ गई, इससे वह दुखित और क्रोधित हुआ, इस बात को देखकर मैंने निश्चय कर लिया कि जन्म भूमि की रक्षा के लिये, स्वदेश के गौरव को स्थिर रखने के लिये जो जो कष्ट सहन करने होते हैं उन्हें अमरसिंह सहन नहीं कर सकेगा। इसके रहने के लिये सुन्दर बड़े बड़े महल चाहिये जब सुख पाने की इच्छा हुई, तब सुख में पड़कर कौन स्वदेश रक्षा कर सकता है। जिस मारुभूमि के गौरव की रक्षा के लिये, हमारे हजारों राजपूत घोरों ने रक्त बहाया था, वह मारुभूमि का गौरव यों ही विलीन हो जायगा। उस समय हाय! तुम लोग भी प्रण को भूलकर भोग बिलासता में फ़स जाओगे तब कैसे शान्ति पूर्वक, प्राणों का विसर्जन करूँ।

यह कहकर राजर्षि प्रताप क्रोध और आवेश में बाकर शश्या से उठ बैठे सरदारों ने विनय पूर्वक संलूँग्रा राव तथा सब सरदारों ने प्रतिष्ठि बाप्पारावल के राजसिंहासन को छूकर

# बीसवाँ परिच्छेद

जीवन सन्ध्या और अन्तिम सन्देश

“राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम ।  
राम, राम रामहि रटत, राव गये सुरथाम”।

तुलसीदास

\* \* \* \*

“जननी अद्य जन्मभूमि को बढ़ प्राणहु ते देख ।  
इनकी रक्षा के लिये प्राण न कहु अवरेख”।

मेवाड़ का उद्धार हुआ उद्यपुर भी हाथ में आगया पर  
चित्तौड़ का उद्धार न हो सका जिस चित्तौड़गढ़ उद्धार के लिये  
फठिन प्रतिष्ठा की थी उस चित्तौड़गढ़ से अभी तक मुसलमान  
दूर नहीं हुये । हाय ! जन्मभूमि चित्तौड़ अभी तक मुग़लों के  
दूसरे दूर नहीं हुई । यह दारुण-वेदना महाराणा प्रतापसिंह को दूर न  
हुई । चित्तौड़ की दुर्दशा देखकर और उसके पूर्व गौरव को  
हमरण करके, प्रताप का मानसिक कष्ट दूर नहीं हुआ । अनेक  
आपदा, विपदाओं के भेलने और रातादून चिन्ता कंपी  
संपिणी के उसने से उनका अन्तिम समय आन पहुचा सघर्  
१६५३ में प्रताप का अपूर्ण वय में ही देहान्त हो गया ।

इस संसार से चलते समय भी प्रताप के हृदय से  
चित्तौड़गढ़ की दुर्दशा दूर नहीं हुई उस समय उनके  
प्राण पखेर को बड़ी कठोर वेदना हुई । उस समय राजपि  
प्रतापसिंह दृण की शरण पर, अपना कुटी में लेटे हुये थे  
जनके चारों ओर नामी नामी सरदार जमा थे, सब जुप जाप  
थे, किसी के मुँह से एक ‘अस्तर भी’ नहीं निकलता था,

सभी अधिक बुद्धि होकर महाराणा के अन्तिम दर्शन कर रहे थे। महाराणा का अन्तिम कष्ट देखकर चल्लावत् सरदार ने बड़े कोमल शब्दों में पूछा—अन्नदाता जी! इस समय ऐसा कौन सा कष्ट है, जो श्रीमान को विद्रोह नहीं करने देता। इस पर बीरेन्द्र प्रताप ने सद्वैष की भाँति उत्तर दिया—मुगलों के हाथ में मेवाड़ भूमि न जाने पावेगी, यह प्रतिहा सुनने पर ही शान्ति के साथ ग्राणत्याग करूँगा। इसके कुछ देर पीछे महाराणा प्रतापसिंह ने कहा:—पीछोला तालाब के किनारे पर रिपति के समय घर्षा और धूप से बचने के लिये कुछ फोपड़ियाँ घनाई गई थीं उनमें से एक दिन अमरसिंह बाहर निकल रहा था कि छण्डर के बास में उसकी पगड़ी उलझ गई, इससे वह दुखित और क्रोधित हुआ, इस बात को देखकर मैंने निश्चय कर लिया कि जन्म-भूमि की रक्षा के लिये, स्वदेश के गौरव को सिर रखने के लिये जो जो कष्ट सहन करने होते हैं उन्हें अमरसिंह सहन नहीं कर सकेगा। इसके रहने के लिये सुन्दर बड़े बड़े मण्डल आहिये जब सुख पाने की इच्छा हुई, तब सुख में पहकर कौन सदेश रक्षा कर सकता है। जिस मातृभूमि के गौरव की रक्षा के लिये, हमारे हजारों राजपूत चौरों ने रक्षा की था, वह मातृभूमि का गौरव यों ही चिलोन ही जायगा। उम रामय हाय। तुम लोग भी प्रण को भूलकर भोग बिला भाग में फैस जाओगे तब कैसे शान्ति पूर्वक ग्राणों विमर्शन कर।

यह कहकर राजविंश प्रताप कोष और आवेश में उथा से उठ लेडे सरदारों ने विनय पूर्वक गैत्री पर गर्भुद्वा राव तथा उब सरदारों में प्रतिहा की गारारावत के राजसिंहासन को छक्कर प्रनिहाला



